



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2—जून 8, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929)  
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2—JUNE 8, 2007 (JYAJSTHA 12, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

#### संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. ए. 19014/2/2007-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के के.स.से. के ग्रेड-I अधिकारी श्री एस.बी. सरोहा, (जन्मतिथि 04.06.1954) वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत को 04 अप्रैल, 2007 पूर्वा. से आगामी आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में के.सचि.से. चयन ग्रेड में (उप सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या के.सचि.से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं मिलेगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकेगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 फरवरी, 2007 के आदेश सं. 4/8/2006 सी. एस-I तथा 19 मार्च, 2007 के कार्यालय आदेश सं. 4/1/2006 सी.एस-I के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 25 अप्रैल 2007

सं. ए. 19014/11/01-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, के.स.से. के ग्रेड-I अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल, (जन्मतिथि 06.06.1951) को 04 अप्रैल, 2007 पूर्वा. से आगामी आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में के.सचि.से. चयन ग्रेड में (उप सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल

किए जाने या के.सचि.से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं मिलेगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकेगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 अप्रैल, 2007 के आदेश सं. 4/02/2006 सी. एस-1 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 11 मई 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/101/3/26/2002--श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा.पु. सेवा (बिहार : 1991), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, केन्द्र सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने पर, दिनांक 02.05.2007 अपराह्न से बिहार सरकार को सौंप दी गई हैं।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 15 मई 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/103/3/25/99--श्री एम.ए. गणपति, भा.पु. सेवा (उत्तरांचल : 1986), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, केन्द्र सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने पर, दिनांक 06.04.2007 अपराह्न से उत्तरांचल सरकार को सौंप दी गई हैं।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2007

सं. 2/2/07-प्रशासन/56549--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी, श्री एम.ए. खान को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 15.05.2007 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. एम. फिल्लै  
विशेष कार्य अधिकारी  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

#### गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500 052, दिनांक 11 मई 2007

सं. 15011/6/2007-स्था.--श्री शिरीष जैन, भा.पु.से. (महाराष्ट्र : 99) को माननीय राष्ट्रपति, दिनांक 07 मई, 2007 पूर्वाह्न से स.व.प्र. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर चार वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त करते हैं।

डॉ. जी. एस. राजागोपाल  
निदेशक

सं. 15011/6/2007-स्था.--श्रीमती अनुपम सक्सेना सिंह, भा.पु.से. (उत्तरप्रदेश : 95) को माननीय राष्ट्रपति, दिनांक 07 मई, 2007 पूर्वाह्न से स.व.प्र. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर चार वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त करते हैं।

डॉ. जी. एस. राजागोपाल  
निदेशक

#### महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 11 मई 2007

सं. ओ-दो-2133/86-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ओ.जी.) (इरला-2390), आर.टी.सी.-5, के.रि.पु. बल, धरमपुर (हि.प्र.) ने स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 1.5.2007 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 1.5.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 15 मई 2007

सं. ओ-दो-3744/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर (मिसेस) शितोले आशा सुधाकर को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 07.05.2007 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, नागपुर (महाराष्ट्र) में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-6471/2007-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 30.12.2006 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री एम. राजा पांडियन, सहायक कमाण्डेन्ट (इरला : 6471), 110 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 01.04.2007

(पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.04.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 17 मई 2007

सं. ओ-दो-3745/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर जगत आनंद सुरीन को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 26.03.07 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, सिंदरी, धनबाद (बिहार) में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3746/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर शिवाजी सिंह को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 30.04.07 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 180 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 17 मई 2007

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक.1/38--राष्ट्रपति, के.औसुब को निम्नलिखित निरीक्षक/(अनुसचिवीय/आशुलिपिक) को नियमित पदोन्नति पर के.औसुब में सहायक कमाण्डेन्ट/जे.ए.ओ. के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेन्ट/जे.ए.ओ. के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
(सर्व श्री)			
1.	एम.एम.एस. रावत	समूह मुख्यालय, हैदराबाद	30.04.2007
2.	जी.एस. बिष्ट	समूह मुख्यालय, चैन्नई	27.04.2007
3.	एस.एस. बिष्ट	समूह मुख्यालय, दिल्ली	30.04.2007
4.	सुनील लकरा	चतुर्थ आरक्षित बाहिनी मुण्डाली	01.05.2007
5.	ए.के. चक्रवर्ती	समूह मुख्यालय, इलाहाबाद	27.04.2007

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक. 1/39--राष्ट्रपति, के.औसुब को निम्नलिखित कमाण्डेन्टों को 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ कमाण्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
(सर्व श्री)			
1.	बी.बी. सिंह	पीटीपीएस पनकी	19.04.2007
2.	एस.एस. गुसाई	डीईई कलपाकम	19.04.2007
3.	आर.सी. हुरिया	बल मुख्यालय, वर्क्स	19.04.2007
4.	काशी राम	समूह मुख्यालय, अहमदाबाद	19.04.2007
5.	अलकेश भटनागर	लखनऊ एयरपोर्ट	19.04.2007
6.	ए.एस. पनवर	बीडीएल कंचनबाग	02.05.2007

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 14 मई 2007

सं. 1/8/2006-प्रशा. III--राष्ट्रपति, श्री त्रिलोचन सिंह जोहर को 11.04.2007 से भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रॉनिक डाय प्रोसेसिंग) के रूप में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करते हैं।

देवेन्द्र कुमार सीकरी  
अपर सचिव (भारत के महारजिस्ट्रार)

सं. 1/37/2005-प्रशा. III(पीटी.)--राष्ट्रपति, श्री बी.एम.एल. जैन को 7.5.2007 से भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में अपर निदेशक (इलैक्ट्रॉनिक डाय प्रोसेसिंग) के रूप में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करते हैं।

देवेन्द्र कुमार सीकरी  
अपर सचिव (भारत के महारजिस्ट्रार)

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 15 मई 2007

सं. बीएनपी/सी/44/98-1--श्री जी.के. कुलकर्णी, उप तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना) को तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना)

के पद पर वेतनमान रूप 6,500--10,500 (समूह-ख राजपत्रित) दिनांक 01.05.2007 से अन्य आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

सं. बीएनपी/सी/44/98-I--श्री डी.आर. टिल्लू नियंत्रण निरीक्षक को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर वेतनमान रूप 6,500--10,500 (समूह-ख राजपत्रित) दिनांक 01.05.2007 से अन्य आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोंडनाले  
महाप्रबन्धक

#### भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 16 मई 2007

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-44--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री रवि कथूरिया और श्री एकमकार सिंह विरदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को रूप 7,500-250-12,000 के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 11.5.2007 (अपराह) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क. प्रसाद  
निदेशक (प्रशासन)

#### कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान

जयपुर, दिनांक

सं. प्रशा.1/ले.प./पी.13044/2007--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
(सर्व श्री)		
1.	बाबू लाल गुप्ता	02.01.2007
2.	गौरी शंकर शर्मा	01.02.2007
3.	दया राम यादव	01.02.2007
4.	प्रकाश जैन	01.03.2007
5.	राम सिंह मीणा-II (अ.ज.जा.)	26.03.2007
6.	जुगल किशोर शर्मा-III	02.04.2007

बी. के. जैन  
वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.1

सं. प्रशा.1/ले.प./पी.13044/2007--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहा. लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000 में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
(सर्व श्री)		
1.	प्रमोद कुमार	02.01.2007
2.	जालम सिंह	01.02.2007
3.	रमन लाल सिंहल	02.02.2007
4.	ओम प्रकाश शर्मा-IV	01.03.2007
5.	ओम प्रकाश गर्ग-II	01.03.2007
6.	सत्य नारायण मंगल	26.03.2007
7.	कृष्ण मुरारी माथुर	02.04.2007
8.	चैन सिंह पंवार	30.04.2007

बी. के. जैन  
वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.1

सं. प्रशा.1/ले.प./पी.13044/2007--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,450-225-11,500 में सहा. लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
(सर्व श्री)		
1.	हंस राज नाटाणी	02.01.2007
2.	चेतन रूपानी	29.01.2007
3.	हरि प्रसाद वर्मा	01.02.2007
4.	रवि कान्त शर्मा	02.02.2007
5.	मान मल दक	01.03.2007
6.	विश्वजीत भट्टाचार्य	01.03.2007
7.	एडविन सबेस्टियन	28.03.2007
8.	जगदीश प्रसाद पांचाल	27.04.2007
9.	हरीश मेंहदीरत्ता	04.05.2007

बी. के. जैन  
वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.1

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल  
कोलकाता-700 001, दिनांक 15 मई 2007

सं. प्रशासन-III/पेन/5-2/खंड-I/66--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री रथीन्द्र नाथ मिश्र, वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी और श्री मानस मजुमदार, वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.04.2007 (अपराह्न) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बी. के. मुखार्जी  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय, कोलकाता  
कोलकाता-1, दिनांक 16 मई 2007

सं. गोपनीय/सी/470-II/2007/ 216(11)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता के आदेशानुसार श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) (1 जनवरी 2007 छुट्टी होने के कारण) से तत्काल प्रभाव से वेतनमान रु. 7500-250-12000 में "तत् निम्न नियम" के अंतर्गत पदोन्नति दी जाती है।

"तत् निम्न नियम" के अंतर्गत पदोन्नति की स्वीकृति का पूर्व उदाहरण की शर्तें, जैसा कि एफ आर (स्वामी का एफ आर एवं एस आर खंड-I 2006 संस्करण) के नीचे भारत सरकार का निर्णय सं. 33 में है, इस मामले में पूरी करता है और श्री सिंह द्वारा धारित पद जो अभी प्रतिनियुक्ति पर है, सेवा नियमित क्रम से बाहर है।

श्री सिंह, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. गोपनीय/सी/538/2007/253(14)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता श्री प्रदीप कुमार घोष, लेखापरीक्षा अधिकारी को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान में 1.02.2007 (पूर्वाह्न) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

श्री घोष को निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के  
2-8642107

अंतर्गत एफ आर 22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक/प्रशासन

सं. गोपनीय/सी/470-II/2007/254(14)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता श्री रतन कुमार शर्मा, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 7500-250-12000/- के वेतनमान में 1.02.2007 (पूर्वाह्न) या उस तिथि से जिस तिथि को वे लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

श्री शर्मा को निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

उनका भविष्य में शाखा कार्यालय ए एन आई/पोर्ट ब्लेयर में स्थानान्तरण किया जाएगा। पदस्थापन आदेश एवं नियत तिथि बाद में आएगी।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक/प्रशासन

सं. गोपनीय/सी/470-II/2005/392(14)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता श्री समीर कुमार गुहा, लेखापरीक्षा अधिकारी को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान में 2.04.2007 (पूर्वाह्न) (1 अप्रैल 2007 छुट्टी होने के कारण) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

श्री गुहा को निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक/प्रशासन

सं. गोपनीय/सी/538/2007/34(14)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता श्री प्रदीप कुमार लाकरा, लेखापरीक्षा अधिकारी को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 1.05.2007 (पूर्वाह) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

श्री लाकरा को निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.जा.सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक/प्रशासन

#### लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2007

सं. ए-19018/301/77-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, श्री के. श्यामजी, उप निदेशक (रसायन), लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद को तदर्थ आधार पर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए या नियमित आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश होने तक या अप्रेतर आदेश होने तक, मैं से जो भी पहले हो, लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में, दिनांक 02.04.2007 के पूर्वाह से अगले आदेश होने तक लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा में निदेशक (रसायन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सरिता पुरी  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1599/2001-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (विद्युत), श्री अशोक कुमार वर्मा को स्थानापन्न आधारित लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में उप निदेशक (विद्युत) के पद पर दिनांक 23.04.2007 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

सरिता पुरी  
उप निदेशक (प्रशा.)

#### भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248 001, दिनांक 10 मई 2007

सं. सी-112/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा

ग्रुप 'बी') के पद पर रुपए 7,450-225-11,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती ज्योतसना पॉल	09.04.2007
2.	श्री एम.आर. भास्कर	26.02.2007
3.	श्री बी.वी. मौली (अ.जा.)	26.02.2007
4.	श्री वी.डब्ल्यू. जूलियस	20.03.2007
5.	श्रीमती अविनाश सिंह	13.04.2007 (अप.)

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

#### भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 9 मई 2007

सं. पीडी/7(17)/2006/भर्ती-IV/एसओ(ई)/48473--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड ई के पद पर रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में, दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पूर्वाह से, डा. सलिल वर्मा, क्रम संख्या 18, श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रम सं. 94 एवं डा. अजय सिंह, क्रम संख्या 143 जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः 29 अगस्त 2006, 7 अगस्त 2006 एवं 2 अप्रैल 2007 के पूर्वाह से हैं, को छोड़कर, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री अरविंद मणीलाल पंचाल	एसओ/डी
2.	श्री कौशिक कयाल	एसओ/डी
3.	श्री रघुरामन राममुर्ति	एसओ/डी
4.	श्री राजेश कुमार सिंह	एसओ/डी
5.	श्री रंजन कुमार	एसओ/डी
6.	श्री वन चिनप्पन महीमइ राज	एसओ/डी
7.	श्री विजय कुमार	एसओ/डी
8.	श्री अमितवा राय	एसओ/डी
9.	श्री निलेश चौहान	एसओ/डी
10.	श्री गुंडलापल्ली लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी	एसओ/डी
11.	श्री कृष्णन चन्द्रशेखरन	एसओ/डी

1	2	3
12.	श्री जगदीश यादव	एसए/एफ
13.	श्री रणजीत मल्लिक	एसओ/डी
14.	श्री शिशिर कुमार सीट	एसओ/डी
15.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	एसओ/डी
16.	डा. (श्रीमती) मृणाल आर. पै	एसओ/डी
17.	डा. (श्रीमती) सादिका जाहेदखान पटवे	एसओ/डी
18.	डा. सलिल वर्मा	एसओ/डी
19.	श्री मनोज नल्लियात	एसओ/डी
20.	श्री अभीषेक भारद्वाज	एसओ/डी
21.	श्री अमित कुमार	एसओ/डी
22.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	एसओ/डी
23.	श्री राकेश कुमार कौशिक	एसओ/डी
24.	श्री सुशील कुमार बहुगुणा	एसओ/डी
25.	श्री युगदीप चन्द्रा	एसओ/डी
26.	श्रीमती कांचना जी. मेनन्	एसओ/डी
27.	श्रीमती नन्दिनी गुप्ता	एसओ/डी
28.	श्री मुंगत दामोदरन नायर	एसओ/डी
29.	श्री रत्नेश सिंह सेंगर	एसओ/डी
30.	श्रीमती शुचिस्मिता मिश्र	एसओ/डी
31.	श्री कौशल झा	एसओ/डी
32.	डा. (श्रीमती) मेरी एलक्स	एसओ/डी
33.	श्रीमती प्रीथा मनोज नायर	एसओ/डी
34.	श्रीमती साधना अरुण मंडलीक	एसओ/डी
35.	डा. के. कृष्णन	एसओ/डी
36.	डा. कैप्रत वीटिल लोहिताक्षन	एसओ/डी
37.	श्री अदेली रमेशभाभा नरसय्या	एसओ/डी
38.	श्री निलेश उमेश पटेल	एसओ/डी
39.	श्री राज कर्ण सिंह	एसओ/डी
40.	श्री रामकृष्णन शंकर	एसओ/डी
41.	श्री पाटील सतीश बालासाहेब	एसओ/डी
42.	श्री महेश वासुदेव राणे	एसओ/डी
43.	डा. अशोक कुमार वर्मा	एसओ/डी
44.	श्री सुकांत कर्माकर	एसओ/डी

1	2	3
45.	श्री अविचल राज कपूर	एसओ/डी
46.	श्री नसीम अहमद	एसओ/डी
47.	डा. किष्कमंगत सुरेश कुमार	एसओ/डी
48.	श्री हरिहरन शेषाद्री	एसओ/डी
49.	श्री प्रकाश काश्यप	एसओ/डी
50.	श्री वेलप्पन नायर श्रीकुमारी राजन	एसओ/डी
51.	श्री वेंकटरामन बालाजी	एसओ/डी
52.	श्रीमती उषा राधा कृष्णन	एसओ/डी
53.	श्री उरसल गोरख रावसाहेब	एसओ/डी
54.	श्री मुकेश लाल शाह	एसओ/डी
55.	श्री शुभ्र प्रकाश दे	एसओ/डी
56.	श्री स्वरूपानंद प्रधान	एसओ/डी
57.	श्री मुक्ती कान्त राय	एसओ/डी
58.	श्री अरुण कुमार	एसओ/डी
59.	श्री श्रीजित पे.	एसओ/डी
60.	श्री अजय सेनी	एसओ/डी
61.	श्री देवाशीष रथ	एसओ/डी
62.	श्री पांडुरंगय्या दौतु	एसओ/डी
63.	श्री श्रीकान्त शेषगिरीराव कातरकी	एसओ/डी
64.	श्री विजेन्द्र सिंह	एसओ/डी
65.	श्रीमती अनीता रा. पाटील	एसओ/डी
66.	श्री सूर्यकांत किसन थोरात	एसओ/डी
67.	श्री वेंकटेशन उदयमूर्ति	एसओ/डी
68.	श्री बेडसे रविंद्र दगाजी	एसओ/डी
69.	श्री अरिजित लायेक	एसओ/डी
70.	श्री संतोष कुमार	एसओ/डी
71.	श्री अरुणोदय मित्र	एसओ/डी
72.	श्री चन्दन कुमार चक्रवर्ती	एसओ/डी
73.	श्री ओम प्रकाश सिंह	एसओ/डी
74.	श्री रमाकान्त	एसओ/डी
75.	श्री सौरभ गोवर्धन	एसओ/डी
76.	श्री सौम्य सरकार	एसओ/डी
77.	श्री सुमित माइति	एसओ/डी

1	2	3
78.	श्रीमती विदिशा मित्र	एसओ/डी
79.	श्रीमती सौम्या खरे	एसओ/डी
80.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	एसओ/डी
81.	श्री प्रदोप एम.पी.	एसओ/डी
82.	श्री कमलेश अरुण दातीर	एसओ/डी
83.	श्री संजय कुमार	एसओ/डी
84.	श्री सुरेश कुमार	एसओ/डी
85.	श्री कमलेश मधुकर पंडीत	एसओ/डी
86.	श्री रघुवीर विरूपाक्षराव कुलकर्णी	एसओ/डी
87.	श्रीमती प्रेरणा मिश्रा	एसओ/डी
88.	श्री दक्षिणामूर्ती सिल्वराज	एसओ/डी
89.	श्री किंशुक दासगुप्त	एसओ/डी
90.	श्री हरेश नौबतराय कपूर	एसओ/डी
91.	श्री जयकरण	एसओ/डी
92.	श्री मनोज कुमार	एसओ/डी
93.	श्री मुकेश कुमार	एसओ/डी
94.	श्री अजय कुमार मिश्रा	एसओ/डी
95.	श्री इबुंगोहल ए.	एसओ/डी
96.	श्री नीरज उत्तम	एसओ/डी
97.	श्री पार्थ बक्शी	एसओ/डी
98.	श्री अनिबान कुमार मित्रा	एसओ/डी
99.	श्री हरी नारायण भिलवडे	एसओ/डी
100.	श्री कति सुदर्शन	एसओ/डी
101.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	एसओ/डी
102.	श्री पार्थ दास	एसओ/डी
103.	श्री संदीप कुलकर्णी	एसओ/डी
104.	श्री अनिल आन्तनी	एसओ/डी
105.	श्री दीप्ति रंजन होता	एसओ/डी
106.	श्री रवीन्द्र कुमार	एसओ/डी
107.	श्री वझे विनय विजय	एसओ/डी
108.	श्री अंकुर चटर्जी	एसओ/डी
109.	श्री मोधे सुरेंद्र हरिहर	एसओ/डी
110.	श्री अभय चतुर्वेदी	एसओ/डी

1	2	3
111.	श्री अडवण्णे शिवप्रकाश	एसओ/डी
112.	श्री दीप्ति कुमार मं.भि.	एसओ/डी
113.	श्री गणपति एस. हेगडे	एसओ/डी
114.	श्री जोसफ तोमस माम्परम्पिल	एसओ/डी
115.	श्री एन. सदानन्दन	एसओ/डी
116.	श्री आर. गणेशन	एसओ/डी
117.	श्री रोनाल्ड फेलिक्स सिक्वेरा	एसओ/डी
118.	श्री देवेन्द्र कुमार	एसओ/डी
119.	श्री हरदीप सिंह भाटिया	एसओ/डी
120.	श्री नन्द कुमार चौधरी	एसओ/डी
121.	श्री शंकरय्या बितला	एसओ/डी
122.	श्री सरोज काता महंति	एसओ/डी
123.	श्री ब्रह्मानन्द चक्रवर्ती	एसओ/डी
124.	श्री रा. कार्मिकेयन	एसओ/डी
125.	डा. सुदीप्ता चक्रवर्ती	एसओ/डी
126.	श्रीमती अर्चना मुखर्जी	एसओ/डी
127.	श्री अनिल कुमार जैन	एसओ/डी
128.	श्री पदमनाभ अय्यर सूर्यनारायणन	एसओ/डी
129.	श्री इमरान अली खान	एसओ/डी
130.	श्री मुरुवा हरि प्रसाद	एसओ/डी
131.	श्री ओ.एस. सेक मंसूर अली	एसओ/डी
132.	डा. भट प्रकाश नाना	एसओ/डी
133.	श्री अमित जैन	एसओ/डी
134.	श्री मारुती गणपत शिन्दे	एसओ/एफ
135.	श्री पदमनाभ पिल्लै रवीन्द्रन पिल्लै	एसओ/डी
136.	श्री रामकृष्णा पी.	एसओ/डी
137.	श्री वीरेन्द्र कुमार	एसओ/डी
138.	श्री कौशलेश पानसिंह रावत	एसओ/डी
139.	श्री नरेश कुमार	एसओ/डी
140.	श्री कबिन कुकिल भूयां	एसओ/डी
141.	श्री सौमेन भट्टाचार्या	एसओ/डी
142.	डा. (श्रीमती) शाश्वती सेन यरम	एसओ/डी
143.	डा. अजय सिंह	एसओ/डी



1	2	3
144.	श्री ए.के. जोत्सी	एसओ/डी
145.	श्री अखिल शुक्ला	एसओ/डी
146.	श्री नागशेट्टी शेट्टवाजी गायकवाड	एसओ/डी
147.	श्री नीरज कटियार	एसओ/डी
148.	श्री रवि दत्ता	एसओ/डी
149.	श्री अजय शिरोले	एसओ/डी
150.	श्री चेरिमल माधवन सुरेश बाबु	एसओ/डी
151.	श्री मेहता दर्शित बिपिनचंद्र	एसओ/डी
152.	श्री रामचंद्रन एम.	एसओ/डी

पी. वेणुगोपालन  
नियंत्रक

सं. पीडी/7(19)/2006/भर्ती-IV/एसओ/सी/48484--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड सी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, इसी अनुसंधान केंद्र में दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में कार्य करते हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3

1	2	3
1.	श्री उष्णीकृष्णन इडयनकरा काडनकोड	एसओ/एसबी
2.	श्रीमती निलिमा विवेक बालिंजकर	एसओ/एसबी
3.	श्री महेन्द्र कोठारी	एसओ/एसबी
4.	श्री नितिन विश्वनाथ पारकर	एसए/डी
5.	श्री तेवके वरपोत कुषी कुरियाक्कोस रेजी	एसओ/एसबी
6.	श्री कनक्कस्सेरी श्रीकुमार	एसओ/एसबी
7.	श्री सुब्रमणी कुमारवेल	एसओ/एसबी
8.	डा. नारायण विठ्ठल मयेकर	एसओ/एसबी
9.	श्री सुनिल अर्जुन प्रभू	एसए/डी
10.	श्री मंगेश्वरन पोन्नमबालम	एसओ/एसबी
11.	श्री वेलुरी श्रीनिवासा राव	एसओ/एसबी
12.	श्रीमती श्रीजेया धर्मराजन	एसओ/एसबी
13.	श्रीमती राजश्री विजयन	एसओ/एसबी
14.	कुमारी प्रभू जयलक्ष्मी अ.	एसए/डी

1	2	3
15.	श्री वेलमुरुगन पलानीसामी	एसओ/एसबी
16.	श्री नीरज दीक्षित	एसओ/एसबी
17.	श्री अजया कुमार एस.	एसओ/एसबी
18.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	एसए/डी

पी. वेणुगोपालन  
नियंत्रक

#### परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 16 मई 2007

सं. 18/2/2007-ई.आर./149--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एइआरबी) में आगामी आदेश होने तक उनके नाम के सामने उल्लिखित ग्रेड एवं दर्शाई तारीख से वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	ग्रेड	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान (रु. में)
1.	पारेकल कुट्टी बाबुराजन	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	19.04.2007 (पूर्वाह्न)	12000-375-16500
2.	विजय विठ्ठल मुठेकर	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	19.04.2007 (पूर्वाह्न)	10000-325-15200

ओ. टी. जी. नायर  
अवर सचिव

#### क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 2007

सं. क्रभनि/07006/भर्ती/2192--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रभनि, मुंबई के श्री आर. रविन्द्रन नायर, आशुलिपिक ग्रेड-I वेतनमान रुपए 5,500-175-9,000/- को इसी निदेशालय में दिनांक 10.10.2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में निजी सचिव (एनएस) के पद पर नियुक्त किया है।

टि. एस. गणपतिरामन  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07006/भर्ती/2194--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रभनि, मुंबई के आशुलिपिक ग्रेड-I श्री ए. असोकाकुमार, आशुलिपिक ग्रेड-I वेतनमान रुपए 5,500-175-9,000/- को इसी निदेशालय में दिनांक 01.03.2007 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में निजी सचिव (एनएस) के पद पर नियुक्त किया है।

टि. एस. गणपतिरामन  
प्रशासन अधिकारी-III

## निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 2007

सं. निसेसंप्रनि/प्र/9(230)/2006-भर्ती/खंड II/428---निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एस.डी. माढेकर, सहायक लेखाकार, भापअकेंद्र को दिनांक 27.04.2007 से अगले आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इस निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. मुरलीधरन  
प्रशासन अधिकारी-III(प्र)

## कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जालन्धर-144 003, दिनांक 2007

सं. 560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किया गया तो इन कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र.सं.	नं.	कम्पनी नाम
1	2	3
1.	4658	मैसर्स रामदीप एल्योयस स्टील प्रा. लि.
2.	6889	मैसर्स अशोका यूनीवूल इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
3.	6890	मैसर्स आरचिड रिसोर्ट प्रा. लि.
4.	6896	मैसर्स के.के. एडवर्डटाइसिंग कम्पनी लि.
5.	6901	मैसर्स जे. राय बिल्डर्स प्रा. लि.
6.	6909	मैसर्स अशोका होसरी प्रा. लि.
7.	6923	मैसर्स फीसीकोटोपिक्स इंडिया प्रा. लि.
8.	6927	मैसर्स भगवती फोर्जिंग प्रा. लि.
9.	6933	मैसर्स फरमैटफरमा बायोटेक लि.
10.	6938	मैसर्स चहल रबर प्रा. लि.
11.	6940	मैसर्स एस के बी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
12.	6951	मैसर्स पल पाइप्स इंडिया प्रा. लि.
13.	6967	मैसर्स इटैलियन ऑटो स्टील प्रा. लि.
14.	6969	मैसर्स बाइपस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
15.	6984	मैसर्स किंग पाइप्स प्रा. लि.

1	2	3
16.	7000	मैसर्स न्यूलाईट इंजीनियर्स प्रा. लि.
17.	7009	मैसर्स इंडी बायोलोजिकल्स प्रा. लि.
18.	7025	मैसर्स हिमालयन वायरस प्रा. लि.
19.	7028	मैसर्स कोहिनूर सेल्स प्रा. लि.
20.	7041	मैसर्स यूनीवर्सल इन-कास्ट लि.
21.	7053	मैसर्स सनवा एसोसिएट्स प्रा. लि.
22.	7057	मैसर्स मनाली प्लेसिस प्रा. लि.
23.	7071	मैसर्स जवाहर फ्लोर्स प्रा. लि.
24.	7084	मैसर्स फाइन फूड्स प्रा. लि.
25.	7106	मैसर्स सनफ्लेग निटवेयर्स प्रा. लि.
26.	7107	मैसर्स पंजाब ऑटो एंड रबड़ इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
27.	7116	मैसर्स विनसम डाईंग एंड प्रोसेसिंग प्रा. लि.
28.	7139	मैसर्स कोरनूकोपिया फूड्स प्रा. लि.
29.	7171	मैसर्स पैरामाऊंट फोर्ज प्रा. लि.
30.	7175	मैसर्स हिम लोम लि.
31.	7193	मैसर्स स्वर्ण पैकेजिस प्रा. लि.
32.	7194	मैसर्स प्रसाद मैडिसन मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
33.	7203	मैसर्स रुद्रा कंसलटैंसिस प्रा. लि.
34.	7204	मैसर्स हार्लैंड माइक्रोबैल एंड बायोकेमिकल लैबो. प्रा. लि.
35.	7209	मैसर्स तूफान पब्लिकेशन प्रा. लि.
36.	7216	मैसर्स मुकंद एंड मुकंद ट्रांसफार्मर्स प्रा. लि.
37.	7220	मैसर्स समरा लैब्स प्रा. लि.
38.	7228	मैसर्स पंजाब डक्कन्स प्रा. लि.
39.	7229	मैसर्स बिंदल एगो मिल्स प्रा. लि.
40.	7245	मैसर्स एसगर इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्प्यूटर प्रा. लि.
41.	7246	मैसर्स सनब्रो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा. लि.
42.	7261	मैसर्स रॉयल रोलर फ्लोर एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
43.	7273	मैसर्स महेश कारगो कैरियर्स प्रा. लि.
44.	7293	मैसर्स अग्रवाल राईस एंड आईस प्रा. लि.
45.	7294	मैसर्स विकास फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
46.	7313	मैसर्स सुप्रीम एसिड एंड कैमिकल्स प्रा. लि.
47.	7317	मैसर्स जिप्सी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
48.	7321	मैसर्स भुरजी एसोसिएट्स प्रा. लि.
49.	7330	मैसर्स नीलकंठ ऑटो प्रा. लि.
50.	7331	मैसर्स ए एंड एड बिल्डर्स प्रा. लि.
51.	7335	मैसर्स गोएदवाल आक्सीजन प्रा. लि.
52.	7336	मैसर्स द्रिश लैदर प्रा. लि.
53.	7343	मैसर्स दीपक सैक्स लि.
54.	7350	मैसर्स दीपक पाईप्स इण्डिया लि.
55.	7361	मैसर्स स्टैंडर्स वीडियो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
56.	7365	मैसर्स गोएदवाल पाईप्स प्रा. लि.
57.	7366	मैसर्स मनीशा साईकल प्रा. लि.
58.	7374	मैसर्स मानसरोवर पैकेजिस प्रा. लि.
59.	7379	मैसर्स करवाल फोटोनिक्स प्रा. लि.
60.	7408	मैसर्स पंजाब पैराफाइन वैक्स प्रा. लि.
61.	7409	मैसर्स देविन्दर बेकर्स प्रा. लि.
62.	7411	मैसर्स राज मोल्ड्स एंड एलाइड पैकेजिस प्रा. लि.
63.	7416	मैसर्स रॉयल साईकल्स प्रा. लि.
64.	7417	मैसर्स इंडस्ट्रीयल चैन इंडिया प्रा. लि.
65.	7418	मैसर्स अम्बा कंटेनर्स प्रा. लि.
66.	7438	मैसर्स वाईट वैल्थ पंजाब फीड्स प्रा. लि.
67.	7445	मैसर्स अमृतसर फीड्स प्रा. लि.
68.	7458	मैसर्स लकरा साईकल प्रा. लि.
69.	7470	मैसर्स वैटरन टैक्नीकोन्स प्रा. लि.
70.	7488	मैसर्स शर्मा गैसिस एंड एलाइड इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
71.	7494	मैसर्स अम्बा मिलर्स प्रा. लि.
72.	7506	मैसर्स वर्दान रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
73.	7522	मैसर्स विष्णु पाईप इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
74.	7531	मैसर्स खोसला राईस मिल्स प्रा. लि.
75.	7535	मैसर्स जस्सल हैवी इंजीनियरिंग प्रा. लि.
76.	7539	मैसर्स स्टैमिना मोबाइल्स प्रा. लि.
77.	7542	मैसर्स मितसन फोर्जिंग प्रा. लि.
78.	7566	मैसर्स पंजाब पोटेन्सियो प्रा. लि.
79.	7572	मैसर्स रिहल एंड रिहल फर्टीलाइजर्स प्रा. लि.
80.	7592	मैसर्स ऊषा एच.पी. इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजिस प्रा. लि.

1	2	3
81.	7596	मैसर्स दशमेश पैकेजर्स प्रा. लि.
82.	7609	मैसर्स मझोली एल्यूमिनियम रोलर्स प्रा. लि.
83.	7614	मैसर्स सुश्रित हर्ब्स प्रा. लि.
84.	7622	मैसर्स वालिया कैमिकल्स प्रा. लि.
85.	7623	मैसर्स रीगल सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
86.	7629	मैसर्स कोटवैल फैब्रिक्स प्रा. लि.
87.	7636	मैसर्स कनसल फूड्स प्रा. लि.
88.	7636	मैसर्स कनसल फूड्स प्रा. लि.
89.	7641	मैसर्स वाडालिया फूड एंड फीड प्रा. लि.
90.	7643	मैसर्स नाई एलोयस प्रा. लि.
91.	7647	मैसर्स राकवैल व्हील (इंडिया) प्रा. लि.
92.	7660	मैसर्स यूनीटैक पब्लिकेशन प्रा. लि.
93.	7673	मैसर्स शिवालिक लाईव स्टॉक प्रा. लि.
94.	7682	मैसर्स कैपिटल ऑक्सीजन प्रा. लि.
95.	7692	मैसर्स मित राज पैकेजिंग प्रा. लि.
96.	7698	मैसर्स हिलटॉन इंस्टैंट फूड्स प्रा. लि.
97.	7703	मैसर्स एप्पल प्रा. लि.
98.	7704	मैसर्स कोचर हाईपोट इंजीनियर्स प्रा. लि.
99.	7707	मैसर्स तरुन वायर्स प्रा. लि.
100.	7711	मैसर्स गुरिया बस सर्विस प्रा. लि.
101.	7712	मैसर्स वी के स्टील्स प्रा. लि.
102.	7719	मैसर्स लुधियाना ऑटो लाईन्स प्रा. लि.
103.	7735	मैसर्स चैम्पियन प्रोसेसर्स प्रा. लि.
104.	7753	मैसर्स यू एम टी सी लैदर प्रा. लि.
105.	7775	मैसर्स यूनाइटेड लैदर्स प्रा. लि.
106.	7784	मैसर्स लूदरा टूल्स एंड फोर्जिंग प्रा. लि.
107.	7786	मैसर्स के. सी. ऑयल प्रा. लि.
108.	7788	मैसर्स जी. के. ऑटो पार्ट्स प्रा. लि.
109.	7790	मैसर्स कर्मा मोल्डिंग्स प्रा. लि.
110.	7793	मैसर्स सहमी क्लॉथ प्रा. लि.
111.	7801	मैसर्स गौतम ट्यूब्स प्रा. लि.
112.	7811	मैसर्स वरदान स्पीनर्स प्रा. लि.
113.	7819	मैसर्स ईल कम्प्यूटर प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
114.	7831	मैसर्स पॉल वूलन मिल्स प्रा. लि.	147.	8065	मैसर्स गणेश राईस एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
115.	7832	मैसर्स नॉर्थ इंडिया हाईब्रिड सीड्स कम्पनी प्रा. लि.	148.	8077	मैसर्स भगत ब्रदर्स स्पिनर्स प्रा. लि.
116.	7864	मैसर्स परफैक्ट टूल्स प्रा. लि.	149.	8083	मैसर्स महाजन ब्रदर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि.
117.	7874	मैसर्स कनधारी हाई-टैक इलेक्ट्रिकल प्रा. लि.	150.	8090	मैसर्स चावला सेल्स प्रा. लि.
118.	7875	मैसर्स रिजेंसी फैंरो एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	151.	8110	मैसर्स लाडली कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
119.	7884	मैसर्स भूलार मशीन प्रा. लि.	152.	8125	मैसर्स राजा सिनथेटिक्स प्रा. लि.
120.	7885	मैसर्स भाई काटन मिल्स प्रा. लि.	153.	8135	मैसर्स जी बी एम स्प्रिंग्स प्रा. लि.
121.	7891	मैसर्स रीटा निटवेयर प्रा. लि.	154.	8136	मैसर्स रोशन एस हेल्थ एंड स्पोर्ट डेवलपर्स प्रा. लि.
122.	7897	मैसर्स रोबोट टूल्स इंडिया प्रा. लि.	155.	8137	मैसर्स उमेश ट्रेडर्स प्रा. लि.
123.	7899	मैसर्स के. सी. इन्सुलेटर्स प्रा. लि.	156.	8141	मैसर्स प्रैसीशन मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
124.	7911	मैसर्स डूवैल डिस्टिलरिस प्रा. लि.	157.	8143	मैसर्स ओरिओन मैडिकैम प्रा. लि.
125.	7916	मैसर्स आशीर्वाद हास्पीटल्स प्रा. लि.	158.	8158	मैसर्स मलोट स्टील पाईप्स प्रा. लि.
126.	7931	मैसर्स अंगद एपलाईसे लि.	159.	8169	मैसर्स दीपाली ट्यूब्स प्रा. लि.
127.	7932	मैसर्स गिफ्ट साईकल प्रा. लि.	160.	8177	मैसर्स करतार टिम्बर्स प्रा. लि.
128.	7933	मैसर्स सतलुज निटवेयर प्रा. लि.	161.	8192	मैसर्स फरपाईल एक्सपोर्ट लि.
129.	7945	मैसर्स आर आई स्टील्स प्रा. लि.	162.	8197	मैसर्स मक्कर रिम्स इंडिया प्रा. लि.
130.	7949	मैसर्स आर. पी. एच. कंसलटेंट्स प्रा. लि.	163.	8204	मैसर्स कलासी मोबाइक शॉप प्रा. लि.
131.	7953	मैसर्स हेमकुंड लाईन्स प्रा. लि.	164.	8213	मैसर्स ग्रेजुएट सेल्स प्रा. लि.
132.	7956	मैसर्स संदीप प्रैसीशन इंस्ट्रूमेंट प्रा. लि.	165.	8215	मैसर्स पावनियर्स डब्ल्यू वी डी बिल्ट प्रा. लि.
133.	7964	मैसर्स हिमालय स्पिनर्स प्रा. लि.	166.	8219	मैसर्स डी एस स्पिनर्स प्रा. लि.
134.	7966	मैसर्स एन डी साईकल प्रा. लि.	167.	8223	मैसर्स एम. सोनी एंड कं. प्रा. लि.
135.	7967	मैसर्स दमन फोर्जिंग प्रा. लि.	168.	8224	मैसर्स माडर्न स्किन कं. प्रा. लि.
136.	7969	मैसर्स हिमाचल हाइड्रोलिक्स लि.	169.	8228	मैसर्स जेगसन एंड कं. प्रा. लि.
137.	7983	मैसर्स दीपक रेडिया प्रा. लि.	170.	8229	मैसर्स सतीश कुमार कंटेक्टर्स प्रा. लि.
138.	7989	मैसर्स एस आर जे एक्सपोर्ट प्रा. लि.	171.	8233	मैसर्स खैशा रिसोर्ट प्रा. लि.
139.	8002	मैसर्स ओमिनी टाईपसेट प्रैस प्रा. लि.	172.	8238	मैसर्स मयूरा वूलन मिल्स प्रा. लि.
140.	8003	मैसर्स सिमला फोटोसेट प्रा. लि.	173.	8239	मैसर्स हरनाम स्टील्स प्रा. लि.
141.	8013	मैसर्स एनजोर एग्रो प्रा. लि.	174.	8257	मैसर्स ज्योतिक स्टीनबरगर लि.
142.	8035	मैसर्स अमित प्रैसीशन प्रा. लि.	175.	8291	मैसर्स आर ए ड्रग्स प्रा. लि.
143.	8038	मैसर्स जे एंड के वैक्सोफोल्ड प्रा. लि.	176.	8292	मैसर्स चौधरी वाईन्स प्रा. लि.
144.	8039	मैसर्स आशा कैंडल इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	177.	8295	मैसर्स एवरशाइन पेपर मिल्स प्रा. लि.
145.	8045	मैसर्स समरा सी फूड्स प्रा. लि.	178.	8297	मैसर्स सनराईज बेल्टिंग्स प्रा. लि.
146.	8058	मैसर्स गिलरड रेडियो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	179.	8303	मैसर्स नीरज एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
180.	8314	मैसर्स प्रकाश प्लाईवुड प्रा. लि.
181.	8319	मैसर्स जीतेन्द्रा कैमिकल वर्क्स प्रा. लि.
182.	8321	मैसर्स अनुपम इलैक्ट्रोकेम प्रा. लि.
183.	8327	मैसर्स शंकर दास लोक राज ऑयल मिल्स प्रा. लि.
184.	8329	मैसर्स जे. पी. कट्रेक्टर्स एंड इंजीनियर्स प्रा. लि.
185.	8349	मैसर्स गुलाटी इंजीनियरिंग कं. इंडिया प्रा. लि.
186.	8353	मैसर्स किरन कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
187.	8360	मैसर्स सिद्धार्थ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
188.	8365	मैसर्स गुलेरिया रिसोर्ट्स प्रा. लि.
189.	8370	मैसर्स यूनाईटेड ड्रग्स इंडिया प्रा. लि.
190.	8385	मैसर्स साईन टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि.
191.	8388	मैसर्स कैपरीनस फार्मास्यूटिकल्स एंड कैमिकल लि.
192.	8390	मैसर्स आर ई एस कैम इंडिया प्रा. लि.
193.	8394	मैसर्स गंगोत्री रिसोर्ट्स प्रा. लि.
194.	8397	मैसर्स आदर्श कोयल ट्रेडर्स प्रा. लि.
195.	8401	मैसर्स रोहित वूलन्स प्रा. लि.
196.	8420	मैसर्स गोल्डमार्इन एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
197.	8440	मैसर्स रैनबैक्सी मैनेजर्स वैलफेयर लि.
198.	8448	मैसर्स लालचन्द मदन गोपाल एंड कम्पनी प्रा. लि.
199.	8458	मैसर्स एस एस बी सखायर्स एंड कन्सलटैन्ट्स प्रा. लि.
200.	8460	मैसर्स न्यू टैक इंजीनियर्स प्रा. लि.
201.	8461	मैसर्स मितासु डाईस प्रा. लि.
202.	8468	मैसर्स सूरज वूलन मिल्स प्रा. लि.
203.	8470	मैसर्स ए. जे. एंड एसोसिएट्स प्रा. लि.
204.	8471	मैसर्स सिधु बस सर्विस प्रा. लि.
205.	8477	मैसर्स एप्ल कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
206.	8481	मैसर्स जीजे इलासतिका प्रा. लि.
207.	8482	मैसर्स मजबूत पैकर्स एंड इंजीनियर्स प्रा. लि.
208.	8485	मैसर्स गोयल फैब्रीकेटर्स प्रा. लि.
209.	8500	मैसर्स नंद किशोर जैन बिल्डर्स प्रा. लि.
210.	8514	मैसर्स मैरी गोल्ड गारमेंट्स प्रा. लि.
211.	8523	मैसर्स वाहो फोटो कलर्स प्रा. लि.
212.	8526	मैसर्स हिमाचल पाईप्स प्रा. लि.

1	2	3
213.	8528	मैसर्स बबर मशीन टूल्स प्रा. लि.
214.	8551	मैसर्स कावेरी कैमिकल्स प्रा. लि.
215.	8570	मैसर्स एम बी रबर प्रा. लि.
216.	8574	मैसर्स बाइन पाल कम्पोनैट प्रा. लि.
217.	8579	मैसर्स गुप्ता गेयर्स प्रा. लि.
218.	8613	मैसर्स ममता कारगो एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.
219.	8621	मैसर्स एनकान प्रैसिंग प्रा. लि.
220.	8625	मैसर्स चाशील होटल इंडिया प्रा. लि.
221.	8630	मैसर्स कनधारी बिल्डर्स प्रा. लि.
222.	8638	मैसर्स क्लासप्रो रैमिडीस प्रा. लि.
223.	8646	मैसर्स सिनथैटिक ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
224.	8647	मैसर्स ची इंडिया प्रा. लि.
225.	8650	मैसर्स डिल्लों इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
226.	8653	मैसर्स एस. के. रोल्स प्रा. लि.
227.	8656	मैसर्स तरन्नुम कैमिकल इंडिया प्रा. लि.
228.	8662	मैसर्स चेतन कास्टिंग प्रा. लि.
229.	8665	मैसर्स स्नोलाईन होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
230.	8673	मैसर्स पी आई फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
231.	8675	मैसर्स वैलसन टैनरिस प्रा. लि.
232.	8683	मैसर्स श्री गुरु हरगोविंद रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
233.	8687	मैसर्स यूनाईटेड डीलर्स प्रा. लि.
234.	8693	मैसर्स भारद्वाज प्रोपर्टीज प्रा. लि.
235.	8697	मैसर्स विकास फाइबर-थर्म प्रा. लि.
236.	8716	मैसर्स स्टीमेड फोर्जिंग प्रा. लि.
237.	8717	मैसर्स हिमाचल कम्पोनैट प्रा. लि.
238.	8721	मैसर्स चण्डीगढ़ कटर्स प्रा. लि.
239.	8727	मैसर्स बी डी सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
240.	8728	मैसर्स चौधरी कॉटन एंड एलाइड मिल्स प्रा. लि.
241.	8732	मैसर्स प्रधान इलैक्ट्रो टैक्निक्स प्रा. लि.
242.	8734	मैसर्स नार्दन ट्रांसफॉर्मर्स एंड पावर कंट्रोल प्रा. लि.
243.	8738	मैसर्स गोल्ड शील्ड्स टी प्रा. लि.
244.	8747	मैसर्स ओरियंट्स टैक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
245.	8778	मैसर्स भाई स्टील एंटरप्राइसिस प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
246.	8785	मैसर्स को ऑक्साइड प्रा. लि.	279.	8993	मैसर्स शिव शंकर इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
247.	8793	मैसर्स ए. के. डोर प्रेम्स प्रा. लि.	280.	9004	मैसर्स ग्लो व्हील एक्स सर्विसमैन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रा. लि.
248.	8795	मैसर्स रतन ऑटो एंटरप्राइसिस प्रा. लि.	281.	9015	मैसर्स चेकी फूड्स प्रा. लि.
249.	8800	मैसर्स ऑस्टिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	282.	9033	मैसर्स पंजाब इन्सुलेशनस प्रा. लि.
250.	8804	मैसर्स मेनका साईकल प्रा. लि.	283.	9055	मैसर्स कम्प्लीट ओवरसिस प्रा. लि.
251.	8808	मैसर्स माधोपुर पैकेजिंग प्रा. लि.	284.	9064	मैसर्स सपना फार्म्स प्रा. लि.
252.	8813	मैसर्स अंशुमान फूड्स प्रा. लि.	285.	9065	मैसर्स वी.मैन मेटल एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
253.	8814	मैसर्स चांदी कम्प्यूफार्म्स प्रा. लि.	286.	9066	मैसर्स परफेक्ट रियल इस्टेट्स प्रा. लि.
254.	8815	मैसर्स पंजाब वैड्स प्रा. लि.	287.	9078	मैसर्स लक्ष्मी स्पिनर्स प्रा. लि.
255.	8817	मैसर्स विशाल भारत कन्स्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	288.	9081	मैसर्स सिमजैस एस्टेट प्रा. लि.
256.	8819	मैसर्स सुपर फाईन हैंडलूमस प्रा. लि.	289.	9082	मैसर्स नागी स्पिनिंग प्रा. लि.
257.	8830	मैसर्स जी. एस. कैरियर्स प्रा. लि.	290.	9083	मैसर्स इम्ब्रोशिया ब्रोलर्स प्रा. लि.
258.	8844	मैसर्स अपना पोली फेब्रिक्स प्रा. लि.	291.	9089	मैसर्स एम एस आर जी हरबल प्रा. लि.
259.	8846	मैसर्स राहुल पैकेजर्स प्रा. लि.	292.	9091	मैसर्स व्यास कैमिकल्स प्रा. लि.
260.	8852	मैसर्स आर. ए. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	293.	9094	मैसर्स रॉयल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
261.	8865	मैसर्स मैरीडियन लैटर्स प्रा. लि.	294.	9097	मैसर्स चैम्पियन फिनिशर्स प्रा. लि.
262.	8867	मैसर्स नार्थ इंडिया प्री-स्ट्रेसर्स प्रा. लि.	295.	9103	मैसर्स मितसन इस्पात प्रा. लि.
263.	8875	मैसर्स एस. के. टेक्नो प्लास्ट प्रा. लि.	296.	9111	मैसर्स आई.जे.एस. यूनिवर्सल कॉमर्शियल प्रा. लि.
264.	8876	मैसर्स सम्राट एपलाइंसेस प्रा. लि.	297.	9122	मैसर्स आरसी ट्रेडर्स प्रा. लि.
265.	8880	मैसर्स जतिन बिल्डिंग कैमिकल्स प्रा. लि.	298.	9129	मैसर्स गढ़ी फाइबर्स प्रा. लि.
266.	8890	मैसर्स कामाख्या फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	299.	9131	मैसर्स टोएटा एप्लाइंसिस इंडिया लि.
267.	8894	मैसर्स क्रेस्ट ओवरसीस प्रा. लि.	300.	9138	मैसर्स आर के कॉनकास्ट लि.
268.	8895	मैसर्स राजदूत कैमिकल प्रा. लि.	301.	9139	मैसर्स गामा स्टील्स प्रा. लि.
269.	8910	मैसर्स जयवल्लभ फेब्रिक्स प्रा. लि.	302.	9146	मैसर्स चौधरी फार्म्स प्रा. लि.
270.	8913	मैसर्स मार्शल सर्जिकल्स प्रा. लि.	303.	9156	मैसर्स चंडीगढ़ साईंस ट्यूबोरियल्स प्रा. लि.
271.	8915	मैसर्स मोंगा ड्रग्स एंड कैमिकल प्रा. लि.	304.	9164	मैसर्स बन्दना इम्पोरियम प्रा. लि.
272.	8916	मैसर्स विटल गैसिज एंड मेटल्स प्रा. लि.	305.	9170	मैसर्स बिसन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
273.	8919	मैसर्स वी. एम. इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.	306.	9177	मैसर्स अपोलो रेडिएटर्स प्रा. लि.
274.	8927	मैसर्स साईको थ्रैशर्स प्रा. लि.	307.	9180	मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स प्रा. लि.
275.	8939	मैसर्स समाना स्ट्रिप्स प्रा. लि.	308.	9187	मैसर्स पाईनवुड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
276.	8951	मैसर्स एबीएल कैपेसिटर्स (इंडिया) लि.	309.	9194	मैसर्स पूनम ऑटोस प्रा. लि.
277.	8969	मैसर्स कैमीलिया पैकेजिस प्रा. लि.	310.	9207	मैसर्स ए.टी.एल. सेल्स प्रा. लि.
278.	8981	मैसर्स अयाल आईस फैक्ट्री प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
311.	9210	मैसर्स जे. के. कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि.	344.	9468	मैसर्स सनशाइन फोरजिंग्स प्रा. लि.
312.	9211	मैसर्स सुनील एस. सिलेक्शन प्रा. लि.	345.	9471	मैसर्स केसी एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
313.	9219	मैसर्स बेटा शार्पलैस प्रा. लि.	346.	9474	मैसर्स भूपिन्द्रा हिंस प्रा. लि.
314.	9231	मैसर्स कौर एंड सिंह इम्पैक्स प्रा. लि.	347.	9475	मैसर्स ट्रीनिटी सॉफ्ट प्रा. लि.
315.	9232	मैसर्स सैमसन फोरजिंग (इंडिया) प्रा. लि.	348.	9479	मैसर्स सिल्वरलाईन सेल्स प्रा. लि.
316.	9234	मैसर्स आर.के. मोबाइल्स प्रा. लि.	349.	9494	मैसर्स मल्होत्रा हॉस्पिटल एंड मैटेरिटी होम प्रा. लि.
317.	9251	मैसर्स कमल सिल्क मिल्स प्रा. लि.	350.	9538	मैसर्स कामाजो टूल्स एंड फोरजिंग्स प्रा. लि.
318.	9253	मैसर्स अप्सरा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	351.	9541	मैसर्स कृषक कैमिफर्ट प्रा. लि.
319.	9257	मैसर्स सीडी इम्पैक्स प्रा. लि.	352.	9545	मैसर्स जहांगीर स्पिनर्स प्रा. लि.
320.	9269	मैसर्स सपहिल्स अरबिन्दो स्पोर्ट प्रा. लि.	353.	9549	मैसर्स डीजैट मशीन प्रा. लि.
321.	9290	मैसर्स कन्द्री बिल्डर्स प्रा. लि.	354.	9551	मैसर्स अनु इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
322.	9293	मैसर्स पंजाब प्रेसीशन स्टैम्पिंग्स प्रा. लि.	355.	9552	मैसर्स साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
323.	9297	मैसर्स मोही ओवरसिस प्रा. लि.	356.	9554	मैसर्स हैप्पी मशीन्स प्रा. लि.
324.	9301	मैसर्स मेहमान होटल प्रा. लि.	357.	9564	मैसर्स सुप्रीम कास्टिंग्स लि.
325.	9305	मैसर्स तेज वायरस प्रा. लि.	358.	9571	मैसर्स मार्टन एक्सलैस प्रा. लि.
326.	9310	मैसर्स परफैक्ट फार्मूलेशन प्रा. लि.	359.	9573	मैसर्स अनु मशीन प्रा. लि.
327.	9314	मैसर्स असाही कम्पोनेंट लि.	360.	9574	मैसर्स आरती मशीन प्रा. लि.
328.	9318	मैसर्स मारकैंडा सैरामिक्स प्रा. लि.	361.	9575	मैसर्स विंडसर कम्पोनेंट प्रा. लि.
329.	9342	मैसर्स संगरूर ऑटोस प्रा. लि.	362.	9577	मैसर्स नम्रता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
330.	9345	मैसर्स एवरसन लैबोरेट्रीस प्रा. लि.	363.	9606	मैसर्स त्रिगु ज्योतिष कार्यालय प्रा. लि.
331.	9353	मैसर्स ब्रह्मपुत्र टेक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	364.	9607	मैसर्स डी. के. ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि.
332.	9354	मैसर्स सत्या एजेंसीज प्रा. लि.	365.	9614	मैसर्स जालन्धर स्टील कास्टिंग्स प्रा. लि.
333.	9359	मैसर्स पी. बी. एम. एक्सपोर्ट प्रा. लि.	366.	9622	मैसर्स प्रीत इंजीनियर्स प्रा. लि.
334.	9368	मैसर्स आरबिट आटोमोबाइल प्रा. लि.	367.	9639	मैसर्स ग्रेवाल जैड कॉन्ट्रैक्टिंग कम्पनी प्रा. लि.
335.	9376	मैसर्स जे आर प्रोसेसर्स लि.	368.	9642	मैसर्स एसक्वायर क्लोरिनेटिड पैराफिन प्रा. लि.
336.	9393	मैसर्स सोनू इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	369.	9653	मैसर्स चन्दर मोटेल प्रा. लि.
337.	9405	मैसर्स प्रैसटिज इस्टेट्स प्रा. लि.	370.	9655	मैसर्स गैसकर इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.
338.	9408	मैसर्स एलैक्स एनडर होटल प्रा. लि.	371.	9665	मैसर्स मेगास्टार इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.
339.	9420	मैसर्स चौधरी हरबंस लाल एजेन्सीज प्रा. लि.	372.	9671	मैसर्स किशन ओरगेनिक्स प्रा. लि.
340.	9421	मैसर्स बद्री प्लास्टिक प्रा. लि.	373.	9672	मैसर्स ओलम्पिक लैडर प्रा. लि.
341.	9436	मैसर्स सिकरी स्टील प्रा. लि.	374.	9677	मैसर्स जे सन्स लैडर ओवरसिस प्रा. लि.
342.	9453	मैसर्स एक्जेट एलोएस प्रा. लि.	375.	9678	मैसर्स सुभाष स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
343.	9465	मैसर्स एच आर फोरजिंग्स प्रा. लि.	376.	9692	मैसर्स जेगसन बिल्डर एंड कन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
377.	9693	मैसर्स संगम बिल्डर्स एंड कन्स्ट्रक्टर प्रा. लि.	410.	9937	मैसर्स लक्ष्मी फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.
378.	9698	मैसर्स जयकारा लुब्रिकेटिंग ऑयल रिफायनरी प्रा. लि.	411.	9938	मैसर्स पंजा सरताज मशीन्स प्रा. लि.
379.	9713	मैसर्स एस. एम. टी. स्पिनर्स प्रा. लि.	412.	9939	मैसर्स कमल मशीन प्रा. लि.
380.	9716	मैसर्स सिद्धार्थ इन्डस्ट्रियल फैब प्रा. लि.	413.	9946	मैसर्स शिवालिक मशीन प्रा. लि.
381.	9726	मैसर्स एच पी गोयल ब्रदर प्रा. लि.	414.	9948	मैसर्स हिमाचल मशीन्स प्रा. लि.
382.	9728	मैसर्स विक्टरी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	415.	9953	मैसर्स सुप्रीम स्टोनवेयर्स प्रा. लि.
383.	9735	मैसर्स गुरुकृपा एग्रो फ्यूल प्रा. लि.	416.	9989	मैसर्स कृष्णा ऑटोकास्ट मशीनरीस प्रा. लि.
384.	9738	मैसर्स कुठियाला बिल्डर्स प्रा. लि.	417.	9994	मैसर्स मुरारी टैक्सटाईल मशीनरी प्रा. लि.
385.	9769	मैसर्स रिलायंस ड्रग्स एंड फॉर्म्युलेशन प्रा. लि.	418.	9995	मैसर्स ओशियन ऑरगेनिक्स प्रा. लि.
386.	9775	मैसर्स गुरुकृपा प्लास्टिसाइजर प्रा. लि.	419.	9998	मैसर्स स्पैक्ट्रम माइक्रोसर्किट्स प्रा. लि.
387.	9781	मैसर्स राईटवे एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रा. लि.	420.	10006	मैसर्स यूनिकस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साईंस प्रा. लि.
388.	9788	मैसर्स एच. एम. जे. ब्यास पेपर प्रा. लि.	421.	10010	मैसर्स तनेजा फोरजिंग प्रा. लि.
389.	9791	मैसर्स वी. जी. बिल्डर्स प्रा. लि.	422.	10017	मैसर्स गैंगरेट स्पिनर्स प्रा. लि.
390.	9793	मैसर्स सुकृति होटल्स एंड बिल्डर्स प्रा. लि.	423.	10028	मैसर्स नौनिहाल फोरजिंग प्रा. लि.
391.	9795	मैसर्स रत्न माइक्रो न्यूट्रीएंट्स प्रा. लि.	424.	10029	मैसर्स पॉल टैनरीस प्रा. लि.
392.	9796	मैसर्स वंडर निटवेयर्स प्रा. लि.	425.	10039	मैसर्स गुड स्टफ मार्केटिंग प्रा. लि.
393.	9803	मैसर्स इनोवेटिव डिवाइसिस प्रा. लि.	426.	10050	मैसर्स रत्न एंड सन्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
394.	9808	मैसर्स अजय इंडस्ट्रीयल डिवाइसिस लि.	427.	10053	मैसर्स एजीसी कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
395.	9829	मैसर्स रॉयल पैराफिन प्रा. लि.	428.	10054	मैसर्स जी. एम. रैमिडिस प्रा. लि.
396.	9837	मैसर्स सिमरन साईकल प्रा. लि.	429.	10064	मैसर्स एस एम एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
397.	9840	मैसर्स ए पी एन्जाइम्स इंडिया प्रा. लि.	430.	10069	मैसर्स श्री विमल सेल्स कम्पनी प्रा. लि.
398.	9845	मैसर्स प्रभात बेवरेजिस इंडिया लि.	431.	10077	मैसर्स ग्रेट इंडिया कारगो कम्पनी प्रा. लि.
399.	9861	मैसर्स एन. पी. सैरामिक्स प्रा. लि.	432.	10082	मैसर्स सन स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
400.	9864	मैसर्स ए एंड ए एसोसिएट्स प्रा. लि.	433.	10085	मैसर्स हरसिमरन पोल्ट्री फॉर्म्स प्रा. लि.
401.	9904	मैसर्स लिसमैंग ऑटो प्रा. लि.	434.	10096	मैसर्स शारदा एगो ओरगेनो रेस्टीसाईड्स प्रा. लि.
402.	9910	मैसर्स बलबीर मैडिकल सिस्टम प्रा. लि.	435.	10098	मैसर्स पंचाली हाऊसिंग प्रा. लि.
403.	9920	मैसर्स वालिया जैसमिन मोटेल प्रा. लि.	436.	10103	मैसर्स सागर एप्पलाईसिस प्रा. लि.
404.	9927	मैसर्स बी आर मैडिकल सिस्टम प्रा. लि.	437.	10129	मैसर्स ईशर एलोएस प्रा. लि.
405.	9929	मैसर्स अमीक कोम्प प्रा. लि.	438.	10136	मैसर्स सजल पेपर मिल्स प्रा. लि.
406.	9930	मैसर्स मैगनम टेक्नो फिन सर्विस प्रा. लि.	439.	10146	मैसर्स अग्रवाल एंड कं. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि.
407.	9931	मैसर्स अप्पू फैब्रिकेशन प्रा. लि.	440.	10157	मैसर्स एन. पी. पेपर्स प्रा. लि.
408.	9933	मैसर्स पंजा मशीन्स प्रा. लि.	441.	10172	मैसर्स सुन्दर बिल्डर प्रा. लि.
409.	9936	मैसर्स मोहाली इंजीनियरिंग प्रा. लि.			



1	2	3	1	2	3
442.	10176	मैसर्स वर्ल्ड बिल्डर प्रा. लि.	475.	10449	मैसर्स गोबिन्द वायर प्रा. लि.
443.	10180	मैसर्स धीर रोडवेज प्रा. लि.	476.	10451	मैसर्स नरेन्द्र ओवरसीस प्रा. लि.
444.	10182	मैसर्स वीटल इंजीनियर्स प्रा. लि.	477.	10452	मैसर्स नम्रता स्टील प्रा. लि.
445.	10185	मैसर्स लिम पैट फास्टनर्स प्रा. लि.	478.	10490	मैसर्स अमरनाथ गुप्ता हॉस्पीटल प्रा. लि.
446.	10187	मैसर्स स्याल होटल प्रा. लि.	479.	10498	मैसर्स कमल होलिडे रिसोर्ट प्रा. लि.
447.	10189	मैसर्स हाई-रेल एंटरप्राइसिस प्रा. लि.	480.	10501	मैसर्स आलमगीर कंसलटेंट एंड फरनीशिंग प्रा. लि.
448.	10194	मैसर्स कम्पलीट कोरपोरेट कंसलटेंट्स प्रा. लि.	481.	10509	मैसर्स हिम ओरगेनिक्स लि.
449.	10196	मैसर्स आशियाना पेपर प्रा. लि.	482.	10510	मैसर्स पिरामिड इलेक्ट्रो प्लास्टिक प्रा. लि.
450.	10200	मैसर्स सत्या रिसोर्ट प्रा. लि.	483.	10512	मैसर्स मेहता फुटवीयर्स प्रा. लि.
451.	10223	मैसर्स समरा एग्रो फूड प्रा. लि.	484.	10520	मैसर्स जय पॉल टैक प्रा. लि.
452.	10245	मैसर्स विर्क प्लास्टिक प्रा. लि.	485.	10529	मैसर्स प्रताप बोर्ड प्रा. लि.
453.	10250	मैसर्स टैरियट कम्पोनेंट प्रा. लि.	486.	10530	मैसर्स जे. एन. कास्टिंग प्रा. लि.
454.	10258	मैसर्स यूबीक्वाईटी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्रा. लि.	487.	10532	मैसर्स साहिब बिल्डर्स प्रा. लि.
455.	10271	मैसर्स नाईस टूल्स एंड फोरजिंग प्रा. लि.	488.	10538	मैसर्स एस. बी. एलॉयस प्रा. लि.
456.	10273	मैसर्स नोवा रेडियेटर्स प्रा. लि.	489.	10542	मैसर्स स्वास्तिक ऑटोमोबाईल प्रा. लि.
457.	10276	मैसर्स एच.एल. डायनोस्टिक प्रा. लि.	490.	10543	मैसर्स चंदन पेन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
458.	10279	मैसर्स प्रेसीचैक गोसिस एंड टूल्स प्रा. लि.	491.	10551	मैसर्स शगुन ऑयल एंड सोप प्रा. लि.
459.	10281	मैसर्स बाम्बे डिटरजेंट्स प्रा. लि.	492.	10556	मैसर्स जगत फैब्रिक प्रा. लि.
460.	10284	मैसर्स सन्नी फोरजिंग प्रा. लि.	493.	10572	मैसर्स पुशकर कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
461.	10300	मैसर्स तुलिप लवर्सिस प्रा. लि.	494.	10576	मैसर्स हरगोपाल सिंह फार्म प्रा. लि.
462.	10322	मैसर्स ताज सैरामिक्स एंड पोटर्री प्रा. लि.	495.	10577	मैसर्स हरजिंदर सिंह फार्म प्रा. लि.
463.	10330	मैसर्स मार्शल नट्स एंड ऑटो पार्ट्स प्रा. लि.	496.	10578	मैसर्स जगतजीत सिंह फार्म प्रा. लि.
464.	10345	मैसर्स खुराना वूलन एंड स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	497.	10579	मैसर्स पैराडाइस एग्रो प्रा. लि.
465.	10357	मैसर्स टूर हॉस्पीटल प्रा. लि.	498.	10585	मैसर्स चिनार इंजीनियरिंग प्रा. लि.
466.	10382	मैसर्स सतनाम टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	499.	10647	मैसर्स अराम टैक्सटाईल प्रा. लि.
467.	10401	मैसर्स एलायस पेपर मिल्स प्रा. लि.	500.	10652	मैसर्स ए. वी. हॉस्पीटल प्रा. लि.
468.	10403	मैसर्स एस. पी. राईस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	501.	10676	मैसर्स प्रैसटाईम इन्फर्मेसन सर्विस प्रा. लि.
469.	10411	मैसर्स ए. पी. स्पिनर्स लि.	502.	10693	मैसर्स पिक्स ऑटो इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
470.	10419	मैसर्स सूरज एंटरप्राइसिस प्रा. लि.	503.	10700	मैसर्स नोबल अम्यूजमेंट पावर्स प्रा. लि.
471.	10423	मैसर्स बी. एम. स्कूल्स प्रा. लि.	504.	10706	मैसर्स मदन शाल एंड फैब्रिक प्रा. लि.
472.	10430	मैसर्स करीसन कैमिकल्स प्रा. लि.	505.	10707	मैसर्स दून वैली फूड प्रा. लि.
473.	10433	मैसर्स कलसी वुड वर्क्स प्रा. लि.	506.	10713	मैसर्स मियांजी स्टील प्रा. लि.
474.	10438	मैसर्स बटर इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	507.	10718	मैसर्स के. आर. बेरी एंड कं. साईकल पार्ट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
508.	10721	मैसर्स दशमेश लेमिनेशन प्रा. लि.	541.	10949	मैसर्स फूलसन्स इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
509.	10729	मैसर्स शिमला होटल्स प्रा. लि.	542.	10961	मैसर्स नौशीन ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि.
510.	10743	मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स प्रा. लि.	543.	10962	मैसर्स ओसवाल पाल्म इंडिया लि.
511.	10744	मैसर्स सेलविन ट्रेडर्स प्रा. लि.	544.	10964	मैसर्स शिवालिक इन्सुलेशन प्रा. लि.
512.	10751	मैसर्स हीरासन स्टील प्रा. लि.	545.	10965	मैसर्स पी. एच. इनफार्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि.
513.	10752	मैसर्स बलबीर इलैक्ट्रॉनिक प्रा. लि.	546.	10969	मैसर्स अशोका वूलग्रिप एण्ड फाईबर्स प्रा. लि.
514.	10761	मैसर्स राजा एक्सपोर्ट प्रा. लि.	547.	10984	मैसर्स वी वी वायर्स प्रा. लि.
515.	10767	मैसर्स एम. जी. एलोयस एंड कास्टिंग्स प्रा. लि.	548.	10986	मैसर्स जैनिथ निटवेयर्स प्रा. लि.
516.	10781	मैसर्स एच. एम. वायर्स प्रा. लि.	549.	10987	मैसर्स किरण कास्टिंग्स प्रा. लि.
517.	10788	मैसर्स एस. के. व्हीकल्स प्रा. लि.	550.	10991	मैसर्स स्टैन्ड कम्बाइन हारवेस्टर्स प्रा. लि.
518.	10794	मैसर्स ए. जी. रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	551.	10998	मैसर्स गुप्ता एण्ड गुप्ता लाईसन सर्विसेस प्रा. लि.
519.	10801	मैसर्स नफी केबल प्रा. लि.	552.	11000	मैसर्स पंजाब सॉ एडवाईजर्स प्रा. लि.
520.	10815	मैसर्स वल्लभ एलोयस प्रा. लि.	553.	11001	मैसर्स पन किवी ऑयल कैम प्रा. लि.
521.	10818	मैसर्स मोनल एक्सपोर्ट प्रा. लि.	554.	11002	मैसर्स अकराईन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.
522.	10833	मैसर्स शर्मा एंड शर्मा सेल्स प्रा. लि.	555.	11009	मैसर्स टिप्स फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.
523.	10840	मैसर्स हिमालयन प्योर वाटर हाऊस लि.	556.	11016	मैसर्स बी एन इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड सर्विसेस प्रा. लि.
524.	10849	मैसर्स जैक्सन टैक्सटाईल एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि.	557.	11018	मैसर्स ईजी सेनीटेशनस प्रा. लि.
525.	10855	मैसर्स हिन्दुस्तान लैदराइट प्रा. लि.	558.	11020	मैसर्स मार्शल फास्टनर्स प्रा. लि.
526.	10864	मैसर्स शरन स्पेशलिटी पेपर प्रा. लि.	559.	11030	मैसर्स मोंगा पेपीरस प्रीसमेटिक्स प्रा. लि.
527.	10865	मैसर्स करतार एंटरप्राइसिस प्रा. लि.	560.	11038	मैसर्स ओमप्रकाश कंस्ट्रक्शन्स कंपनी प्रा. लि.
528.	10867	मैसर्स दीप एक्रोवूल्स प्रा. लि.	561.	11041	मैसर्स ऐसन केबल्स लि.
529.	10877	मैसर्स जेसी परसीशन कास्टिंग प्रा. लि.	562.	11049	मैसर्स सुरिन्द्रा वीडियोनिक्स प्रा. लि.
530.	10884	मैसर्स सनरोज मिल्स फूड्स लि.	563.	11050	मैसर्स पी आर पावर टूल्स इंडिया प्रा. लि.
531.	10901	मैसर्स स्याल एलोए स्टील प्रा. लि.	564.	11053	मैसर्स समाना फीड मिल्स लि.
532.	10904	मैसर्स बिंदरा इस्पात लि.	565.	11060	मैसर्स टंडन ओवरसीज प्रा. लि.
533.	10906	मैसर्स टी आर एलोए प्रा. लि.	566.	11068	मैसर्स बॉस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
534.	10910	मैसर्स एस जे बी साईकल प्रा. लि.	567.	11073	मैसर्स मानसरोवर केमिकल्स प्रा. लि.
535.	10924	मैसर्स अरनाथ टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	568.	11075	मैसर्स सहाय रिबन्स प्रा. लि.
536.	10926	मैसर्स शरत कॉटन ट्रेडर एंड प्रोसेसर प्रा. लि.	569.	11079	मैसर्स राम वूलन्स प्रा. लि.
537.	10933	मैसर्स नोबल हाऊस इंडिया लि.	570.	11082	मैसर्स हेरिटेज स्पेशलिटी पेपर्स प्रा. लि.
538.	10941	मैसर्स पी. डी. हाऊस आयरन प्रा. लि.	571.	11086	मैसर्स चैम्पियन वायर्स प्रा. लि.
539.	10945	मैसर्स श्वेता फाईबर्स प्रा. लि.	572.	11087	मैसर्स हरमन स्टील्स प्रा. लि.
540.	10947	मैसर्स एलायंस पेन्ट्स प्रा. लि.	573.	11092	मैसर्स जय कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
574.	11109	मैसर्स जगराज कोल्ड स्टोर्स प्रा. लि.	605.	11350	मैसर्स आइडल वाईल्ड होलीडे रिसोर्ट्स प्रा. लि.
575.	11110	मैसर्स डीपी केबल्स एंड वीडियो नेटवर्क प्रा. लि.	606.	11351	मैसर्स पैरामाऊन्ट फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.
576.	11111	मैसर्स अमृतसर मोटर्स प्रा. लि.	607.	11355	मैसर्स एरकोन एलोयस प्रा. लि.
577.	11125	मैसर्स भुल्लर बिल्डर्स प्रा. लि.	608.	11378	मैसर्स शारदा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
578.	11145	मैसर्स नोरवेस्ट लैडर शिपिंग प्रा. लि.	609.	11399	मैसर्स गिल सुरजीत रोडलाईन्स प्रा. लि.
579.	11155	मैसर्स जैनसन्स मैकेनिकल वर्क्स	610.	11403	मैसर्स गोल्डन एरो साईकल्स प्रा. लि.
580.	11157	मैसर्स हिमाचल लैंड डेवलपमेंट्स लि.	611.	11406	मैसर्स अनन्त फटीलाईजर्स एण्ड मेटल्स प्रा. लि.
581.	11171	मैसर्स एन आर कॉपर इंडिया प्रा. लि.	612.	11415	मैसर्स अविशन्का इन्टर ट्रेडर्स प्रा. लि.
582.	11175	मैसर्स न्यू एज ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि.	613.	11425	मैसर्स डेल्टा ड्रग्स प्रा. लि.
583.	11176	मैसर्स ओस्टर प्रोपर्टीज प्रा. लि.	614.	11426	मैसर्स डेल्टा हैल्थ केयर प्रा. लि.
584.	11183	मैसर्स दूर फार्म्स प्रा. लि.	615.	11427	मैसर्स डेल्टा लैबोरेट्रीस प्रा. लि.
585.	11197	मैसर्स कम्फर्ट फार्म्स प्रा. लि.	616.	11438	मैसर्स अतिथि रिसोर्ट्स प्रा. लि.
586.	11198	मैसर्स दिल्ली डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रा. लि.	617.	11443	मैसर्स दमन वूलन मिल्स प्रा. लि.
587.	11203	मैसर्स गगन कॉटन ऑयल एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.	618.	11445	मैसर्स सिन्डीकेट कास्टिंग्स प्रा. लि.
588.	11221	मैसर्स एसना नेटवर्किंग सर्विसिस प्रा. लि.	619.	11451	मैसर्स पैनोरमा टूल्स प्रा. लि.
589.	11224	मैसर्स कीर्ति फोर्जिंग एंड साईकल कम्पोनेंट प्रा. लि.	620.	11457	मैसर्स सत्यम एंटरप्राईसिस प्रा. लि.
590.	11235	मैसर्स बी के साईकल्स प्रा. लि.	621.	11465	मैसर्स राघव वूलटैक्स प्रा. लि.
591.	11238	मैसर्स हिम पावर विजन्स प्रा. लि.	622.	11468	मैसर्स मालवा मोल्डर्स प्रा. लि.
592.	11251	मैसर्स हिमालयन निर्माण प्रा. लि.	623.	11469	मैसर्स ऑटो सेप्टी ग्लास वर्क्स प्रा. लि.
593.	11262	मैसर्स टी एस स्पिनिंग एंड टैक्सटाईल्स मिल्स प्रा. लि.	624.	11470	मैसर्स एच. के. टैक्सटाईल्स प्रा. लि.
594.	11263	मैसर्स हाई टेसाईल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	625.	11478	मैसर्स सिटीजन्स ओवरसीज लि.
595.	11266	मैसर्स के लैडर्स प्रा. लि.	626.	11480	मैसर्स सुनील सोप प्रा. लि.
596.	11277	मैसर्स वीर इंटरनेशनल ट्रेडर्स प्रा. लि.	627.	11492	मैसर्स आंचल रिसोर्ट्स प्रा. लि.
597.	11292	मैसर्स फाल्कन ब्रीडर्स प्रा. लि.	628.	11499	मैसर्स नौनिधि ट्रेडर्स प्रा. लि.
598.	11301	मैसर्स सनस्टार टायर्स एण्ड ट्यूब्स प्रा. लि.	629.	11511	मैसर्स मारबो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
599.	11308	मैसर्स सतहित एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	630.	11516	मैसर्स बाजवा एलाईड सीमेन्ट इंडस्ट्रीज लि.
600.	11315	मैसर्स एक्सैल फॉर्मूलेशन्स प्रा. लि.	631.	11530	मैसर्स नोता सीमेन्ट एंड केमिकल्स प्रा. लि.
601.	11317	मैसर्स के. आर. स्टैम्पिंग्स प्रा. लि.	632.	11538	मैसर्स सिम्पलैक्स इन्फोटेक प्रा. लि.
602.	11321	मैसर्स एल्पाइन केमिकल्स प्रा. लि.	633.	11545	मैसर्स सप्तलोकी दुर्गा होटल्स प्रा. लि.
603.	11328	मैसर्स क्लास पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	634.	11546	मैसर्स एलीगैन्ट मर्कैन्डायज़र्स प्रा. लि.
604.	11338	मैसर्स नर्बदा ट्रेडर्स प्रा. लि.	635.	11546	मैसर्स एलीगैन्ट मर्कैन्डायज़र्स प्रा. लि.
			636.	11548	मैसर्स वी एन पैकिंग प्रा. लि.
			637.	11573	मैसर्स अरुण पोली पैक्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
638.	11584	मैसर्स कर्नल एस्टेट्स प्रा. लि.	671.	11742	मैसर्स फ्लैग टेक्नोलोजीज प्रा. लि.
639.	11586	मैसर्स बर्मा ग्लास कम्पनी प्रा. लि.	672.	11753	मैसर्स ओसहन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
640.	11589	मैसर्स आर जी पी फोरजिंग्स प्रा. लि.	673.	11760	मैसर्स जिरकॉन टूल रूम प्रा. लि.
641.	11590	मैसर्स वंडर ब्रीडर्स प्रा. लि.	674.	11762	मैसर्स हाई लिफ्ट इक्यूपमेंट्स प्रा. लि.
642.	11602	मैसर्स बुटेल होलीडेज रिजोर्ट्स प्रा. लि.	675.	11765	मैसर्स आर. एम. ए. कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
643.	11608	मैसर्स आर वी फोरजिंग प्रा. लि.	676.	11771	मैसर्स एम. एम. सीमेन्ट प्रा. लि.
644.	11613	मैसर्स सिपको फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	677.	11779	मैसर्स एस कमर्शियल सेन्टर प्रा. लि.
645.	11617	मैसर्स दीवान एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	678.	11785	मैसर्स गगन इस्पात प्रा. लि.
646.	11618	मैसर्स साक्षी पाईप्स प्रा. लि.	679.	11786	मैसर्स हिमशिखा स्टील्स प्रा. लि.
647.	11619	मैसर्स ओम इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	680.	11792	मैसर्स लोविश एक्सपाट्स प्रा. लि.
648.	11621	मैसर्स भान मोटर्स प्रा. लि.	681.	11798	मैसर्स कीथ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
649.	11633	मैसर्स लिंक वाईन्ज प्रा. लि.	682.	11809	मैसर्स मधुर केन प्रोडक्ट्स लि.
650.	11634	मैसर्स पंचशिखा टूरिस्ट रिसोर्ट्स लि.	683.	11813	मैसर्स रीयट बैरिगेज प्रा. लि.
651.	11650	मैसर्स आभूषण एक्सपोर्ट प्रा. लि.	684.	11825	मैसर्स मिस्टीक लैडर (इंडिया) प्रा. लि.
652.	11659	मैसर्स पृथीपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	685.	11831	मैसर्स जो बी पेपर मिल प्रा. लि.
653.	11662	मैसर्स भोगा राईस एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.	686.	11838	मैसर्स पंजाब महाराष्ट्रा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
654.	11664	मैसर्स विपोन ऑयल एक्सट्रैक्शन्स प्रा. लि.	687.	11844	मैसर्स क्लिफ फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.
655.	11682	मैसर्स सिम्पलैक्स टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	688.	11845	मैसर्स दीप्स काटन स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
656.	11683	मैसर्स अदीज एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	689.	11854	मैसर्स सोफ्ट मार्ट सेल्स प्रा. लि.
657.	11686	मैसर्स उत्तम फोरजिंग्स प्रा. लि.	690.	11855	मैसर्स अल-तालिब ट्रेडिंग प्रा. लि.
658.	11694	मैसर्स गोल्डन ट्राईएंगल टूरिज्म प्रा. लि.	691.	11857	मैसर्स सिक्का कत्याल टैक्सटाईल्स प्रा. लि.
659.	11700	मैसर्स त्रीभुवन मैटल्स लि.	692.	11863	मैसर्स रैड स्टार होटल्स प्रा. लि.
660.	11706	मैसर्स जे एस कास्टिंग्स प्रा. लि.	693.	11865	मैसर्स कोनवेल केन्स इंडिया लि.
661.	11707	मैसर्स दून बिल्डर्स प्रा. लि.	694.	11870	मैसर्स महाजन टैंट हाऊस प्रा. लि.
662.	11708	मैसर्स तिलक प्रकाश होटल्स प्रा. लि.	695.	11873	मैसर्स नितिका सीमेन्ट लि.
663.	11709	मैसर्स हिमगिरी बिल्डर्स प्रा. लि.	696.	11878	मैसर्स स्कैनडोज फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.
664.	11712	मैसर्स एनब्रोस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	697.	11881	मैसर्स एस. जी. रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
665.	11715	मैसर्स ईरोस फैंब्रिकेट्स प्रा. लि.	698.	11890	मैसर्स अलफरेडा रिसोर्ट्स प्रा. लि.
666.	11717	मैसर्स वीरेन्द्रा रिफाईनरीज प्रा. लि.	699.	11891	मैसर्स नोवा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
667.	11720	मैसर्स पैरामाऊंट सिस्टम्स प्रा. लि.	700.	11900	मैसर्स नेपच्यून फूड्स लि.
668.	11730	मैसर्स रेखी रिसोर्ट्स प्रा. लि.	701.	11903	मैसर्स रीयल वैल्यू एग्रो एस्टेट्स प्रा. लि.
669.	11731	मैसर्स वालिया हाईटैक फोरजिंग प्रा. लि.	702.	11910	मैसर्स आदेश डायगनोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.
670.	11736	मैसर्स रायजो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	703.	11914	मैसर्स साहिब कैमिकल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
704.	11915	मैसर्स साहिब केमिकल्स प्रा. लि.	737.	12098	मैसर्स मनीकरन फोरजिंग्स प्रा. लि.
705.	11920	मैसर्स रणधीर मेटल एक्स्ट्रैक्शन्स प्रा. लि.	738.	12099	मैसर्स चैम्पियन ऑटो सेल्स प्रा. लि.
706.	11921	मैसर्स होवरक्राफ्ट मेन्सवीयर प्रा. लि.	739.	12107	मैसर्स दशमेश फैंब यार्न्स लि.
707.	11933	मैसर्स साधुरा एक्स्ट्रैक्शन्स प्रा. लि.	740.	12125	मैसर्स बी आर कमर्शियल प्रा. लि.
708.	11944	मैसर्स एम बी फार्मास्यूटीकल्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.	741.	12127	मैसर्स बी आर टायर बिल्डर्स प्रा. लि.
709.	11945	मैसर्स वरिन्द्र रोबोटिक्स प्रा. लि.	742.	12133	मैसर्स एगको ऑटोस प्रा. लि.
710.	11947	मैसर्स लिंक बिल्डर्स लि.	743.	12141	मैसर्स सूर्यादीप केम इस्पात प्रा. लि.
711.	11950	मैसर्स ए एन के कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	744.	12143	मैसर्स हिमाचल फ्रूट्स वाईन्स एंड ब्रेवरीज लि.
712.	11951	मैसर्स श्री आतम पेपर ट्यूब्स प्रा. लि.	745.	12145	मैसर्स गोल्ड लाईन मिल्क फूड प्रा. लि.
713.	11953	मैसर्स तेग अलायज प्रा. लि.	746.	12148	मैसर्स राम सरूप सालवेक्स प्रा. लि.
714.	11954	मैसर्स नूर पेपर्स प्रा. लि.	747.	12153	मैसर्स अम्बिका बिजनेस कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
715.	11956	मैसर्स राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	748.	12154	मैसर्स जे. बी. टायर एण्ड ट्यूब्स प्रा. लि.
716.	11973	मैसर्स सतलुज फाईबर्स प्रा. लि.	749.	12157	मैसर्स किंग्स मिलन वैली एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
717.	11999	मैसर्स एम. सी. स्टील वर्क्स प्रा. लि.	750.	12175	मैसर्स बंसल मोटर्स प्रा. लि.
718.	12007	मैसर्स सैनसन्स स्विचगीयर्स प्रा. लि.	751.	12181	मैसर्स हाईलैंड गार्डन एण्ड होटल्स प्रा. लि.
719.	12011	मैसर्स चांदी गैसकैम प्रा. लि.	752.	12187	मैसर्स अग्रवाल स्टील कम्पनी प्रा. लि.
720.	12012	मैसर्स नव दुर्गा एलोज प्रा. लि.	753.	12191	मैसर्स ली-ग्रुप सिक्वोरिटी सिस्टम्स प्रा. लि.
721.	12017	मैसर्स ग्रेवाल नोरडिया सिंग्स लि.	754.	12193	मैसर्स सुरजीत इंजीनियर्स एण्ड फैंब्रिकेटर्स प्रा. लि.
722.	12019	मैसर्स आई सी ए ओवरसीज प्रा. लि.	755.	12199	मैसर्स पंजाब हाइथोकेमिकल्स लि.
723.	12021	मैसर्स सचवैले इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	756.	12202	मैसर्स गुडविल मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस लि.
724.	12030	मैसर्स आफताब होटल्स प्रा. लि.	757.	12203	मैसर्स जे आर एस एण्टरप्राइजेज प्रा. लि.
725.	12031	मैसर्स टैक्टीनिक्स ओवरसीज प्रा. लि.	758.	12213	मैसर्स स्वान्स ऑटो विंग्स प्रा. लि.
726.	12032	मैसर्स के फुटवीयर्स प्रा. लि.	759.	12215	मैसर्स रॉयल एडवर्टाईजिंग प्रा. लि.
727.	12041	मैसर्स सन टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	760.	12222	मैसर्स नार्दन कन्टेनर्स प्रा. लि.
728.	12053	मैसर्स साहिब मेटल फार्म्स प्रा. लि.	761.	12237	मैसर्स आभू ऑटोस प्रा. लि.
729.	12059	मैसर्स फाजिल्का ऑयल्स प्रा. लि.	762.	12240	मैसर्स क्लासिक इस्पात प्रा. लि.
730.	12060	मैसर्स अंजू केमिकल्स प्रा. लि.	763.	12255	मैसर्स चांदी फार्माकैम प्रा. लि.
731.	12063	मैसर्स हिमगिरी मिनरल्स एच पी प्रा. लि.	764.	12264	मैसर्स अनिल साईकल्स प्रा. लि.
732.	12066	मैसर्स पंजाब फ्रूट्स प्रा. लि.	765.	12270	मैसर्स स्वागत मार्बल्स प्रा. लि.
733.	12082	मैसर्स बी. आर. एस. इंजन्स प्रा. लि.	766.	12272	मैसर्स गगन मार्केटिंग प्रा. लि.
734.	12085	मैसर्स एन जी ट्रेड्स प्रा. लि.	767.	12277	मैसर्स महावीर स्ट्रिप्स प्रा. लि.
735.	12087	मैसर्स डिसेग्नो ओवरसीज प्रा. लि.	768.	12279	मैसर्स कोई इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
736.	12090	मैसर्स सुरजीत फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	769.	12283	मैसर्स जेटली इम्पेक्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
770.	12286	मैसर्स होली निट फ़ैब प्रा. लि.	803.	12507	मैसर्स मुक्तसर पॉली क्लीनिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
771.	12293	मैसर्स रिच एण्ड फेमस मार्केटर्स प्रा. लि.	804.	12511	मैसर्स रामा गिन्स प्रा. लि.
772.	12296	मैसर्स रेखी लैडर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	805.	12520	मैसर्स वेस्टकोस्ट इम्पैक्स प्रा. लि.
773.	12318	मैसर्स श्री दीवान एक्सपोर्ट हाऊस लि.	806.	12544	मैसर्स टीडीके ड्रग फार्मा प्रा. लि.
774.	12322	मैसर्स खान केमिकल्स प्रा. लि.	807.	12561	मैसर्स सूर्या किरण कार्स्टिग्स प्रा. लि.
775.	12326	मैसर्स एस डी शर्मा एण्ड एसोसिएट्स प्रा. लि.	808.	12575	मैसर्स ओपेक्स इण्डिया प्रा. लि.
776.	12334	मैसर्स सर्विस साईकल्स प्रा. लि.	809.	12578	मैसर्स सिल्वर स्क्रीन मैग्नेटिक डाइग्नोस्टिक लि.
777.	12346	मैसर्स करतार बोर्ड्स प्रा. लि.	810.	12579	मैसर्स अदीशा शोपिंग सेन्टर प्रा. लि.
778.	12363	मैसर्स डा. परमजीत मेडिकल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.	811.	12583	मैसर्स जनता काटन एण्ड फूड्स प्रा. लि.
779.	12366	मैसर्स बन्दना रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	812.	12584	मैसर्स एचएसके एलोय स्टील्स लि.
780.	12367	मैसर्स चैम्पियन स्पिनर्स प्रा. लि.	813.	12588	मैसर्स किंगस्टन हिल रिसोर्ट्स प्रा. लि.
781.	12386	मैसर्स डॉलफिन कन्डक्टर्स प्रा. लि.	814.	12593	मैसर्स अमन फ्लोरीटेक प्रा. लि.
782.	12390	मैसर्स ब्रिजेश प्रिन्टर्स प्रा. लि.	815.	12596	मैसर्स सतनाम मेटल वर्क्स लि.
783.	12393	मैसर्स नितिन सेल्स एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि.	816.	12605	मैसर्स जी के केबल्स प्रा. लि.
784.	12399	मैसर्स धरमिन्द्रा इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	817.	12622	मैसर्स मां भगवती ऑयन एण्ड फ़ैट्स प्रा. लि.
785.	12414	मैसर्स के. एम. फूड्स लि.	818.	12636	मैसर्स स्पाक वायर्स एण्ड मशीन्स प्रा. लि.
786.	12416	मैसर्स आहलुवालिया होस्पीटल्स प्रा. लि.	819.	12637	मैसर्स नवरत्न स्टील स्ट्रिप्स प्रा. लि.
787.	12429	मैसर्स फ्लोरेक्स केमिकल्स प्रा. लि.	820.	12648	मैसर्स फरीद फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
788.	12433	मैसर्स सेंचुरी शीट मेटल्स इण्डिया लि.	821.	12651	मैसर्स एस पी हॉस्पीटल्स प्रा. लि.
789.	12438	मैसर्स सदाना मार्केटिंग प्रा. लि.	822.	12653	मैसर्स थापर मिनकेम लि.
790.	12439	मैसर्स सतलुज ट्रीड्स प्रा. लि.	823.	12656	मैसर्स डेल्टा कन्डक्टर्स एण्ड नान फेरस अलोएज प्रा. लि.
791.	12441	मैसर्स जयकर्ण एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.	824.	12672	मैसर्स बहलसन कैसेट्स प्रा. लि.
792.	12442	मैसर्स स्मोलाइन एडवेन्वर्स होलीडेज प्रा. लि.	825.	12680	मैसर्स पारडे केम प्रा. लि.
793.	12446	मैसर्स कोलम्बो फोटो कम्पनी प्रा. लि.	826.	12682	मैसर्स पारस रिफ़्रेक्टरीज प्रा. लि.
794.	12447	मैसर्स ओम पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	827.	12690	मैसर्स हालिक्स फास्टनर्स प्रा. लि.
795.	12449	मैसर्स बिजली महादेव रोपवेज प्रा. लि.	828.	12694	मैसर्स नीलम फोर्जिंग्स प्रा. लि.
796.	12450	मैसर्स नोहरा मारबल्स प्रा. लि.	829.	12696	मैसर्स फाल्कोन टी एण्ड एम इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
797.	12463	मैसर्स चण्डीगढ़ सेक्रेटरियल सर्विसेस प्रा. लि.	830.	12697	मैसर्स दीरास एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
798.	12465	मैसर्स अमित टेक्नीकल कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.	831.	12700	मैसर्स शिमला एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
799.	12472	मैसर्स आईडर कॉमर्स प्रा. लि.	832.	12703	मैसर्स निर्मल बिजनेस फार्म्स प्रा. लि.
800.	12478	मैसर्स सहगल ब्रदर्स वर्ल्डवाइड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	833.	12704	मैसर्स हंस होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
801.	12486	मैसर्स सन्नी इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.	834.	12722	मैसर्स पंजाब साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन्स प्रा. लि.
802.	12506	मैसर्स अमृत एयर सर्विसेस प्रा. लि.			

1	2	3
835.	12723	मैसर्स नाभा मिनरल्स प्रा. लि.
836.	12725	मैसर्स कम्पोजिट कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
837.	12729	मैसर्स इरोज इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.
838.	12731	मैसर्स सूर्या पोलीथिन प्रा. लि.
839.	12733	मैसर्स दौलतराम लेदर्स प्रा. लि.
840.	12789	मैसर्स वेदी प्लास्ट्स प्रा. लि.
841.	12790	मैसर्स जेडीएस इलेक्ट्रो-टेक प्रा. लि.
842.	12795	मैसर्स छाबड़ा ऑयल मिल्स प्रा. लि.
843.	12799	मैसर्स टूर स्पिनर्स लि.
844.	12811	मैसर्स पिकरिक लि.
845.	12813	मैसर्स टीएमटी इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
846.	12815	मैसर्स फीको पेपर एण्ड मेक प्रा. लि.
847.	12823	मैसर्स लीजेन्डरी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
848.	12846	मैसर्स राधा फोर्जिंग्स प्रा. लि.
849.	12848	मैसर्स अटवाल सिन्थेटिक्स लि.
850.	12852	मैसर्स पिकरिक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
851.	12862	मैसर्स रैडिक्स लेबोरेटरीज लि.
852.	12867	मैसर्स राजपुरा सोल्वेक्स प्रा. लि.
853.	12872	मैसर्स रॉयल गैसेस प्रा. लि.
854.	12875	मैसर्स बी एस फैंट्स एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
855.	12892	मैसर्स सिम्बा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रा. लि.
856.	12895	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
857.	12898	मैसर्स साहनी इस्टेट्स प्रा. लि.
858.	12908	मैसर्स सेठ डिटर्जेंट प्रा. लि.
859.	12910	मैसर्स स्माइल एडवर्टाईजिंग एण्ड फिल्म्स प्रा. लि.
860.	12912	मैसर्स अनमोल केबल्स प्रा. लि.
861.	12923	मैसर्स ग्रेवालोन केमिकल्स प्रा. लि.
862.	12924	मैसर्स बस्सी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
863.	12927	मैसर्स हिमाचल कन्द्री रिसोर्ट्स लि.
864.	12931	मैसर्स बरनाला शेयर मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
865.	12933	मैसर्स रिलायबल बस सर्विस प्रा. लि.
866.	12935	मैसर्स सिटी पाइप्स प्रा. लि.
867.	12936	मैसर्स जय सम्भव पैकेजेस प्रा. लि.

1	2	3
868.	12947	मैसर्स त्रिदेव ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
869.	12954	मैसर्स अरिहन्त वूलेन्स प्रा. लि.
870.	12956	मैसर्स बजाज फ्रोजेन फूट्स एण्ड वेजीटेबल्स लि.
871.	12958	मैसर्स फिल्कॉन इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
872.	12964	मैसर्स जय गणेश यार्न सेंटर प्रा. लि.
873.	12978	मैसर्स नोनी मैग्नेटिक मीडिया प्रा. लि.
874.	12980	मैसर्स गामा डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
875.	12981	मैसर्स विराम सीमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
876.	13000	मैसर्स स्कीवज़ ओर्गेनिक (हिन्दुस्तान) प्रा. लि.
877.	13004	मैसर्स सोफ्ट ब्रेन कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
878.	13006	मैसर्स ग्रेन्ड मार्केटिंग प्रा. लि.
879.	13008	मैसर्स आर.आर. बेकर्स प्रा. लि.
880.	13009	मैसर्स मोमक इन्जीनियर्स प्रा. लि.
881.	13017	मैसर्स बजाज टूल्स प्रा. लि.
882.	13020	मैसर्स सागर इक्युपमेन्ट्स प्रा. लि.
883.	13033	मैसर्स गैटवैल लेबोरेटरीज प्रा. लि.
884.	13036	मैसर्स दलेर सिंह मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
885.	13046	मैसर्स जालन्धर केमिकल्स प्रा. लि.
886.	13053	मैसर्स सतनाम केमिकल्स प्रा. लि.
887.	13064	मैसर्स शील केमिकल्स प्रा. लि.
888.	13072	मैसर्स एसजेएम रबर्स प्रा. लि.
889.	13075	मैसर्स सेज मेटल्स प्रा. लि.
890.	13082	मैसर्स तलवार एण्ड सूद होटल्स प्रा. लि.
891.	13083	मैसर्स अत्तर सीमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
892.	13089	मैसर्स अनन्त हाईटेक इन्जीनियर्स लि.
892.	13091	मैसर्स ओपटेक स्टील्स प्रा. लि.
893.	13113	मैसर्स पेसिफिक लेबोरेटरीज प्रा. लि.
894.	13115	मैसर्स सुरेश एपरेल्स प्रा. लि.
896.	13123	मैसर्स क्वेस्ट कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
897.	13129	मैसर्स अंगुला इस्टेट्स प्रा. लि.
898.	13130	मैसर्स टेंगरी फौब्रिक्स प्रा. लि.
899.	13135	मैसर्स सेरवेल फार्मा एजेन्सीज प्रा. लि.

1	2	3
900.	13147	मैसर्स गिलसन्स स्टील्स प्रा. लि.
901.	13155	मैसर्स लक्की इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
902.	13157	मैसर्स यूनिक टेलीकॉमिक्स प्रा. लि.
903.	13162	मैसर्स हाईग्रेड फास्टनर्स प्रा. लि.
904.	13173	मैसर्स एलोरा फाईन फूड्स प्रा. लि.
905.	13186	मैसर्स ओसवाल निटर्स लि.
906.	13192	मैसर्स मोडेस्टो होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
907.	13198	मैसर्स थर्ड आई विजन प्रा. लि.
908.	13205	मैसर्स पुगमार्क कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
909.	13216	मैसर्स गुरु अमर दास टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
910.	13221	मैसर्स आर एम प्रोसेसर्स प्रा. लि.
911.	13223	मैसर्स समरा एम्ब्रो टेक प्रा. लि.
912.	13225	मैसर्स प्रिन्स लेमिनेटेड बेल्ट्स प्रा. लि.
913.	13227	मैसर्स साहिल मेटल एण्ड स्क्रैप कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
914.	13234	मैसर्स जग्यासू इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
915.	13237	मैसर्स रामकिशन शंकर दास एग्रो प्रा. लि.
916.	13241	मैसर्स विश्वास सीमेन्ट प्रा. लि.
917.	13245	मैसर्स साहबी गैस सर्विस प्रा. लि.
918.	13250	मैसर्स एक्मी टेक्नोलॉजीज नेटवर्क प्रा. लि.
919.	13258	मैसर्स एसएचआई शम्भू स्टील्स प्रा. लि.
920.	13263	मैसर्स टीसीएल इम्प्लाईज वेलफेयर कम्पनी प्रा. लि.
921.	13270	मैसर्स रोबेट साईकिल्स लि.
922.	13276	मैसर्स रघू इम्पेक्स प्रा. लि.
923.	13285	मैसर्स रोजवेल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
924.	13288	मैसर्स मॉडेला निटवीयर्स लि.
925.	13290	मैसर्स डॉ. कुलवन्त सिंह हॉस्पिटल्स प्रा. लि.
926.	13297	मैसर्स लिंगले फैब इन्जीनियर्स प्रा. लि.
927.	13299	मैसर्स केएसएम मेटल वर्क्स प्रा. लि.
928.	13304	मैसर्स ओम लैम्प्स प्रा. लि.
929.	13327	मैसर्स कुरियो केम प्रा. लि.
930.	13334	मैसर्स रिलायन्स मैलिअबल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
931.	13337	मैसर्स डिल्लों ओवरसीज प्रा. लि.

1	2	3
932.	13339	मैसर्स कृष्णा शॉल्स प्रा. लि.
933.	13341	मैसर्स फिरोज रिसोर्ट्स प्रा. लि.
934.	13347	मैसर्स शिवराज वायर्स लि.
935.	13355	मैसर्स सहगल रबर्स प्रा. लि.
936.	13360	मैसर्स आशुतोष पैकेजिंस प्रा. लि.
937.	13371	मैसर्स जे एम ट्रेक्स लि.
938.	13383	मैसर्स सिटी स्टील्स प्रा. लि.
939.	13384	मैसर्स दर्पन टैको प्लास्ट प्रा. लि.
940.	13397	मैसर्स ब्रोडवे साईकिल्स प्रा. लि.
941.	13398	मैसर्स गोल्डेन ऑटो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
942.	13422	मैसर्स सूर्या एनर्जी सेन्टर प्रा. लि.
943.	13427	मैसर्स उर्मिल ट्यूब्स प्रा. लि.
944.	13431	मैसर्स अम्बाला स्टोर्स प्रा. लि.
945.	13433	मैसर्स बीआर इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
946.	13434	मैसर्स विनट्रोन कम्यूटर्स प्रा. लि.
947.	13436	मैसर्स राणा मेडिकल एजेन्सीज प्रा. लि.
948.	13438	मैसर्स जालन्धर फ्रेट कैरियर्स प्रा. लि.
949.	13447	मैसर्स हर गोविन्द इस्टेट्स प्रा. लि.
950.	13455	मैसर्स गिरी लाइम एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
951.	13467	मैसर्स अमृतसर ऑटोज प्रा. लि.
952.	13468	मैसर्स पंजाब निटर्स लि.
953.	13471	मैसर्स अरदास कम्यूटर्स प्रा. लि.
954.	13472	मैसर्स पी. एन. वर्मा रबर एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
955.	13490	मैसर्स ब्लिस बोयानिक्स प्रा. लि.
956.	13496	मैसर्स हिम एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
957.	13500	मैसर्स जीएमपी मैकेनिकल इन्जीनियर्स प्रा. लि.
958.	13510	मैसर्स ब्रिटेनिया पेन्ट्स प्रा. लि.
959.	13518	मैसर्स पुष्पा फूड्स प्रा. लि.
960.	13525	मैसर्स पेसिफिक पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
961.	13529	मैसर्स कृति इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
962.	13545	मैसर्स भीष्म पितामह फाईनेशियल कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.
963.	13550	मैसर्स कस्तूरी केमिकल्स प्रा. लि.



1	2	3	1	2	3
964.	13551	मैसर्स फलोमोर अपारेल्स प्रा. लि.	997.	13698	मैसर्स मुद्रा ओवरसीज लि.
965.	13559	मैसर्स रोहटंग वाटर्स प्रा. लि.	998.	13701	मैसर्स जेएमडी मेडिकामेन्ट्स प्रा. लि.
966.	13560	मैसर्स मनराज मिन्ट्स प्रा. लि.	999.	13702	मैसर्स शुभ स्टील रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
967.	13562	मैसर्स सुपर स्ट्रिप्स प्रा. लि.	1000.	13704	मैसर्स यूनाइटेड इस्पात (हिमाचल) रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
968.	13565	मैसर्स जनता गैसेस प्रा. लि.	1001.	13708	मैसर्स सोनाय एक्सपोर्ट्स लि.
969.	13570	मैसर्स कोयल केमिकल्स प्रा. लि.	1002.	13712	मैसर्स स्काईहॉक प्लेसमेन्ट एण्ड परसोनल कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि.
970.	13574	मैसर्स परफेक्ट ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	1003.	13718	मैसर्स शिवा पोर्ट्रीज प्रा. लि.
971.	13577	मैसर्स साई स्पोर्ट्स एण्ड फैशनवीयर प्रा. लि.	1004.	13730	मैसर्स ब्रिलिएन्ट कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
972.	13581	मैसर्स जर्सी निट्स प्रा. लि.	1005.	13736	मैसर्स गिल फार्म्स प्रा. लि.
973.	13582	मैसर्स सी एस जी टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा. लि.	1006.	13739	मैसर्स नागपाल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
974.	13587	मैसर्स एम्को ह्वील्स प्रा. लि.	1007.	13740	मैसर्स विपन कॉटन्स प्रा. लि.
975.	13593	मैसर्स सरदार वूलेन मिल्स प्रा. लि.	1008.	13744	मैसर्स हेवन बिल्डर्स प्रा. लि.
976.	13598	मैसर्स ओम्को पोलीमर्स प्रा. लि.	1009.	13749	मैसर्स जगुर इम्पेक्स प्रा. लि.
977.	13600	मैसर्स मंगलम फेरो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1010.	13756	मैसर्स ट्रियून एग्रो फूड्स लि.
978.	13602	मैसर्स अंसारी फोर्जिंग्स प्रा. लि.	1011.	13758	मैसर्स एल. सी. ओसवाल वूलेन्स प्रा. लि.
979.	13615	मैसर्स एन एम वूलेन मिल्स प्रा. लि.	1012.	13761	मैसर्स वर्धमान लेमिनेटर्स प्रा. लि.
980.	13622	मैसर्स गुडविल कॉस्मेटिक्स प्रा. लि.	1013.	13770	मैसर्स मंगत राय राधे श्याम जैन ज्वेलर्स प्रा. लि.
981.	13624	मैसर्स पी. के. सीलिंग्स प्रा. लि.	1014.	13775	मैसर्स क्लासिकल ट्यूब्स प्रा. लि.
982.	13627	मैसर्स मुक्तसर अबोहर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	1015.	13778	मैसर्स परमजीत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
983.	13631	मैसर्स ओशिद फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1016.	13782	मैसर्स रेवलसर रिसोर्ट्स प्रा. लि.
984.	13632	मैसर्स श्री साई गम प्लास्टिक टेप्स प्रा. लि.	1017.	13787	मैसर्स सुधा मोना फिलामेन्ट्स निवार प्रा. लि.
985.	13633	मैसर्स आहुजा रबर प्रा. लि.	1018.	13801	मैसर्स विश्वम्नो वॉयर निर्दिग प्रा. लि.
986.	13634	मैसर्स हीरा निटवीयर्स प्रा. लि.	1019.	13803	मैसर्स जेनिश मशीनक्राफ्ट प्रा. लि.
987.	13641	मैसर्स फ्रेन्ड्स पॉलीपैक्स प्रा. लि.	1020.	13808	मैसर्स वीशा बाक्सेस प्रा. लि.
988.	13644	मैसर्स जी. एन. स्टील्स प्रा. लि.	1021.	13820	मैसर्स शिरोमनी पेपर्स प्रा. लि.
989.	13646	मैसर्स जे. बी. इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1022.	13821	मैसर्स ओकासा पेट्रोलियम्स प्रा. लि.
990.	13652	मैसर्स किरण ओवरसीज लि.	1023.	13833	मैसर्स बिन्दल फाईनेशियल सर्विसेस प्रा. लि.
991.	13653	मैसर्स स्काईहाई फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1024.	13837	मैसर्स टोयो रॉफी ड्रग्स प्रा. लि.
992.	13658	मैसर्स विनीत लेदर प्रा. लि.	1025.	13847	मैसर्स यूरो इम्पेक्स एण्ड इस्टेट्स प्रा. लि.
993.	13659	मैसर्स शालीमार सीलिंग्स प्रा. लि.	1026.	13849	मैसर्स अभीर सर्वेयर्स एण्ड लॉस एसेसर्स प्रा. लि.
994.	13674	मैसर्स गसोम गैसेस प्रा. लि.	1027.	13862	मैसर्स सेरेब्रा इन्फार्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि.
995.	13681	मैसर्स पेनग्युन ओर्गेनिक्स प्रा. लि.	1028.	13865	मैसर्स मिलर इन्जिन्स प्रा. लि.
996.	13690	मैसर्स आंचल हॉस्पिटल्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
1029.	13866	मैसर्स क्रोन साईकल्स प्रा. लि.	1062.	14076	मैसर्स श्री जगदम्बे स्टील ट्यूब्स प्रा. लि.
1030.	13874	मैसर्स शिरडी साई प्रिन्टर्स प्रा. लि.	1063.	14088	मैसर्स नानक नेट्स एण्ड फैब्रिक्स प्रा. लि.
1031.	13878	मैसर्स सपूरी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1064.	14100	मैसर्स गोल्डेन वेब्स एडवर्टाईजिंग लि.
1032.	13879	मैसर्स भारती टेलीनेट लि.	1065.	14109	मैसर्स भनोट सोल्वेक्स प्रा. लि.
1033.	13888	मैसर्स डीसन्स पेट्रो गैसेस प्रा. लि.	1066.	14118	मैसर्स पारस कन्टेनर्स प्रा. लि.
1034.	13904	मैसर्स अमृतसर फास्टनर्स प्रा. लि.	1067.	14121	मैसर्स पनवेयर मोबाईल कम्युनिकेशन लि.
1035.	13929	मैसर्स शिव स्पिनर्स लि.	1068.	14133	मैसर्स शुवाल वूलेन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1036.	13934	मैसर्स फ्रीडम साईकल कम्पनी प्रा. लि.	1069.	13137	मैसर्स विकाश इन्फोमेटिक्स सिस्टम्स प्रा. लि.
1037.	13940	मैसर्स कुथियाला इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1070.	14138	मैसर्स बी. तरुन पोली इण्डिया प्रा. लि.
1038.	13944	मैसर्स ए एम फाईनेशियल सर्विसेस लि.	1071.	14140	मैसर्स बिन्दल पोलीविन लि.
1039.	13950	मैसर्स इनकेयर मेडी सर्ज प्रा. लि.	1072.	14141	मैसर्स सामना फोर्ज प्रा. लि.
1040.	13951	मैसर्स आधुनिक स्टील्स एण्ड वायर्स प्रा. लि.	1073.	13147	मैसर्स हिमसन फोर्जिंग प्रा. लि.
1041.	13956	मैसर्स बॉब सेल्स प्रा. लि.	1074.	14150	मैसर्स पावर किंग इलेक्ट्रो स्टैम्पिंग्स प्रा. लि.
1042.	13958	मैसर्स बलुआना कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	1075.	14152	मैसर्स कोग इन्स प्रा. लि.
1043.	13964	मैसर्स जी टेक्स डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स लि.	1076.	14156	मैसर्स भनी मेडीकेयर सिस्टम्स प्रा. लि.
1044.	13982	मैसर्स रोडमास्टर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1077.	14159	मैसर्स आदिश्वर स्पिनर्स लि.
1045.	13986	मैसर्स लेजरटेक ग्राफिक्स प्रा. लि.	1078.	14173	मैसर्स नापा पेपर्स लि.
1046.	13987	मैसर्स स्वामी प्रोपर्टी कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.	1079.	14177	मैसर्स आरती गैसेस प्रा. लि.
1047.	13993	मैसर्स गुरु कृपा फैब्रिक्स प्रा. लि.	1080.	14195	मैसर्स जेनिस ऑटो प्रा. लि.
1048.	13994	मैसर्स जिमीदारा सीड्स प्रा. लि.	1081.	14199	मैसर्स यूनिक शूज प्रा. लि.
1049.	13999	मैसर्स गुप्ता कोरोसिन ऑयल प्रा. लि.	1082.	14216	मैसर्स आर. होटल्स प्रा. लि.
1050.	14006	मैसर्स शीतल फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.	1083.	14221	मैसर्स ओमेगा आटो केबल्स प्रा. लि.
1051.	14015	मैसर्स विपिन वनस्पति प्रा. लि.	1084.	14227	मैसर्स इन्दरसन्स स्टील फोर्ज प्रा. लि.
1052.	14030	मैसर्स मालवा इमीग्रेशन सर्विसेस प्रा. लि.	1085.	14239	मैसर्स के. एल. मल्होत्रा डाईंग एण्ड स्पिनर्स प्रा. लि.
1053.	14032	मैसर्स किरण गैसेस प्रा. लि.	1086.	14240	मैसर्स दीपशिखा केमिकल्स प्रा. लि.
1054.	14035	मैसर्स एम. एफ. टायर्स लि.	1087.	14244	मैसर्स सबरो मधुरमिलन होटल्स प्रा. लि.
1055.	14052	मैसर्स आर. एम. रबर्स प्रा. लि.	1088.	14247	मैसर्स सारस इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
1056.	14055	मैसर्स एस. बी. आर. सेरामिक्स प्रा. लि.	1089.	14250	मैसर्स डी. जी. फूड्स प्रा. लि.
1057.	14065	मैसर्स पी. सी. प्वाइन्ट इन्फोटेक प्रा. लि.	1090.	14261	मैसर्स इन्नोवेशन एजुकेशन सिस्टम प्रा. लि.
1058.	14066	मैसर्स डेल्टा फाईनेशियल सर्विसेस प्रा. लि.	1091.	14276	मैसर्स नील ट्यूब्स प्रा. लि.
1059.	14068	मैसर्स किसराज ओवरसीज प्रा. लि.	1092.	14278	मैसर्स पी. एस. सिल्क मिल्स प्रा. लि.
1060.	14073	मैसर्स ईंगल टायर्स प्रा. लि.	1093.	14281	मैसर्स कमिटेन्ट इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1061.	14075	मैसर्स वेलेन्टाईन एक्सपोर्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
1094.	14286	मैसर्स सराई ऑटोइलेक्ट्रिक प्रा. लि.	1126.	14526	मैसर्स इण्डो एलपीजी बॉटलिंग प्लान्ट लि.
1095.	14300	मैसर्स प्रोफैब सिसटम इन्जीनियरिंग प्रा. लि.	1127.	14533	मैसर्स सुखमनी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1096.	14321	मैसर्स आर. पी. सिन्थेटिक्स प्रा. लि.	1128.	14540	मैसर्स मोहाली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
1097.	14322	मैसर्स सिल्वर बिल्डर्स प्रा. लि.	1129.	14542	मैसर्स अमित बीविंग एण्ड स्पिनिंग कम्पनी प्रा. लि.
1098.	14326	मैसर्स सुखना इन्फोमेक प्रा. लि.	1130.	14555	मैसर्स लिबर्टी होजरी मिल्स प्रा. लि.
1099.	14328	मैसर्स एस. एस. यार्न्स प्रा. लि.	1131.	14556	मैसर्स सुप्रिया रबर्स प्रा. लि.
1100.	14330	मैसर्स सतनाम स्पिनिंग प्रा. लि.	1132.	14590	मैसर्स करमन क्राफ्ट्स प्रा. लि.
1101.	14333	मैसर्स एम. कोइरस लि.	1133.	14591	मैसर्स फैशनेशन्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1102.	14336	मैसर्स पंजाब जिंक प्रा. लि.	1134.	14609	मैसर्स जेबीआर हैवी इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
1103.	14357	मैसर्स हिमाचल क्लोरोकेम प्रा. लि.	1135.	14616	मैसर्स एमआरएम इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रा. लि.
1104.	14364	मैसर्स वोल्टेक्स इलेक्ट्रिकल्स इन्जीनियर्स प्रा. लि.	1136.	14618	मैसर्स पिल्सबरी फूड्स प्रा. लि.
1105.	14365	मैसर्स मलेरकोटला वेल्लिंग इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि.	1137.	14619	मैसर्स गिरिवार सीमेन्ट्स प्रा. लि.
1106.	14369	मैसर्स नेप्च्यून फाईनेशियल एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि.	1138.	14621	मैसर्स सिल्वरलाइन ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.
1107.	14379	मैसर्स जी.डी.आर. वाचेस प्रा. लि.	1139.	14622	मैसर्स लुधियाना इन्वायरन्मेन्ट रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
1108.	14389	मैसर्स नावेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1140.	14632	मैसर्स बनारसी डायर्स प्रा. लि.
1109.	14390	मैसर्स आजाद इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1141.	14635	मैसर्स परफेक्ट एग्रो मिल्स प्रा. लि.
1110.	14401	मैसर्स विष्णु सेल्स प्रा. लि.	1142.	14640	मैसर्स मून कम्फर्ट होटल्स प्रा. लि.
1111.	14409	मैसर्स जी. एस. के. डायनोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.	1143.	14642	मैसर्स टेकाड फार्मा प्रा. लि.
1112.	14415	मैसर्स खन्ना काम्बर्स प्रा. लि.	1144.	14668	मैसर्स होपवेल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स लि.
1113.	14429	मैसर्स पेनगुइन कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	1145.	14675	मैसर्स एमटीई इन्वायरन्मेन्ट लि.
1114.	14436	मैसर्स जिन्दल माइक्रो सर्किट्स प्रा. लि.	1146.	14680	मैसर्स सोलटी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1115.	14439	मैसर्स अन्जुमन ड्रग्स लि.	1147.	14682	मैसर्स रावीसन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1116.	14444	मैसर्स कैपिटल पोलीसैक्स प्रा. लि.	1148.	14686	मैसर्स अरिहन्त निटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1117.	14447	मैसर्स विद्युत स्पेयर्स एण्ड कार्टिड्स प्रा. लि.	1149.	14696	मैसर्स जी. एम. टी. फ्यूल ब्रिक्क्यूटीस प्राईवेट लिमिटेड
1118.	14452	मैसर्स के. जी. डाईप्रो प्रा. लि.	1150.	14704	मैसर्स फारुकी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1119.	14474	मैसर्स करनाल रबर प्रा. लि.	1151.	14708	मैसर्स वैट्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1120.	14492	मैसर्स पैराडाइज फोर्जिंग्स प्रा. लि.	1152.	14712	मैसर्स हैल्पलाईन प्रिविलिजेंस एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
1121.	14494	मैसर्स नाचिकेता एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1153.	14720	मैसर्स टी. आर. एल. पी. जी. बाटलिंग प्लांट प्राईवेट लिमिटेड
1122.	14510	मैसर्स धीमान कोच बिल्डर्स प्रा. लि.	1154.	14721	मैसर्स नोवेल एग्रोफूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1123.	14516	मैसर्स बिलासपुर इस्टेट्स प्रा. लि.	1155.	14723	मैसर्स दीपक डाईंग एण्ड फिनिशिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1124.	14522	मैसर्स के. वी. ऑटो लि.	1156.	14725	मैसर्स लुधियाना कम्युनिकेशनस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
1125.	14523	मैसर्स डॉ. बलदेव सिंह डॉ. जोगिन्दर सिंह मेमोरियल क्लीनिक प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
1157.	14727	मैसर्स मल्टी चैनल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1190.	14890	मैसर्स मेरिडीक एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1158.	14732	मैसर्स मंगला काटेक्स लिमिटेड	1191.	14904	मैसर्स स्प्रिंता निट्स लिमिटेड
1159.	14735	मैसर्स वाइटल रीमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड	1192.	14921	मैसर्स एस. टी. पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1160.	14738	मैसर्स अम्बाजी कैट्स एण्ड आयल्स लिमिटेड	1193.	14929	मैसर्स अम्बर सुखता कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1161.	14739	मैसर्स कामसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1194.	14931	मैसर्स जीन्नी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1162.	14742	मैसर्स वरून एगो एप्लीएन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	1195.	14937	मैसर्स भगवती एलोइज प्राईवेट लिमिटेड
1163.	14745	मैसर्स बेदी एण्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड	1196.	14943	मैसर्स न्यु टाईम्स मीडिया सिंडिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
1164.	14760	मैसर्स रंजीत हार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	1197.	14954	मैसर्स सोना इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1165.	14761	मैसर्स विकट्री कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1198.	14957	मैसर्स प्रोटीयूस फाईनैशियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1166.	14763	मैसर्स रानसन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1199.	14975	मैसर्स बन्सल सीमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1167.	14767	मैसर्स राजीव पोल्टर्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	1200.	14988	मैसर्स शिवालिक बैंकरी प्राईवेट लिमिटेड
1168.	14772	मैसर्स रायल कास्मिक इण्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड	1201.	14997	मैसर्स सिमर साइकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1169.	14775	मैसर्स सन चासेर हौजरी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1202.	15000	मैसर्स अरोरा कान-कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
1170.	14778	मैसर्स महाकाली प्रोसेसर्स लिमिटेड	1203.	15002	मैसर्स एच. एस. स्टेट्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1171.	14781	मैसर्स के. आर. डाई स्टाफ प्राईवेट लिमिटेड	1204.	15003	मैसर्स मूवीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1172.	14785	मैसर्स बचत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1205.	15005	मैसर्स भास्कर इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1173.	14798	मैसर्स सीटिजन फोर्ज लिमिटेड	1206.	15006	मैसर्स विकट्री फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1174.	14803	मैसर्स इ. पी. एस. इण्टरनेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड	1207.	15011	मैसर्स युनिसन कन्स्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड
1175.	14806	मैसर्स कंगारू मीडियाप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	1208.	15016	मैसर्स जैन विद्युत प्राईवेट लिमिटेड
1176.	14807	मैसर्स लिबर्टी प्लेसमेंट सर्विसेस लिमिटेड	1209.	15018	मैसर्स मिनारिनी रौनक फारमा लिमिटेड
1177.	14808	मैसर्स पावर स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1210.	15032	मैसर्स नार्थ प्वाइंट मैडी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1178.	14809	मैसर्स हिमाचल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	1211.	15033	मैसर्स नार्थ एक्वा प्राईवेट लिमिटेड
1179.	14812	मैसर्स ट्रेवालिंग्स ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	1212.	15038	मैसर्स एसोसी पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
1180.	14814	मैसर्स गगर फीड्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1213.	15061	मैसर्स डारविक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1181.	14816	मैसर्स मल्टीपल टैक्नोएक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1214.	15066	मैसर्स शिवम सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1182.	14827	मैसर्स स्वदेशी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1215.	15067	मैसर्स जैसमिन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1183.	14828	मैसर्स श्री ओम पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1216.	15073	मैसर्स ग्रेस ट्राइमैक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
1184.	14835	मैसर्स बारोट ब्रीवरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	1217.	15084	मैसर्स सनदत्ता स्टील एलाइज लिमिटेड
1185.	14843	मैसर्स युनिक एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1218.	15085	मैसर्स विनोद रिम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
1186.	14858	मैसर्स बी. आर. कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड	1219.	15089	मैसर्स सेनसन इण्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1187.	14871	मैसर्स योर्क ड्राग्स एण्ड कास्मेटिक्स लिमिटेड	1220.	15092	मैसर्स डायनामिक रीमिडीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1188.	14885	मैसर्स एलीगेन्ट मीडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1221.	15095	मैसर्स सेहगल फैन्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1189.	14888	मैसर्स गोल्ड लाईन डिस्ट्रीस एण्ड ब्रीवरीज़ प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
1222.	15101	मैसर्स ममता लैमिनेटर्स एण्ड कलर्स प्राईवेट लिमिटेड
1223.	15113	मैसर्स आर. एस. ग्रेवाल हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
1224.	15114	मैसर्स जिंदल पोलिट्रीज लिमिटेड
1225.	15122	मैसर्स स्टैण्डर्ड फार्मा चेम. प्राईवेट लिमिटेड
1226.	15128	मैसर्स आत्म कोन्स प्राईवेट लिमिटेड
1227.	15139	मैसर्स आइ होटल्स एण्ड रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1228.	15141	मैसर्स साराफिवा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
1229.	15144	मैसर्स आल्टेक कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1230.	15167	मैसर्स पी. जी. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1231.	15179	मैसर्स एक्मे किचनमेट एप्लीएन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
1232.	15180	मैसर्स लासो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1233.	15189	मैसर्स सिल्वर एपेरल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1234.	15195	मैसर्स अन्नपूर्णा एल. पी. जी. बोटीलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1235.	15205	मैसर्स अरोरा फरनेस लिमिटेड
1236.	15220	मैसर्स आरुज इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1237.	15228	मैसर्स परम टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1238.	15237	मैसर्स पर्ल कैटर्स एण्ड आयल्स प्राईवेट लिमिटेड
1239.	15258	मैसर्स कैसर हास्पिटल लिमिटेड
1240.	15263	मैसर्स यति एलॉइज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1241.	15276	मैसर्स जायसवाल ऑटो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1242.	15296	मैसर्स मनकू मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1243.	15303	मैसर्स पंजाब फार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
1244.	15304	मैसर्स मनसाहिआ एण्ड मनसिहा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1245.	15306	मैसर्स ए.डी.ए. पाइप्स फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1246.	15315	मैसर्स जागरत साल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1247.	15332	मैसर्स सीरा एक्सपोर्ट्स एण्ड टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
1248.	15333	मैसर्स सतगुरु प्रोसैसर्स प्राईवेट लिमिटेड
1249.	15338	मैसर्स बैस्टवे इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
1250.	15342	मैसर्स सत्यहन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1251.	15349	मैसर्स तान्तालम काम्युनिकेशन्स लिमिटेड
1252.	15359	मैसर्स पी. सी. इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1253.	15373	मैसर्स इमीमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1254.	15374	मैसर्स ब्राह्म लैबोर्ट्रीज लिमिटेड
1255.	15382	मैसर्स साब्बिलैण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1256.	15383	मैसर्स मोनल लैण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1257.	15384	मैसर्स रहमत बिल्डिंग्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1258.	15386	मैसर्स जोश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1259.	15398	मैसर्स गुरुबक्श स्पीनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1260.	15404	मैसर्स रीटेट होल्डिंग्स विलेज प्राईवेट लिमिटेड
1261.	15405	मैसर्स क्लासिक निटफैब प्राईवेट लिमिटेड
1262.	15407	मैसर्स प्रसाद हरबो मिनरल इण्डिया लिमिटेड
1263.	15409	मैसर्स खुराना ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
1264.	15411	मैसर्स जी. डी. ड्रेसेस प्राईवेट लिमिटेड
1265.	15416	मैसर्स नानकसर ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
1266.	15420	मैसर्स अमृतसर इनडायरेक्ट टैक्सेशन कन्सलटेशन प्राईवेट लिमिटेड
1267.	15425	मैसर्स प्रवीण निटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1268.	15429	मैसर्स श्रीश्री रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
1269.	15433	मैसर्स सनरोज ग्लोबल लिमिटेड
1270.	15434	मैसर्स आरबिट फाइन कैम प्राईवेट लिमिटेड
1271.	15448	मैसर्स जैनसन्स सोटस एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1272.	15458	मैसर्स पेसिफिक एडवर्टाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
1273.	15459	मैसर्स असीम प्रोजेक्ट्स एण्ड मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1274.	15460	मैसर्स कनसेप्ट कोच इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1275.	15464	मैसर्स सूरज पोल्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1276.	15465	मैसर्स सिन्धु हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड
1277.	15473	मैसर्स शिवा ग्राउन्ड वाटर पॉयनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1278.	15485	मैसर्स मैडीपोडेंट फार्मा. प्राईवेट लिमिटेड
1279.	15486	मैसर्स ब्रोडवे पैकेज प्राईवेट लिमिटेड
1280.	15493	मैसर्स एस. पी. एंड एक्सप्रेसन्स प्राईवेट लिमिटेड
1281.	15502	मैसर्स चक्कर निट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1282.	15504	मैसर्स बनावक कैमिकल्स एण्ड पैकेजिंग लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1283.	15515	मैसर्स एकता एप्लायसेंस प्राईवेट लिमिटेड	1314.	15741	मैसर्स लाईफट्री कन्वरजेंस लिमिटेड
1284.	15519	मैसर्स सनलाईन हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड	1315.	15760	मैसर्स जी. सी. अलॉयज प्राईवेट लिमिटेड
1285.	15520	मैसर्स भागरा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1316.	15775	मैसर्स वैन इंडटेल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1286.	15528	मैसर्स बेदी आटोमोबाईल्स लिमिटेड	1317.	15777	मैसर्स समीत पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
1287.	15547	मैसर्स श्री भिवानी काटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1318.	15792	मैसर्स एलपाइन पेपरज प्राईवेट लिमिटेड
1288.	15552	मैसर्स पाली शूज प्राईवेट लिमिटेड	1319.	15795	मैसर्स गोगो ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
1289.	15555	मैसर्स अल्ट्रा वीज़न डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	1320.	15806	मैसर्स असीम कॉर्टस्पिन प्राईवेट लिमिटेड
1290.	15559	मैसर्स एच. वी. एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1321.	15813	मैसर्स माता नैना देवी स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1291.	15572	मैसर्स गणपति कोटेक्स लिमिटेड	1322.	15821	मैसर्स जिन्दल कम्पलैक्स लिमिटेड
1292.	15575	मैसर्स पी. एस. काटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1323.	15825	मैसर्स हैपसन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1293.	15580	मैसर्स पंजाब माइक्रो प्लैनेट प्राईवेट लिमिटेड	1324.	15828	मैसर्स एच. एस. आनन्द कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1294.	15588	मैसर्स एच. एन. जी. कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1325.	15830	मैसर्स जैना रेसाइन्स एण्ड एक्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1295.	15597	मैसर्स बाजवा राईस मिल्स लिमिटेड	1326.	15832	मैसर्स वीरेन कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1296.	15599	मैसर्स बैकसिप फार्मा. प्राईवेट लिमिटेड	1327.	15834	मैसर्स प्रकाश ब्रिक्वेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1297.	15609	मैसर्स सिम कन्टेनर प्राईवेट लिमिटेड	1328.	15843	मैसर्स मुखमेलपुर गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
1298.	15618	मैसर्स कारपोरेट कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1329.	15846	मैसर्स आर. के. वूलटैक्स लिमिटेड
1299.	15625	मैसर्स नई दिल्ली कोचेज एण्ड टूरज प्राईवेट लिमिटेड	1330.	15851	मैसर्स नरेश इन्फोसिस लिमिटेड
1300.	15631	मैसर्स स्वास्तिक आर्ट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड	1331.	15853	मैसर्स कैड डाईस एण्ड ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1301.	15635	मैसर्स कुलप्रताप फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	1332.	15855	मैसर्स भगवती कारबन एण्ड कैमटैक प्राईवेट लिमिटेड
1302.	15639	मैसर्स रेक्सल मशीन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1333.	15858	मैसर्स बी. आर. कोबर्स प्राईवेट लिमिटेड
1303.	15640	मैसर्स सैफायर सॉफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	1334.	15862	मैसर्स दशमेश टेलीकॉम सर्विसेज लिमिटेड
1304.	15641	मैसर्स दुरेजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	1335.	15863	मैसर्स पंजाब ऑटो स्टोरज प्राईवेट लिमिटेड
1305.	15650	मैसर्स सरस्वती प्रोसेसज प्राईवेट लिमिटेड	1336.	15866	मैसर्स संगेरा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
1306.	15662	मैसर्स ट्राईकोन आटोमेट प्राईवेट लिमिटेड	1337.	15872	मैसर्स इन्फोनेट इलैटैक लिमिटेड
1307.	15666	मैसर्स राजा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	1338.	15873	मैसर्स जैट रिकार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
1308.	15672	मैसर्स स्वास्तिक प्रोटीनस प्राईवेट लिमिटेड	1339.	15887	मैसर्स फियोज जनरल होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
1309.	15678	मैसर्स ए. वी. आर. टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	1340.	15891	मैसर्स वाईट हैवन टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1310.	15720	मैसर्स शक्तिमान एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड	1341.	15894	मैसर्स मनधीर टायरज सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
1311.	15723	मैसर्स पनवॉयर ट्रैकिंग सर्विसेज लिमिटेड	1342.	15899	मैसर्स भोम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
1312.	15724	मैसर्स पनवॉयर इलैक्ट्रानिक्स कामर्स एण्ड इंटरनेट लिमिटेड	1343.	15919	मैसर्स सकनेल एज टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1313.	15730	मैसर्स ज्ञान रिसोर्ट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1344.	15921	मैसर्स सांता क्लॉस एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
			1345.	15925	मैसर्स संत ईस्टेट एंड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1346.	15939	मैसर्स मॉडल मेडीकोज़ प्राईवेट लिमिटेड	1377.	16101	मैसर्स आर. ए. अलायज़ प्राईवेट लिमिटेड
1347.	15941	मैसर्स सुरेश फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1378.	16102	मैसर्स स्वापी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1348.	15954	मैसर्स साहनी स्टील एण्ड फोरजिंग प्राईवेट लिमिटेड	1379.	16113	मैसर्स टी. आर. पेपर मिल्स लिमिटेड
1349.	15955	मैसर्स जावन्दा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1380.	16121	मैसर्स जी. एण्ड ए. गारमेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1350.	15958	मैसर्स लिबर्टी एगो एण्ड मिल्क फूड्स लिमिटेड	1381.	16200	मैसर्स पुजानी फोरेस्ट्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1351.	15969	मैसर्स अमरजीत इंडस्ट्रियल इंफोरमेशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	1382.	16205	मैसर्स सेलफोर्ट गारमेट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1352.	15979	मैसर्स अन्दीप एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1383.	16208	मैसर्स पीजे ऑटो ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड
1353.	15986	मैसर्स पेस एप्रेलस लिमिटेड	1384.	16224	मैसर्स राज टैकनो कलर्स लिमिटेड
1354.	15988	मैसर्स अनमोल वेदस प्राईवेट लिमिटेड	1385.	16226	मैसर्स लुधियाना टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
1355.	15992	मैसर्स इन्द्र सिंह एण्ड सन्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	1386.	16241	मैसर्स कुलवंत निटवियर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1356.	15993	मैसर्स कैडी फन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1387.	16249	मैसर्स यूनिटेक कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1357.	15996	मैसर्स अनन्तवीर कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1388.	16252	मैसर्स यूनिवर्सल फैशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
1358.	16014	मैसर्स लास्को गियर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड	1389.	16257	मैसर्स सन सिटी बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1359.	16027	मैसर्स जुयस ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	1390.	16258	मैसर्स पाहवा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1360.	16038	मैसर्स जी. बी. कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1391.	16260	मैसर्स सचदेवा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1361.	16050	मैसर्स एम. एच. एस. कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1392.	16269	मैसर्स जी. टैक्स फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1362.	16058	मैसर्स पारवती कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	1393.	16282	मैसर्स नानक इन्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1363.	16059	मैसर्स कन्सैट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कन्सल्टैंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1394.	16285	मैसर्स सुमीत कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1364.	16061	मैसर्स पाल पावर कन्ट्रोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1395.	16292	मैसर्स हरे कृष्ण कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
1365.	16063	मैसर्स ग्रावर ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	1396.	16298	मैसर्स एलपाईन फ्लोरीटेक लिमिटेड
1366.	16067	मैसर्स ग्रे वेल फूड्स लिमिटेड	1397.	16304	मैसर्स सी. आर. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1367.	16072	मैसर्स टी. जे. डब्लेपज़ एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	1398.	16308	मैसर्स रतन कलाथ हाउस प्राईवेट लिमिटेड
1368.	16078	मैसर्स जय माता इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1399.	16314	मैसर्स दृष्टि हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1369.	16082	मैसर्स कॉमटून इंटरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड	1400.	16325	मैसर्स परमोद बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1370.	16086	मैसर्स परतीक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	1401.	16326	मैसर्स पुष्पांजलि सिक्वोरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
1371.	16090	मैसर्स गोल्डन कॉन्सुमिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	1402.	16339	मैसर्स अतीत कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1372.	16091	मैसर्स गोल्डन हैण्डलूम लिमिटेड	1403.	16362	मैसर्स सिंधु कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
1373.	16093	मैसर्स गोल्डन डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड	1404.	16378	मैसर्स ए. एम. वी. पोलिमेज प्राईवेट लिमिटेड
1374.	16094	मैसर्स गोल्डन कॉन्ट्रेक्टर्ज़ लिमिटेड	1405.	16381	मैसर्स लक्ष्मी फास्टनर्स लिमिटेड
1375.	16095	मैसर्स गोल्डन निटफेब लिमिटेड	1406.	16383	मैसर्स फैमिली नेस्ट फैशन फेयर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1376.	16098	मैसर्स गोल्डन आशियाना मेकर्स लिमिटेड	1407.	16386	मैसर्स सरदार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
			1408.	16391	मैसर्स दीपिका एलायज़ प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1409.	16392	मैसर्स दहले स्टील्ज प्राईवेट लिमिटेड
1410.	16396	मैसर्स निर्माण स्टील प्राईवेट लिमिटेड
1411.	16410	मैसर्स भारद्वाज सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1412.	16412	मैसर्स सरस्वती रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1413.	16415	मैसर्स पारस हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड
1414.	16419	मैसर्स अमरजीत पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1415.	16427	मैसर्स लुधियाना सिटी चैनल प्राईवेट लिमिटेड
1416.	16429	मैसर्स आशीर्वाद डायगनोस्टिक एण्ड क्योर सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
1417.	16430	मैसर्स प्रेमा नित फैब प्राईवेट लिमिटेड
1418.	16438	मैसर्स मनजीत ऑटोज प्राईवेट लिमिटेड
1419.	16447	मैसर्स फ्रैंड्स वायर्स एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1420.	16457	मैसर्स नार्दन बाइक्स प्राईवेट लिमिटेड
1421.	16460	मैसर्स प्रैटी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1422.	16462	मैसर्स कमला देजू इम्पैक्स लिमिटेड
1423.	16477	मैसर्स सतगुरु ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
1424.	16481	मैसर्स के. के. फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
1425.	16492	मैसर्स मालवा इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
1426.	16498	मैसर्स बायो वीज़न लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1427.	16515	मैसर्स ट्रांस इंडिया कार्गो एण्ड कूरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1428.	16517	मैसर्स पंगली सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1429.	16526	मैसर्स सिंगला फ्यूल कं. प्राईवेट लिमिटेड
1430.	16529	मैसर्स आई. एस. आई. आर. कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1431.	16530	मैसर्स इरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1432.	16531	मैसर्स गोल्डन हेल्थ केयर लिमिटेड
1433.	16533	मैसर्स ईसा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1434.	16546	मैसर्स सिरोवाल टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1435.	16547	मैसर्स रेसन रिसोर्ट्स लिमिटेड
1436.	16548	मैसर्स यू. एन. आई. गैसिस प्राईवेट लिमिटेड
1437.	16554	मैसर्स बिमको गैसिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
1438.	16579	मैसर्स आर. एस. ट्यूबवैल एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1439.	16581	मैसर्स जे सन सिमेन्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1440.	16582	मैसर्स एफ. सी. आर. डी. कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1441.	16592	मैसर्स जौली ज्यूलर्स प्राईवेट लिमिटेड
1442.	16593	मैसर्स श्री विक्रम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1443.	16596	मैसर्स एस्टोम कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1444.	16600	मैसर्स अमृत एन्वायरनमेंटल टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
1445.	19349	मैसर्स बी. केयर हेल्थ सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
1446.	29152	मैसर्स ट्रेको कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

के. सी. मीना

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

पंजाब, हिमाचल एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित  
कम्पनियों के विषय में:--

अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./केएचएम/यु.एस./560/06/20077--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इस नोटिस की प्रकाशन की तारीख से रजिस्टर से रद्द किया जाता है और ये कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	04-34142	मैसर्स ज्युपिटर इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	04-17691	मैसर्स मार्फिन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	04-24970	मैसर्स सविता गोविंद फायनेंस लिमिटेड
4.	04-35561	मैसर्स कटारिया फायनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	04-24681	मैसर्स एस. डी. जे. सिक्वुरीटीज लिमिटेड
6.	04-24883	मैसर्स सुदर्शन फेड्स एण्ड प्रोटीन एक्सपोर्ट लिमिटेड
7.	04-24897	मैसर्स आकाश शेल्टर एण्ड फाइनस्टोक लिमिटेड
8.	04-24898	मैसर्स ग्रीन सोसियल प्रोजेक्ट्स फाइनस्टोक लिमिटेड
9.	04-24940	मैसर्स ओसवाल गृह निर्माण लिमिटेड



1	2	3
10.	04-24290	मैसर्स पी. एच. ए. लीज एण्ड फायनेंस (आई) लिमिटेड
11.	04-24919	मैसर्स कच्च हाउसींग एण्ड जनरल फायनेन्स लिमिटेड
12.	04-24918	मैसर्स क्रिश्येनडो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
13.	04-24914	मैसर्स बी. कुमार ओवरसीज लिमिटेड
14.	04-24855	मैसर्स पीकोक पेन्ट्स एण्ड कलरकेम लिमिटेड
15.	04-24911	मैसर्स चारभुजा इम्पेक्स लिमिटेड
16.	04-24909	मैसर्स केन गोल्ड हाप्रो फूड्स लिमिटेड
17.	04-24906	मैसर्स रोलटेक मेटल्स एण्ड स्टील लिमिटेड
18.	04-24903	मैसर्स पासिम फायनेन्स लिमिटेड
19.	04-24913	मैसर्स मेटल लीजिंग एण्ड फायनेन्स लिमिटेड
20.	04-24954	मैसर्स हितवर्धक कोटन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
21.	04-24873	मैसर्स सनकला लीज फायनेन्स लिमिटेड
22.	04-24968	मैसर्स मिलकोरीष डेरी लिमिटेड
23.	04-24848	मैसर्स महापावर लिमिटेड
24.	04-24862	मैसर्स एसेन्टल एग्रो डेरी फार्म लिमिटेड
25.	04-37011	मैसर्स केम्प एवीशन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
26.	04-42180	मैसर्स मेगासिस इन्फोनेट प्राईवेट लिमिटेड
27.	04-36545	मैसर्स त्रिलोजिक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	04-46899	मैसर्स ल्यूस्ट्रीम टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
29.	04-24896	मैसर्स क्युर स्पेड्स लेजर लिमिटेड
30.	04-24893	मैसर्स हिलमेन्स एग्रो (इंडिया) लिमिटेड
31.	04-24890	मैसर्स अमीपचा हाउसिंग एण्ड फायनेन्स लिमिटेड
32.	04-24887	मैसर्स शीतल स्पेशियलिटीस लिमिटेड
33.	04-24886	मैसर्स आलिसान फूड्स एबन फायनेन्स लिमिटेड
34.	04-24885	मैसर्स मेगा मेटाकेम लिमिटेड
35.	04-24868	मैसर्स मास टेलि-फिल्म्स लिमिटेड
36.	04-24839	मैसर्स कलाश्री कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
37.	04-24837	मैसर्स पी. एन. ट्रेडिंग एण्ड कोन्ट्रैक्टिंग कम्पनी लिमिटेड
38.	04-24836	मैसर्स पी. एन. फिनस्टोक लिमिटेड
39.	04-24835	मैसर्स एडवान्स सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स इंडिया लिमिटेड
40.	04-24831	मैसर्स भावना सिक्युरिटीज लिमिटेड

1	2	3
41.	04-24822	मैसर्स वालेर फिलामेनप्रूफ एक्विपमेंट्स लिमिटेड
42.	04-24820	मैसर्स पार्च सिक्युरिटीज लिमिटेड
43.	04-24814	मैसर्स कास्ट-वेस्ट फिनस्टोक लिमिटेड
44.	04-24811	मैसर्स रोनक इन्फीन एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड
45.	04-24801	मैसर्स झिलमिल फायनेन्स लिमिटेड
46.	04-24794	मैसर्स जेनबर्क गेसिस लिमिटेड
47.	04-24771	मैसर्स गोकुल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
48.	04-24762	मैसर्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड
49.	04-24773	मैसर्स पारेख एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड
50.	04-24993	मैसर्स राइड्स फिनस्टोक लिमिटेड
51.	04-24023	मैसर्स अविनाश इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
52.	04-25038	मैसर्स सिद्धार्थ सिक्युरिटीज (इंडिया) लिमिटेड
53.	04-25032	मैसर्स मोनार्क हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड
54.	04-25059	मैसर्स आल्फा फायनेन्स लिमिटेड
55.	04-25070	मैसर्स ग्रेस डाय-केम इम्पेक्स लिमिटेड
56.	04-25071	मैसर्स राजसहयोग फायनेन्स लिमिटेड
57.	04-25075	मैसर्स जी. डी. आर. सिक्युरिटीज लिमिटेड
58.	04-01610	मैसर्स विवित्सु इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
59.	04-25226	मैसर्स वर्धमान केपिटल एण्ड फायनेन्सियल सर्विसिज लिमिटेड
60.	04-25119	मैसर्स अनाकार्ट एग्रोकेम लिमिटेड
61.	04-25096	मैसर्स अरकडिया एग्रोकेम लिमिटेड
62.	04-25138	मैसर्स इमरजिंग मार्केट्स स्टोक ब्रोकिंग लिमिटेड
63.	04-25142	मैसर्स सनाइल पेकेजिंग (इंडिया) लिमिटेड
64.	04-25139	मैसर्स राजतिलक मेटल्स लिमिटेड
65.	04-25123	मैसर्स रेड्बो कम्प्यूटर्स लिमिटेड
66.	04-25206	मैसर्स जोईसर एस्टेट एण्ड सिक्युरिटीज लिमिटेड
67.	04-25034	मैसर्स मोनार्क एग्रो ओवरसिस लिमिटेड
68.	04-24992	मैसर्स तुलसी फूड्स लिमिटेड
69.	04-18909	मैसर्स एकता फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
70.	04-32526	मैसर्स अरूण डायस्टफ प्राईवेट लिमिटेड
71.	04-27621	मैसर्स स्वेता फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड
72.	04-32527	मैसर्स अल्पेश मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	04-2970	मैसर्स दत्ता केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	04-33245	मैसर्स गोपाल वेल्लिंग केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	04-33289	मैसर्स सफल मार्केटिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
76.	04-24480	मैसर्स ताज जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड
77.	04-23495	मैसर्स मेट्रोकेम सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
78.	04-36663	मैसर्स ब्राइट स्टोक होलिंग एण्ड सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री हरी ओम ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./34374/एस.टी.ए./560/99-200/1960--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री हरी ओम ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस.आर. दारा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लीला लेवोरेटरीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./28106/एस.टी.ए./560/99-200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स लीला लेवोरेटरीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस.आर. दारा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपक नेरो फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./6853/एस.टी.ए./560/99-200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स दीपक नेरो फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस.आर. दारा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बोनान्झा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./6722/एस.टी.ए./560/99-200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स बोनान्झा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस.आर. दारा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. वी. कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./34529/एस.टी.ए./560/99-200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एम. वी. कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस.आर. दारा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 17 मई 2007

सं. आर.ओ.सी./पटना/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	निबंधन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	03-2986	मैसर्स एस. एम. केमिकल्स एण्ड फीड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	03-2973	मैसर्स चैल्यसेवा सदन प्राईवेट लिमिटेड
3.	03-2947	मैसर्स लोक भावना प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
4.	03-2946	मैसर्स निशांत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	03-2945	मैसर्स वायर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
6.	03-2839	मैसर्स दी वर्कमेन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	03-2776	मैसर्स रिलको फर्म प्राईवेट लिमिटेड
8.	03-2740	मैसर्स कामधेनु बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	03-2739	मैसर्स लैडर एण्ड फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
10.	03-2737	मैसर्स चैतसन डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
11.	03-2734	मैसर्स पतरातु स्टील प्राईवेट लिमिटेड
12.	03-2726	मैसर्स हैपी होम फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	03-2727	मैसर्स बलौन फेल्ड (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	03-2813	मैसर्स परमार फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	03-2800	मैसर्स फलोरा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	03-2819	मैसर्स इस्टर्न इंडिया ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
17.	03-2840	मैसर्स राजधानी बुड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	03-2854	मैसर्स होटल लिच्छवी प्राईवेट लिमिटेड
19.	03-2856	मैसर्स अलका इंडस्ट्रीज ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	03-2862	मैसर्स नील फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	03-2891	मैसर्स रामावतार नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
22.	03-2894	मैसर्स इलेक्ट्रोड इस्टर्न प्राईवेट लिमिटेड
23.	03-2466	मैसर्स औरबीट फूड प्राईवेट लिमिटेड
24.	03-2401	मैसर्स तिरुपति एग्रो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	03-2406	मैसर्स एस. के. कास्टींग्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	03-2408	मैसर्स रामकृष्णा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	03-2430	मैसर्स ज्ञानरूपम एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	03-2438	मैसर्स यूनाइटेड पौलीमैक्स (हिन्दुस्तान) लिमिटेड

1	2	3
29.	03-2446	मैसर्स डोरसी फर्मस्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	03-2646	मैसर्स दी त्रिवेनी प्रोपर्टीज एण्ड इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
31.	03-2662	मैसर्स इस्टर्न मेडी क्लीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	03-2697	मैसर्स एक्सीम ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	03-2940	मैसर्स ओम शांति फ्लावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	03-2961	मैसर्स इबरी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	03-2952	मैसर्स एस. डी. एम. कंस्ट्रक्शन्स एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	03-2852	मैसर्स प्रातीक कास्टींग प्राईवेट लिमिटेड
37.	03-2851	मैसर्स रांची मोनोफिलामेंट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
38.	03-2841	मैसर्स वैष्णवी माता फ्लावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	03-2830	मैसर्स के. एम. ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
40.	03-2742	मैसर्स मनी सिंह कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
41.	03-2991	मैसर्स प्रेम तारा नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
42.	03-2974	मैसर्स गोलडन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	03-2966	मैसर्स सारस्वत वायर निटिंग प्राईवेट लिमिटेड
44.	03-2955	मैसर्स श्री राम रेक्सीन क्लॉथ मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
45.	03-2440	मैसर्स हिप्पोक्रेट फर्मा प्राईवेट लिमिटेड
46.	03-2953	मैसर्स रणवीर कंस्ट्रक्शन्स एण्ड कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
47.	03-2411	मैसर्स प्रोलेट कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
48.	03-2962	मैसर्स वजीर ग्रुप कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
49.	03-2944	मैसर्स एनकॉन प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	03-2932	मैसर्स सरस्वती कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
51.	03-2938	मैसर्स कामधेनु मेकानिड ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	03-2997	मैसर्स के. पी. व्हीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	03-2972	मैसर्स प्रसाद एण्ड सिंह कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	03-2959	मैसर्स राज चिकित्सा प्राईवेट लिमिटेड
55.	03-2948	मैसर्स चौहान ब्रदर्स सिल्क टेक्सटाइल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
56.	03-2943	मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
57.	03-10034	मैसर्स धनश्री कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
58.	03-10022	मैसर्स कामेश कान्हेकर प्राईवेट लिमिटेड
59.	03-10021	मैसर्स ड्रीम केयर नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
60.	03-9847	मैसर्स गंगा कानसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
61.	03-9174	मैसर्स अमृत फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	03-9193	मैसर्स मां तारा आवासन प्राईवेट लिमिटेड
63.	03-9171	मैसर्स समर इन्फोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
64.	03-9965	मैसर्स गाइडेंस प्वाइंट एजुकेशन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
65.	03-9131	मैसर्स सर्वोत्तम कैटल फीड प्राईवेट लिमिटेड
66.	03-2811	मैसर्स होटल राजकिरण प्राईवेट लिमिटेड
67.	03-2818	मैसर्स ए. सी. पी. सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
68.	03-2814	मैसर्स एस. डी. वायर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
69.	03-2821	मैसर्स मेकट्रस्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
70.	03-2827	मैसर्स होटल जयदेव प्राईवेट लिमिटेड
71.	03-2835	मैसर्स डाय बेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	03-2859	मैसर्स शाहू केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
73.	03-2863	मैसर्स मैपल लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	03-9854	मैसर्स नाइस क्यूमर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
75.	03-9103	मैसर्स भगवती होटल प्राईवेट लिमिटेड
76.	03-10091	मैसर्स भारती डिजिटल इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
77.	03-9434	मैसर्स अनिकेत नंदन फूड प्राईवेट लिमिटेड
78.	03-9709	मैसर्स बेल्सन्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	03-9263	मैसर्स मां जया रौलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	03-9354	मैसर्स जनजाति टेक्नीकल इंस्टीच्यूट प्राईवेट लिमिटेड
81.	03-9190	मैसर्स बलू ट्रैंगल फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड
82.	03-9373	मैसर्स मारुतिनंदन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	03-3040	मैसर्स विक्रमशीला सिल्कोटेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
84.	03-3993	मैसर्स प्रणव कंस्ट्रक्शन्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	03-3493	मैसर्स टकासी फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	03-3625	मैसर्स तुषार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	03-0584	मैसर्स जनता मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
88.	03-3498	मैसर्स श्री ईश्वर चंद्रा ओझा नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
89.	03-5707	मैसर्स सैनडिक्स मार्केटिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	03-0028	मैसर्स ठाकुरगंज राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	03-3023	मैसर्स रांची फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	03-5426	मैसर्स सुप्रिया रि-रौलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	03-9414	मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	03-9119	मैसर्स मधेशिया एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
95.	03-9416	मैसर्स सतनाम एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
96.	03-9917	मैसर्स बिहार क्यूसट नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
97.	03-9814	मैसर्स लिच्छवी मिडिया कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
98.	03-9156	मैसर्स साई राम डेवलपर्स लिमिटेड
99.	03-9301	मैसर्स राइट स्टेप सिक्कुरीटिज एण्ड इंटेलिजेंस प्राईवेट लिमिटेड
100.	03-9712	मैसर्स टेक्नोमार्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	03-9847	मैसर्स कम्प्यूटर डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
102.	03-2269	मैसर्स ज्ञानकीरी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	03-2367	मैसर्स झांझरी सिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	03-2316	मैसर्स झांझरी ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड

के. प्रसाद  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स की डायमंड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-1016/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स की डायमंड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सेंदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टटो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-1316/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स टटो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सैदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शीरीया इंडस्ट्रीयल एण्ड लेबोरेटरी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-2653/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स शीरीया इंडस्ट्रीयल एण्ड लेबोरेटरी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सैदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ताजमहल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-472/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स ताजमहल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सैदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ड्रीम फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-2534/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स ड्रीम फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सैदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सोटीक गेम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 4 मई 2007

सं. 24-2637/गोवा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स एक्सोटीक गेम्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. सैदाणे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 18 अप्रैल 2007

सं. एस एम 560(3)एस एम/आर ओ सी/एरनाकुलम/5129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी:--

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2148	मैसर्स आर्या आर्युर्वेदिक फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
2.	2174	मैसर्स स्वीफ्ट मार्केटिज प्राईवेट लिमिटेड
3.	2175	मैसर्स कोयलान कौशयू प्रोसेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
4.	2185	मैसर्स पुत्रानी लोन्स एण्ड कुरीज प्राईवेट लिमिटेड	33.	2593	मैसर्स कोयलोन इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज एण्ड एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
5.	2186	मैसर्स एरनाकुलम ऑटोमोबाइलज प्राईवेट लिमिटेड	34.	2653	मैसर्स बिज बरियम कम्पाउंड्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	2213	मैसर्स कोटाचेरी चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	35.	2700	मैसर्स केयरडो कम्बाईस प्राईवेट लिमिटेड
7.	2228	मैसर्स ट्रिस्ट इन्टरप्राइसिस आलवे प्राईवेट लिमिटेड	36.	2713	मैसर्स प्रशांत प्रिंटेर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	2237	मैसर्स कजूर चिटिज प्राईवेट लिमिटेड	37.	2770	मैसर्स ईस्टर्न पिलग्रिमीज प्राईवेट लिमिटेड
9.	2252	मैसर्स पेनिनसुलर फार्मज एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	38.	2783	मैसर्स कोचिन सिंथेटिक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	2277	मैसर्स तुरुतीपुरम चिटिज एण्ड इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	39.	2787	मैसर्स ऑटो कम्पोनेन्ट एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	2282	मैसर्स एरमेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	40.	2792	मैसर्स कूलटेक प्राईवेट लिमिटेड
12.	2296	मैसर्स जयाबद्रा कैश्यू इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	41.	2794	मैसर्स फामस्कीब सोलवेचस प्राईवेट लिमिटेड
13.	2318	मैसर्स ज्योति ट्रेड्स एण्ड एजेंसिज प्राईवेट लिमिटेड	42.	2810	मैसर्स बिल्टिंग कम्पोनेन्ट्स एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	2345	मैसर्स प्रसाद फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड	43.	2811	मैसर्स जनक्षेमम प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	2365	मैसर्स तैकूडन सी फूड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	44.	2817	मैसर्स ब्रो सिस इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	2366	मैसर्स एकेडमिक प्रैस प्राईवेट लिमिटेड	45.	2839	मैसर्स मडोना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	2379	मैसर्स केरला सी वीयर ब्रिवरिज प्राईवेट लिमिटेड	46.	2847	मैसर्स यूनिवर्सल गारमेंट प्राईवेट लिमिटेड
18.	2385	मैसर्स रश्मी चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	2849	मैसर्स दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा प्रिंटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	2395	मैसर्स उमा रोडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	48.	2854	मैसर्स इंडस्ट्रीयल लाइम एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	2400	मैसर्स दरराग स्मेयिल एण्ड कम्पनी केरला प्राईवेट लिमिटेड	49.	2858	मैसर्स अयप्पा स्वामी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	2401	मैसर्स नरेश चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	2883	मैसर्स पट्टम तारा होटल प्राईवेट लिमिटेड
22.	2422	मैसर्स तेजस कुरीज एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	2886	मैसर्स टिनकारा ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	2426	मैसर्स सेंट जोसफ प्रेस एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	52.	2889	मैसर्स कोचिन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	2463	मैसर्स दीप्ती प्रिंटेर्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	2896	मैसर्स त्रिवेन्द्रम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	2486	मैसर्स ब्लू बेल बैनरी प्राईवेट लिमिटेड	54.	2898	मैसर्स जेलट्रोज प्राईवेट लिमिटेड
26.	2511	मैसर्स कोरोमण्डल पेपर क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	55.	2911	मैसर्स सेंट विसेंट इंडस्ट्रीज एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
27.	2542	मैसर्स वेस्ट नट इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	56.	13341	मैसर्स नोवा स्कोटीया पोलिमेर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	2549	मैसर्स पाराकोटिल स्टॉर्च प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	14335	मैसर्स इनरिच फट्टीलाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	2555	मैसर्स कैरली न्यूजपेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	2915	मैसर्स साउथरन इंजीनियरिंग एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
30.	2574	मैसर्स साउथ वेस्टर्न केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	2922	मैसर्स आरकोट इन्वेस्टमेंट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
31.	2583	मैसर्स श्री वेंकटेश रबर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड			
32.	2584	मैसर्स ग्रबज इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
60.	2976	मैसर्स फायर मैक सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	2978	मैसर्स पल्लवा वेसज प्राईवेट लिमिटेड
62.	2984	मैसर्स केरला यूनाइटेड कारबाइड प्राईवेट लिमिटेड
63.	2985	मैसर्स कर्नाटका सिरामिक प्राईवेट लिमिटेड
64.	2995	मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्राईवेट लिमिटेड
65.	3002	मैसर्स स्पीडवे शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
66.	3004	मैसर्स बिल्डर्स एण्ड कर्मिशियल ट्रेवल एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
67.	3015	मैसर्स सीटोन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	3038	मैसर्स सुरेन्द्रा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	3063	मैसर्स यूनिवर्सल निट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
70.	3073	मैसर्स समरंभा चित्रा प्राईवेट लिमिटेड
71.	3088	मैसर्स यूनिवर्सल इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	3102	मैसर्स साडा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
73.	3105	मैसर्स फैंक्ट्री सिक्यूरिटी एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
74.	3173	मैसर्स वेबरोज केननिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	3181	मैसर्स कृष्णा केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	3193	मैसर्स वी. एस. टी. सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	3207	मैसर्स कोचिन ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
78.	3217	मैसर्स बम्बई इंडस्ट्रीयल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	3227	मैसर्स सैर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
80.	3242	मैसर्स समतृप्ति कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
81.	3243	मैसर्स लियो कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	3265	मैसर्स ऑटोमोटिव स्प्रिंग्स एण्ड कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	3279	मैसर्स न्यू बेनीफिट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	3288	मैसर्स विद्युत मीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	3289	मैसर्स मिनी सिनी इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
86.	3290	मैसर्स कलपका इंजीनियरिंग एण्ड ट्रांसपोर्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
87.	3294	मैसर्स मंगलूर प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	3309	मैसर्स प्लास्टेक पी वी सी केबल्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
89.	3336	मैसर्स सिलटेक सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	3371	मैसर्स गोमेज बोर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
91.	3372	मैसर्स पाम कोन प्राईवेट लिमिटेड
92.	3375	मैसर्स केरला पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड
93.	3389	मैसर्स फोनिक्स रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	3393	मैसर्स तुषार एजेंसीस एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	3405	मैसर्स दीपा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	3408	मैसर्स त्रिवेन्द्रम एक्सपोर्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
97.	3409	मैसर्स हाइवे इन प्राईवेट लिमिटेड
98.	3419	मैसर्स मलयायिल होटल प्राईवेट लिमिटेड
99.	3421	मैसर्स अभीवर्धी कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	3428	मैसर्स जनरल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	3431	मैसर्स मानवा प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
102.	3440	मैसर्स माला इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	3445	मैसर्स भावना कुरीज एण्ड ट्रेडर्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
104.	3446	मैसर्स ग्रामीण चिटिंग एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	3459	मैसर्स ग्रीन एकरज हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
106.	3486	मैसर्स गासो इंजीनियरिंग एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
107.	3490	मैसर्स त्रिचुर ओक्शनरिस एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	3499	मैसर्स इन्डो ट्रेड एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लत  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोपिया इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 16 मई 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एनाकुलम/560/2007/00021/5545---  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोपिया इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लत  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 16 मई 2007

सं. आर.के.सी./एस.ई.एस./560(5)/848--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-003207	मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाईट एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-003219	मैसर्स कुसुम एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-003223	मैसर्स डिजीसोफ्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-003230	मैसर्स शिवा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-003232	मैसर्स लार्ड इंजीनियरिंग एण्ड कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-003235	मैसर्स ब्राईटस्टार इंजीनियरिंग क्रास वेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-003236	मैसर्स जय प्रकाश हाउसिंग एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-003244	मैसर्स पी एण्ड पी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-003246	मैसर्स न्यू इंडिया म्यूजिकल एण्ड कैसेट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-003251	मैसर्स कलिंग टाइम्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-003258	मैसर्स ईस्टर्न इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-003262	मैसर्स उड़ीसा बिजनेस लिंकेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-003272	मैसर्स लिओपाड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-003274	मैसर्स कृष्णा स्टील प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-003285	मैसर्स होटल शक्ति प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-003292	मैसर्स मनीकान्ता फाईनैसियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-003295	मैसर्स यूनाइटेड प्रान हाचेरि प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-003303	मैसर्स श्रीराम प्लांटेशन एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-003307	मैसर्स पीटरबर्ग ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-003310	मैसर्स ईस्ट वेस्ट हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	15-003311	मैसर्स गणपति इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-003312	मैसर्स जेनिथ आकूया इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-003315	मैसर्स डेल्टा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-003318	मैसर्स सुप्रा सुपर फास्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-003322	मैसर्स नेसकोन कम्प्यूटिंग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-003325	मैसर्स प्रेसटिज स्माल इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-003334	मैसर्स मराठा बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-003335	मैसर्स मेग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-003336	मैसर्स उत्कल सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-003337	मैसर्स साइमन बिजनेस लिंक प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-003338	मैसर्स माधुरी विडियो पार्लर प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-003357	मैसर्स बाबा ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-003359	मैसर्स सिद्धीदाता हाइजिनीस प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-003372	मैसर्स कलपतरू प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-003374	मैसर्स ग्रेट इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-003375	मैसर्स कन्हैया सोप एण्ड ऑयल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	15-003376	मैसर्स मैत्री डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-003384	मैसर्स बायोटेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-003388	मैसर्स ए. बी. टी. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-003392	मैसर्स एम. एम. बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-003395	मैसर्स ट्रिसेन्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-003402	मैसर्स सृष्टि एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-003404	मैसर्स शिल्पा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	15-003405	मैसर्स एक्स-सर्विस कमर्शियल लिंक प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-003418	मैसर्स डी. पी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-003422	मैसर्स सूर्या सिक्युरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-003433	मैसर्स चौधरी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
48.	15-003436	मैसर्स हारमोनी अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-003440	मैसर्स राजधानी सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
50.	15-003441	मैसर्स देव मेकटेक प्राईवेट लिमिटेड
51.	15-003456	मैसर्स राज विडियो पार्लर प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
52.	15-003467	मैसर्स श्री खेत्र मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-003469	मैसर्स सिटी सिक्युरिटी सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-003470	मैसर्स नवलक्ष्मी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	15-003472	मैसर्स विरजा ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
56.	15-003475	मैसर्स कलिंगा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
57.	15-003479	मैसर्स एवरग्रीन प्लांटेशन एण्ड हाउसिंग फार्इनांस प्राईवेट लिमिटेड
58.	15-003484	मैसर्स इन्फोसिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
59.	15-003486	मैसर्स समलाई पावर प्राईवेट लिमिटेड
60.	15-003487	मैसर्स उडीसा कंज्यूमर सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
61.	15-003493	मैसर्स डिवाइन फार्इनांस एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
62.	15-003495	मैसर्स गलेक्सी सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
63.	15-003496	मैसर्स कलिंगा ग्रीन प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
64.	15-003507	मैसर्स ओरिन एनर्जी सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
65.	15-003523	मैसर्स उत्कल ग्रीन प्लांटेशन एण्ड हाउसिंग फार्इनेंस प्राईवेट लिमिटेड
66.	15-003527	मैसर्स विकोन सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
67.	16-003530	मैसर्स जय माता दी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
68.	15-003532	मैसर्स अशोक ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	15-003533	मैसर्स नवीन पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	15-003536	मैसर्स एकलव्य प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	15-003549	मैसर्स पीपीएम बिल्डर्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
72.	15-003551	मैसर्स ब्राह्मणी पिस्कीकल्चर प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
73.	15-003552	मैसर्स केयर फूड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
74.	15-003560	मैसर्स ग्रानी बुक प्राईवेट लिमिटेड
75.	15-003565	मैसर्स सिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
76.	15-003582	मैसर्स आलख मार्केटिंग एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
77.	15-003588	मैसर्स हाईटेक इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
78.	15-003590	मैसर्स एल. एम. फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	15-003596	मैसर्स विश्वकर्मा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
80.	15-003603	मैसर्स खारबेल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	15-003608	मैसर्स जे. बी. फेरो एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
82.	15-003617	मैसर्स डीपीएस राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	15-003619	मैसर्स ट्रेवल प्लस प्राईवेट लिमिटेड
84.	15-003621	मैसर्स सलभ बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	15-003626	मैसर्स काराम्बा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
86.	15-003638	मैसर्स ओरीजिन बायोसिड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
87.	15-003645	मैसर्स श्री जगन्नाथ जेम्स एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड
88.	15-003655	मैसर्स एमेस मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	15-003661	मैसर्स राइजिंग फार्इनांस एण्ड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
90.	15-003662	मैसर्स प्राइम कन्सलटेन्ट एण्ड सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
91.	15-003663	मैसर्स जेवीएस डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	15-003667	मैसर्स पुष्पहास प्लांटेशन्स एण्ड हिल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	15-003676	मैसर्स शुभश्री वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	15-003677	मैसर्स सनबे स्प्रिम्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	15-003692	मैसर्स लक्ष्मी प्रकाश स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	15-003693	मैसर्स ओसीलैंड बायो-डायगनोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	15-003698	मैसर्स वेंकट लक्ष्मी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	15-003699	मैसर्स भीजीत एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
99.	15-003702	मैसर्स समर्पन एक्ज्यूआ कल्चर प्राईवेट लिमिटेड
100.	15-003711	मैसर्स महावीर ड्रग्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
101.	15-003713	मैसर्स छोटानागपुर हरबल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
102.	15-003719	मैसर्स आयोरो सिक्युरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
103.	15-003724	मैसर्स कलिंगा कशयू प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	15-003729	मैसर्स साई हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	15-003730	मैसर्स हास्पिटैलिटी वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	15-003732	मैसर्स सुप्रीम वुड एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	15-003735	मैसर्स रॉयल आयरन एण्ड स्पोकस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
108.	15-003736	मैसर्स इन्दू इलैक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड
109.	15-003742	मैसर्स श्री जगन्नाथ ऑयल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
110.	15-003747	मैसर्स मिडिया पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	15-003748	मैसर्स एम. एस. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
112.	15-003750	मैसर्स निलाद्री बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	15-003753	मैसर्स सम्भव ट्रेडिंग एण्ड एक्वा कलचर प्राईवेट लिमिटेड
114.	15-3760	मैसर्स ललिता एलुमिनियम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
115.	15-003771	मैसर्स भरुण मैरिन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	15-003772	मैसर्स कृष्णा हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
117.	15-003779	मैसर्स पप्पू मनोज एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	15-003785	मैसर्स उड़ीसा ओर केलीब्रेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	15-003789	मैसर्स सार्थक एक्यूआटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	15-003794	मैसर्स फ्लाई आइस ब्रिक्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	15-003803	मैसर्स पर्यावरण प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
122.	15-003819	मैसर्स एम. एच. सी. मिनरल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	15-003829	मैसर्स पात्र एक्यूआ कलचर प्राईवेट लिमिटेड
124.	15-003832	मैसर्स मेटल ट्रीट्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	15-003833	मैसर्स सी एक्यूआफार्म प्राईवेट लिमिटेड
126.	15-003835	मैसर्स इन्फोटेक कलिंगा प्राईवेट लिमिटेड
127.	15-003844	मैसर्स ईस्टर्न स्टार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
128.	15-003848	मैसर्स साफिरा मल्टीपरपस एग्रीकलचरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड
129.	15-003849	मैसर्स सत्य कंस्ट्रक्शन्स एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
130.	15-003853	मैसर्स मेगासन्स मैच बुड प्राईवेट लिमिटेड
131.	15-003859	मैसर्स एक्यूआ-मेराइन्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	15-003862	मैसर्स गीता राइस इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
133.	15-003867	मैसर्स के. बी. पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	15-003875	मैसर्स बजरंग मेराइन्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	15-003877	मैसर्स गगन प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
136.	15-003887	मैसर्स मां भैरवी एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
137.	15-003931	मैसर्स नायक एण्ड नायक एलाइड एनर्जी सर्विसिस लिमिटेड
138.	15-003959	मैसर्स रासी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	15-003968	मैसर्स जी वी एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
140.	15-003969	मैसर्स नीलांचल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	15-003970	मैसर्स उमा महेश्वरी सिक्युरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
142.	15-003971	मैसर्स स्प्रिंगडल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	15-003976	मैसर्स सनराइस फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
144.	15-003980	मैसर्स महान्ति एण्ड महान्ति इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	15-003985	मैसर्स नेषस कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	15-003995	मैसर्स जेनेरक्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
147.	15-004000	मैसर्स रागी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	15-004006	मैसर्स पेटको इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	15-004007	मैसर्स काननमेट इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	15-004017	मैसर्स जे. जे. इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
151.	15-004028	मैसर्स ब्लैक टाइगर सिक्युरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
152.	15-004035	मैसर्स इन्डो-ग्लोबल एक्वाटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	15-004068	मैसर्स कार्तिक एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
154.	15-004069	मैसर्स श्री दुर्गा ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
155.	15-004077	मैसर्स इन्डीकॉम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	15-004078	मैसर्स गोल्डन ट्राइएंगल रीथल एस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	15-004080	मैसर्स श्री जगन्नाथ सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
158.	15-004088	मैसर्स यूनोटेक सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
159.	15-004089	मैसर्स आशीर्वाद इनवेस्टमेंट एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
160.	15-004094	मैसर्स जिरो इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	15-004097	मैसर्स होटल समुद्र सम्राट एण्ड टूरिजम प्राईवेट लिमिटेड
162.	15-004119	मैसर्स जोग कालिया सिक्युरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
163.	15-004120	मैसर्स ग्रीन स्कोप (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड
164.	15-004127	मैसर्स अरोमा कन्सलटेन्सी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
165.	15-004138	मैसर्स ईस्टर्न लेदर प्राईवेट लिमिटेड
166.	15-004144	मैसर्स रेनबो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
167. 15-004150	मैसर्स नागाबलि एगो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
168. 15-4160	मैसर्स ग्रीनी प्लांट्स एण्ड ऐनीमल्स प्राईवेट लिमिटेड	
169. 15-004162	मैसर्स लाइफ लाइन प्राईवेट लिमिटेड	
170. 15-004172	मैसर्स सुप्रा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	
171. 15-004176	मैसर्स श्री अम्बिका राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	
172. 15-004186	मैसर्स ओरीअन इंफोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
173. 15-004199	मैसर्स जैन धिरानी ओइन एण्ड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
174. 15-004222	मैसर्स स्टालियन टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	
175. 15-004236	मैसर्स उत्कल जिन्क ओक्साईड्स प्राईवेट लिमिटेड	
176. 15-004248	मैसर्स केनाफ सीड्स प्राईवेट लिमिटेड	
177. 15-004249	मैसर्स ऑफट्रीक ट्रेड एण्ड कामर्स इन्ट प्राईवेट लिमिटेड	
178. 15-004256	मैसर्स रिटेल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	
179. 15-004257	मैसर्स पारा सिक्युरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
180. 15-004262	मैसर्स निशा फाईनैसियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
181. 15-004268	मैसर्स अल्फा एयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
182. 15-004279	मैसर्स जोगकालिया लेवर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
183. 15-004281	मैसर्स सिम्पल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	
184. 15-004285	मैसर्स विक्रम रिफ्रेक्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड	
185. 15-004291	मैसर्स उड़ीसा लेमोनेटरस प्राईवेट लिमिटेड	
186. 15-004318	मैसर्स रत्नागिरी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	
187. 15-004321	मैसर्स मास कंस्ट्रक्शन्स एण्ड कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	
188. 15-004332	मैसर्स होटल ऐरोश्री इन्टरनेशनल लिमिटेड	
189. 15-004335	मैसर्स पदमिनी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	
190. 15-004344	मैसर्स दिनेश (इण्डिया) कंस्ट्रक्शन्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
191. 15-004353	मैसर्स रमि रंजन एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
192. 15-004356	मैसर्स आलमेच प्राईवेट लिमिटेड	
193. 15-004358	मैसर्स नीलांचल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	
194. 15-004359	मैसर्स श्री गोपाल कम्पौनेट्स प्राईवेट लिमिटेड	
195. 15-004366	मैसर्स गुप्ता इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	
196. 15-004368	मैसर्स छोटाराय एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	
197. 15-004379	मैसर्स मार्डन सिक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड	
198. 15-004381	मैसर्स एल. ए. मैनेजमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	
199. 15-004389	मैसर्स सिनटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	
200. 15-004394	मैसर्स ताज बिल्डर्स प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	
201. 15-004395	मैसर्स अराधना एस्टेट्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	
202. 15-004401	मैसर्स आशिष रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	
203. 15-004405	मैसर्स एमेन कंट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
204. 15-004424	मैसर्स एक्स-2000 टूर्स एण्ड ट्रेब्लस प्राईवेट लिमिटेड	
205. 15-004435	मैसर्स अनंत पोली प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	
206. 15-004436	मैसर्स जयसवाल पोलीपाइप्स प्राईवेट लिमिटेड	
207. 15-004472	मैसर्स कलिंगा सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
208. 15-004479	मैसर्स अग्रवाल रोड केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	
209. 15-004485	मैसर्स या लियासिओनिंग एण्ड मार्केटिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटे	
210. 15-004486	मैसर्स कोको फूड्स एण्ड वेबरेज प्राईवेट लिमिटेड	
211. 15-004487	मैसर्स कलिंग डेयरी लिमिटेड	
212. 15-004492	मैसर्स अल्फा इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	

वि. महान्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 16th May 2007

No. F. 20/2007-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Smt. Promila Sharma, Shri V. K. Nigam, Shri Vinod Kumar and Smt. Suman Mishra, Deputy Registrars as Officiating Joint Registrars with effect from 11th May, 2007.

ASHOK KUMAR  
Additional Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 23rd April 2007

No. A-19014/2/2007-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri S. B. Saroha, CSS (D. O. B. 04.06.1954), a Grade-I Officer of CSS in the Ministry of Environment and Forest to the Selection Grade (Dy. Secy.) of CSS on ad hoc basis in Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 4th April, 2007 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Dy. Secy.) of CSS;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DoP & Trg. Order No. 4/8/2006-CS. I dated 28th February, 2007 and Order No. 4/1/2006-CS. I dated 19th March, 2007.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 25th April 2007

No. A-19014/14/2001-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Rameshwar Dayal, CSS (D. O. B. 06.06.1951), a Grade-I Officer of CSS to the Selection Grade (Dy. Secy.) of CSS on ad hoc basis in Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 4th April, 2007 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Dy. Secy.) of CSS;

- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DoP & Trg. Order No. 4/2/2006-CS. I dated 4th April, 2007.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 11th May 2007

No. DP/Pers. 1/2007/101/3/26/2002.—Services of Shri Pravcen Vashista, IPS (BH : 1991), DIG, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Bihar with effect from the afternoon of 02.05.2007 on completion of deputation tenure at Centre.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

The 15th May 2007

No. DP/Pers. 1/2007/103/3/25/99.—Services of Shri M. A. Ganapathy, IPS (UC : 1986), DIG, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Uttaranchal with effect from the afternoon of 06.04.2007 on completion of deputation tenure at Centre.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 16th May 2007

No. 2/2/07-Admn./56549.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri M. A. Khan, Section Officer in the Commission as Under Secy. in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis with effect from 15.05.2007 (FN) for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

P. M. PILLAI  
Officer on Special Duty (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE  
ACADEMY

Hyderabad-500 052, the 11th May 2007

No. 15011/6/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shrish Jam, IPS (MH : 99) as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of the 7th May, 2007 for a period of four

years or until further orders whichever is earlier on usual terms and conditions of deputation.

Dr. G. S. RAJAGOPAL  
Director

No. 15011/10/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Anupam Saxena Singh, IPS (UP : 95) as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of the 07th May, 2007 for a period of four years or until further orders whichever is earlier on usual terms and conditions of deputation.

Dr. G. S. RAJAGOPAL  
Director

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 11th May 2007

No. O. II. 2133/86-CRC (MOs).—On his voluntary retirement, Dr. Himanshu Shekhar Tiwari, CMO (OG) (IRLA-2390) of RTC-V, CRPF, Dharampur (H. P.) made over charge of his post from the forenoon of 1.5.2007. Accordingly, his name deleted from the strength of the Force from 1.5.2007 (FN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers.-I).

The 15th May 2007

No. O. II. 3744/07-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Shitolé Asha Sudhakar as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 07.05.2007 till further order. She is posted to CH CRPF Nagpur (Maharashtra).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers. I)

No. O. II. 6471/2007-Pers-I.—Consequent on acceptance of notice for Voluntary Retirement from service, Shri M. Rajapandian, Asstt. Comdt. (IRLA : 6471) of 110 Bn. CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st April, 2007. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.04.2007 (FN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

The 17th May 2007

No. O. II. 3745/07-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Jagat Anand Surin as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 26.03.2007 till further order. He is posted to CH CRPF, Sindri, Dhanbad (Bihar).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers. I)

No. O. II. 3746/07-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Shivaji Singh as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 30.04.2007 till further order. He is posted to 180 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers. I)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 17th May 2007

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers.I/38.—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Min/Steno) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Asstt. Commandant/JAO on regular basis
1.	S/Shri M. M. S. Rawat	Group Hqrs., Hyderabad	30.04.2007
2.	G. S. Bist	Group Hqrs., Chennai	27.04.2007
3.	S. S. Bisht	Group Hqrs., Delhi	30.04.2007
4.	Sunil Lakra	4th Res Bn., Mundali	01.05.2007
5.	A. K. Chakraborty	Group Hqrs., Allahabad	27.04.2007

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

No. E-16015/(2)/2007/Pers.1/39.—The President is pleased to appoint the following Commandants on regular promotion to the rank of Senior Commandant in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Senior Commandant on regular basis
	S/Shri		
1.	B. B. Singh	PTPS, Panki	19.04.2007
2.	S. S. Gusain	DAE, Kalpakkam	19.04.2007
3.	R. C. Huria	FHQ/Works	19.04.2007
4.	Kashi Ram	Group Hqrs., Ahmedabad	19.04.2007
5.	Alkesh Bhatnagar	Lucknow Airport	19.04.2007
6.	A. S. Panwar	BDL, Kanchanbagh	02.05.2007

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

#### OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110 011, the 15th May 2007

No. 1/8/2006-Ad-III.—The President is pleased to appoint by promotion Shri Trilochan Singh Johar as Joint Director (Electronic Data Processing) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Office of the Registrar General, India with effect from 11.05.2007.

D. K. SIKRI  
Additional Secy. (RGI)

No. 1/37/2005-Ad-III (Pt.).—The President is pleased to appoint by promotion Shri B. M. L. Jain as Additional Director (Electronic Data Processing) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in Office of the Registrar General, India with effect from 07.05.2007.

D. K. SIKRI  
Additional Secy. (RGI)

#### MINISTRY OF FINANCE BANK NOTE PRESS

(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Limited)

Dewas, the 15th May 2007

No. BNP/C/44/98-I.—Shri G. K. Kulkarni, Dy. Technical Officer (Ink Factory) is promoted to the post of Technical

Officer (Ink Factory) in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- (Group-B) w.e.f. 01.05.2007 on regular basis until further orders.

D. V. GONDNALE  
General Manager

No. BNP/C/44/98-I.—Shri D. R. Tillo, Inspector Control is promoted to the post of Dy. Control Officer in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- (Group-B) w.e.f. 01.05.2007 on regular basis until further orders.

D. V. GONDNALE  
General Manager

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT (OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110 002, the 16th May 2007

No. Admn. I/O. O. No. 44.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Ravi Kathuria and Shri Akamkar Singh Viridi, Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 11.5.2007 (A/N) until further orders.

K. PRASAD  
Director (Admn.)

#### OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT) RAJASTHAN

Jaipur, the

No. Admn. I/Au/P-13044/2007.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Audit Officers to the post of Sr. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Babu Lal Gupta	02.01.2007
2.	Gauri Shanker Sharma	01.02.2007
3.	Daya Ram Yadav	01.02.2007
4.	Prakash Jain	01.03.2007
5.	Ram Singh Meena (ST)	26.03.2007
6.	Jugal Kishore Sharma-III	02.04.2007

V. K. JAIN  
Sr. Audit Officer/Admn. I

No. Admn. I/Au/P-13044/2007.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Pramod Kumar	02.01.2007
2.	Jalam Singh	01.02.2007
3.	Ram Lal Singhal	02.02.2007
4.	Om Prakash Sharma-IV	01.03.2007
5.	Om Prakash Garg-II	01.03.2007
6.	Satya Narain Mangal	26.03.2007
7.	Krishna Murari Mathur	02.04.2007
8.	Chain Singh Panwar	30.04.2007

V. K. JAIN  
Sr. Audit Officer/Admn. I

No. Admn. I/Au/P-13044/2007.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Hans Raj Natani	02.01.2007
2.	Chetan Rupani	29.01.2007
3.	Hari Prasad Verma	01.02.2007
4.	Rati Kant Sharma	02.02.2007
5.	Man Mal Dak	01.03.2007
6.	Vishwajeet Bhattacharya	01.03.2007
7.	Edwin Sebastian	28.03.2007
8.	Jagdish Prasad Panchal	27.04.2007
9.	Harish Mehndiratta	04.05.2007

V. K. JAIN  
Sr. Audit Officer/Admn. I

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 15th May 2007

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. VI/65.—Shri Rathindra Nath Misra, Sr. Audit Officer and Shri Manas Majumder Sr. Audit Officer, of this office retired from service on superannuation on 30.04.2007(AN).

B. K. MUKHERJEE  
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT :  
CENTRAL KOLKATA

Kolkata-700 001, the 16th May 2007

No. Confdl./C/470-II/2007/216(11).—Under orders of the Principal Director of Audit, Central, Kolkata Shri Ashok Kumar Singh, Assistant Audit Officer, now on deputation to the Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi, as Assistant Administrative Officer has been granted proforma promotion as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- under Next Below Rule w.e.f. 02.01.2007 (F/N) [1st January, 2007 being the holiday].

The conditions precedent to the grant of promotion under the Next Below Rule' as laid down in Govt. of India decision No. 33 below FR 22 (Swamy's FR & SR Part-I 2006 Edition) stand fulfilled in this case and the post held by Shri Singh now on deputation is outside the regular line of service.

Shri Singh may exercise option under FR 22 (I)(a)(I) within one month from the date of his taking over charge in terms of Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training) O.M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dt. 30.08.1989 as amended from time to time.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

No. Confdl./C/538/2007/253(14).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint Shri Pradip Kumar Ghosh, Audit Officer as Senior Audit Officer in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 01.02.2007 (F. N.) or from the date from which he takes over charge as Senior Audit Officer whichever is later.

Shri Ghosh is directed to report for duty to his Group Officer.

He will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR)

O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

His seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

No. Confdl./C/470-II/2007/254(14).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint Shri Ratan Kumar Sharma, Assistant Audit Officer as Audit Officer in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.02.2007 (F. N.) or from the date from which he takes over charge as Audit Officer whichever is later.

Shri Sharma is directed to report for duty to his Group Officer.

He will be transferred to the Branch Office at ANI/Port Blair in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

He will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

His seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

No. Confdl./C/538/2007/1(14).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint Shri Samir Kumar Guha, Audit Officer as Senior Audit Officer in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.04.2007 (F. N.) (1st April 2007 being a holiday) or from the date from which he takes over charge as Senior Audit Officer whichever is later.

Shri Guha is directed to report for duty to his Group Officer.

He will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

His seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

Kolkata-700 001, the 30th April 2007

No. Confdl./C/538/2007/34(14).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint Shri Pradeep Lakra, Audit Officer as Senior Audit Officer in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 01.05.2007 (F. N.) or from the date from which he takes over charge as Senior Audit Officer whichever is later.

Shri Lakra is directed to report for duty to his Group Officer.

He will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

His seniority will be fixed by Administration in due course.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 16th May 2007

No. A-19018/301/77-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri K. Shamjee, Deputy Director (Chemical) SISI, Ahmedabad as Director (Chemical) on ad hoc basis for one year with effect from the date of assumption of charge of the post or till the recommendation of the UPSC on regular basis or until further orders whichever is earlier, under Small Industry Development Organization in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- at SISI, Goa with effect from the forenoon of 02.04.2007 until further orders.

SARITA PURI  
Dy. Director (Admn.)

No. A-19018/1599/2001-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Verma, Assistant Director Grade-I (Electronics), SISI, Kolkata as Dy. Director (Electronics) on officiating basis under Small Industry Development Organization in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- at Hqrs.



Office with effect from the forenoon of 23.04.2007 until further orders.

SARITA PURI  
Dy. Director (Admn.)

**SURVEY OF INDIA  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE**

Dehradun-248 001, the 10th May 2007

No. C-112/718-A.—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Jyotssna Paul	09.04.2007
2.	Shri M. R. Bhasker	26.02.2007
3.	Shri B. V. Mouly (SC)	26.02.2007
4.	Shri V. W. Julius	20.03.2007
5.	Smt. Avinash Singh	13.04.2007 (A/N)

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-85, the 9th May 2007

No. PD/7(17)/2006-R-IV/SO(E)/48473.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 1, 2006 except Dr. Salil Varma, Sl. No. 18, Shri Ajay Kumar Mishra, Sl. No. 94 and Dr. Ajay Singh, Sl. No. 143 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of August 29, 2006, August 7, 2006 and April 2, 2007 respectively, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Arvind Manilal Panchal	SO/D
2.	Shri Kaushik Kayal	SO/D
3.	Shri Raghuraman Ramamurthy	SO/D

1	2	3
4.	Shri Rajesh Kumar Singh	SO/D
5.	Shri Ranjan Kumar	SO/D
6.	Shri Vanachinnappan Mahimairaj	SO/D
7.	Shri Vijay Kumar	SO/D
8.	Shri Amitava Roy	SO/D
9.	Shri Nilesh Chouhan	SO/D
10.	Shri Gundlapally Laxmi Narasimha Reddy	SO/D
11.	Shri Krishnan Chandrasekaran	SO/D
12.	Shri Jagdish Yadav	SA/F
13.	Shri Ranjit Mallick	SO/D
14.	Shri Sisir Kumar Sit	SO/D
15.	Shri Krishna Kumar Singh	SO/D
16.	Dr. (Smt.) Mrinal R. Pai	SO/D
17.	Dr. (Smt.) Sadequa Jahedkhan Patwe	SO/D
18.	Dr. Salil Varma	SO/D
19.	Shri Manoj Nalliath	SO/D
20.	Shri Abhishek Bhardwaj	SO/D
21.	Shri Amit Kumar	SO/D
22.	Shri Anand Kumar Sharma	SO/D
23.	Shri Rakesh Kumar Kaushik	SO/D
24.	Shri Sushil Kumar Bahuguna	SO/D
25.	Shri Yugadeep Chandra	SO/D
26.	Smt. Kanchana G. Menon	SO/D
27.	Smt. Nandini Gupta	SO/D
28.	Shri Mungath Damodaran Nair	SO/D
29.	Shri Ratnesh Singh Sengar	SO/D
30.	Smt. Suchismita Mishra	SO/D
31.	Shri Kaushal Jha	SO/D
32.	Dr. (Smt.) Mary Alex	SO/D
33.	Smt. Preetha Manoj Nair	SO/D
34.	Smt. Sadhana Arun Mandlik	SO/D
35.	Dr. K. Krishnan	SO/D
36.	Dr. Kaiprath Veetil Lohithakshan	SO/D

1	2	3	1	2	3
37.	Shri Adelli Rameshbabha Narasaiah	SO/D	71.	Shri Arunodoy Mitra	SO/D
38.	Shri Nilesh Umesh Patel	SO/D	72.	Shri Chandan Kumar Chakrabarti	SO/D
39.	Shri Raj Karn Singh	SO/D	73.	Shri Om Prakash Singh	SO/D
40.	Shri Ramakrishnan Sankar	SO/D	74.	Shri Ramakant	SO/D
41.	Shri Patil Satish Balasaheb	SO/D	75.	Shri Saurabh Goverdhan	SO/D
42.	Shri Mahesh Vasudev Rane	SO/D	76.	Shri Soumya Sarkar	SO/D
43.	Dr. Ashok Kumar Verma	SO/D	77.	Shri Sumit Maity	SO/D
44.	Shri Sukanta Karmakar	SO/D	78.	Smt. Biddisha Mitra Biswas	SO/D
45.	Shri Avichal Raj Kapur	SO/D	79.	Smt. Somya Khare	SO/D
46.	Shri Naseem Ahmed	SO/D	80.	Shri Brajesh Kumar Singh	SO/D
47.	Dr. Kizhumangatt Suresh Kumar	SO/D	81.	Shri Pradeep Mangalassery Prabhakaran	SO/D
48.	Shri Hariharan Seshadri	SO/D	82.	Shri Kamlesh Arun Datir	SO/D
49.	Shri Prakash Kashyap	SO/D	83.	Shri Sanjay Kumar	SO/D
50.	Shri Velappan Nair Sreekumari Rajan	SO/D	84.	Shri Suresh Kumar	SO/D
51.	Shri Venkatraman Balaji	SO/D	85.	Shri Kamlesh Madhukar Pandit	SO/D
52.	Smt. Usha Radha Krishnan	SO/D	86.	Shri Raghuveer Virupaxrao Kulkarni	SO/D
53.	Shri Ursal Gorakh Ravsaheb	SO/D	87.	Smt. Perna Mishra	SO/D
54.	Shri Mukesh Lal Shah	SO/D	88.	Shri Dakshinamoorthy Selvaraj	SO/D
55.	Shri Subhra Prakash Dey	SO/D	89.	Shri Kinshuk Dasgupta	SO/D
56.	Shri Swarupananda Pradhan	SO/D	90.	Shri Hareesh Naubatrai Kapur	SO/D
57.	Shri Mukti Kanta Ray	SO/D	91.	Shri Jaikaran	SO/D
58.	Shri Arun Kumar	SO/D	92.	Shri Manoj Kumar	SO/D
59.	Shri Sreejith J.	SO/D	93.	Shri Mukesh Kumar	SO/D
60.	Shri Ajay Saini	SO/D	94.	Shri Ajay Kumar Mishra	SO/D
61.	Shri Devashish Rath	SO/D	95.	Shri Ibungohal A.	SO/D
62.	Shri Pandurangaiah Dontu	SO/D	96.	Shri Niraj Uttam	SO/D
63.	Shri Shrikant Sheshagiri Rao Katarki	SO/D	97.	Shri Partha Bakshi	SO/D
64.	Shri Vijendra Singh	SO/D	98.	Shri Anirban Kumar Mitra	SO/D
65.	Smt. Aneeta R. Patil	SO/D	99.	Shri Hari Narayan Bhilwade	SO/D
66.	Shri Suryakant Kisan Thorat	SO/D	100.	Shri Kathi Sudarshan	SO/D
67.	Shri Venkatesan Udayamurthi	SO/D	101.	Shri Mukesh Kumar Sharma	SO/D
68.	Shri Bedse Ravindra Dagaji	SO/D	102.	Shri Partha Das	SO/D
69.	Shri Arijit Laik	SO/D	103.	Shri Sandeep Kulkarni	SO/D
70.	Shri Santosh Kumar	SO/D			

1	2	3
104.	Shri Anil Antony	SO/D
105.	Shri Deepti Ranjan Hota	SO/D
106.	Shri Ravindra Kumar	SO/D
107.	Shri Vaze Vinay Vijay	SO/D
108.	Shri Ankur Chatterjee	SO/D
109.	Shri Moghe Surendra Harihar	SO/D
110.	Shri Abhay Chaturvedi	SO/D
111.	Shri Advanne Shivaprakash	SO/D
112.	Shri Deepthi Kumar M. B.	SO/D
113.	Shri Ganapati S. Hegde	SO/D
114.	Shri Joseph Thomas Mampampil	SO/D
115.	Shri N. Sadanandan	SO/D
116.	Shri R. Ganesan	SO/D
117.	Shri Ronald Felix Sequeira	SO/D
118.	Shri Devendra Kumar	SO/D
119.	Shri Hardeep Singh Bhatia	SO/D
120.	Shri Nand Kumar Choudhary	SO/D
121.	Shri Shankaraiah Bitla	SO/D
122.	Shri Saroj Kanta Mohanty	SO/D
123.	Shri Brahmananda Chakraborty	SO/D
124.	Shri R. Karthikeyan	SO/D
125.	Dr. Sudipta Chakraborty	SO/D
126.	Smt. Archana Mukherjee	SO/D
127.	Shri Anil Kumar Jain	SO/D
128.	Shri Padmanabha Iyer Suriyanarayanan	SO/D
129.	Shri Imran Ali Khan	SO/D
130.	Shri Muruva Hari Prasad	SO/D

1	2	3
131.	Shri O. S. Seik Mansoor Ali	SO/D
132.	Dr. Bhat Prakash Nana	SO/D
133.	Shri Amit Jain	SO/D
134.	Shri Maruti Ganpat Shinde	SA/F
135.	Shri Padmanabha Pillai Raveendran Pillai	SO/D
136.	Shri Ramakrishna P.	SO/D
137.	Dr. Virendra Kumar	SO/D
138.	Shri Kaushlesh Pansingh Rawat	SO/D
139.	Shri Naresh Kumar	SO/D
140.	Shri Kabin Kukil Bhuyan	SO/D
141.	Shri Soumen Bhattacharyya	SO/D
142.	Dr. (Smt.) Shashwati Sen Yeram	SO/D
143.	Dr. Ajay Singh	SO/D
144.	Shri A. K. Jotshi	SO/D
145.	Shri Akhil Shukla	SO/D
146.	Shi Nagashetty Setwaji Gaikwad	SA/F
147.	Shri Neeraj Katiyar	SO/D
148.	Shri Rabi Datta	SO/D
149.	Shri Ajay Shirole	SO/D
150.	Shri Cherimal Madhavan Suresh Babu	SO/D
151.	Shri Mehta Darshit Bipinchandra	SO/D
152.	Shri Ramachandran M.	SO/D

P. VENUGOPALAN  
Controller

No. PD/7(19)/2006-R-IV/SO(C)/48484.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of

Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 1, 2006, in an officiating capacity until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Unnikrishnan Edayankara Kadankode	SO/SB
2.	Smt Nilima Vivek Walinjar	SO/SB
3.	Shri Mahendra Kothari	SO/SB
4.	Shri Nitin Vishwanath Parkar	SA/D
5.	Shri Thekke Verapothu Kuzhi Kuriakose Reji	SO/SB
6.	Shri Kanakkassery Sreekumar	SO/SB
7.	Shri Subramani Kumaravel	SO/SB
8.	Dr. Narayan Vitthal Mayekar	SO/SB
9.	Shri Sunil Arjun Prabhu	SA/D
10.	Shri Mageswaran Ponnambalam	SO/SB
11.	Shri Veluri Srinivasa Rao	SO/SB
12.	Smt. Sreejeya Dharmarajan	SO/SB
13.	Smt. Rajasree Vijayan	SO/SB
14.	Kum. Prabhu Jayalaxmi A.	SA/D
15.	Shri Velmurugan Palanisamy	SO/SB
16.	Shri Neeraj Dixit	SO/SB
17.	Shri Ajay Kumar S.	SO/SB
18.	Shri Manoj Kumar Srivastava	SA/D

P. VENUGOPALAN  
Controller

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 16th May 2007

No. 18/2/2007-ER/149.—The President is pleased to appoint the following persons in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) as Scientific Officers in the grades

and with effect from the dates shown against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Grade	Dt. of Appointment	Scale of Pay (In Rs.)
1.	S/Sri Parackal Kutty Baburajan	Scientific Officer (E)	19.04.2007 (FN)	12,000-375-16,500/-
2.	Vijay Vitthal Muthekar	Scientific Officer (D)	19.04.2007 (FN)	10,000-325-15,200/-

O. T. G. NAIR  
Under Secy.

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 2007

No. DPS/07006/Rectt./2192.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoint Shri R. Ravindran Nair, Stenographer Grade-I (Scale of pay of Rs. 5,500-175-9,000/-) as Private Secretary (NS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 10.10.2006 (FN) until further orders.

T. S. GANAPATHIRAMAN  
Administrative Officer-III

No. DPS/07006/Rectt./2194.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri A. Asokakumar, Stenographer Grade-I (Scale of pay of Rs. 5,500-175-9,000/-) as Private Secretary (NS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 01.03.2007 (FN) until further orders.

T. S. GANAPATHIRAMAN  
Administrative Officer-III

#### DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 2007

No. DCSEM/A/9(230)/2006-Rectt./Vol. VII/428.—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri S. D. Madhekar, Assistant Accountant, BARC as Assistant Accounts Officer in this Directorate in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- from the forenoon of 27.04.2007 until further orders.

G. MURALIDHARAN  
Administrative Officer-III(A)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jalandhar, the                      2007

No. 560(3)/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the Companies will be dissolved.

Sl. No.		COMPANY NAME
1	4658	RAMDEEP ALLOY STEELS PRIVATE LIMITED
2	3889	ASHOKA UNIWOOL INDUSTRIES PVT LTD
3	6890	ORCHID RESORTS PVT. LTD.
4	6896	K K ADVERTISING COMPANY LIMITED
5	6901	J.RAI BUILDERS PVT. LTD.
6	6909	ASHOKA HOSIERY PVT. LTD.
7	6923	PSYCHOTROPICS INDIA PVT LTD
8	6927	BHAGWATI FORGINGS PVT LTD
9	6933	FERMENTAPHARMA BIOTECH LIMITED
10	6938	CHAHAL RUBBER PVT LTD
11	6940	S K B EXPORTS PVT LTD
12	6951	PAL PIPES INDIA PVT LTD
13	6967	ATELIAN AUTO STEEELS PVT. LTD.
14	6969	BIPS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
15	6984	KING PIPES PVT LTD
16	7000	NEULITE ENGINEERS PVT LTD
17	7009	INDE BIOLOGICALS PVT LTD
18	7025	HIMALYAN WIRES PVT LTD
19	7028	KOHINOOR SALES PVT LTD
20	7041	UNIVERSAL IN-CAST LTD.
21	7053	SANVA ASSOCIATES PVT LTD
22	7057	MANALI PALACE PVT LTD
23	7071	JAWAHAR FLOURS PVT LTD
24	7084	FINE FOODS PVT LTD
25	7106	SUNFLAG KNITWEARS PVT LTD

14-86 42107

26	7107	PUNJNAD AUTO AND RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
27	7116	WINSOME DYEING AND PROCESSING PVT LTD
28	7139	CORNUCOPIA FOODS PVT LTD
29	7171	PARAMOUNT FORGE PVT LTD
30	7175	HIM LON LIMITED
31	7193	SWARN PACKAGES PRIVATE LIMITED
32	7194	PRASAD MEDICINE MANUFACTURING COMPANY PVT LTD
33	7203	RUDRA CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
34	7204	HIGHLAND MICROBIAL AND BIOCHEMICAL LABORATORIES PVT LTD
35	7209	TOOFAN PUBLICATION PRIVATE LIMITED
36	7216	MUKAND AND MUKAND TRANSFORMERS PVT LTD
37	7220	SAMRA LABS PVT LTD
38	7228	PUNJAB DHAKKANS PVT LTD
39	7229	BINDAL AGRO MILLS PVT LTD
40	7245	ASGHAR ELECTRONICS AND COMPUTERS PVT LTD
41	7246	SANBRO DATA COMMUNICATION SYSTEMS PVT LTD
42	7261	ROYAL ROLLER FLOUR AND GENERAL MILLS PVT LTD
43	7273	MAHESH CARGO CARRIERS PVT LTD
44	7293	AGGARWAL RICE AND ICE PVT LTD.
45	7294	VIKAS FLOUR MILL PVT LTD
46	7313	SUPREME ACIDS AND CHEMICALS PVT LTD
47	7317	GIPSY FOOD PRODUCTS PVT LTD
48	7321	BHURJEE ASSOCIATES PVT LTD
49	7330	NEELKANTH AUTO PVT LTD
50	7331	A AND A BUILDERS PVT LTD
51	7335	GOINDWAL OXYGEN PVT LTD
52	7336	DRISH LEATHERS PVT LTD
53	7343	DEEPAK SACKS LIMITED
54	7350	DEEPAK PIPES INDIA LIMITED
55	7361	STANDARD VIDEO PRODUCTS PVT LTD
56	7365	GOINDWAL PIPES PVT LTD
57	7366	MUNISHA CYCLES PVT LTD
58	7374	MANSAROVER PACKAGES PVT LTD
59	7379	KARWAL PHOTONICS PVT LTD
60	7408	PUNJAB PARAFINE WAX PVT LTD
61	7409	DEVINDER BAKERS PVT LTD
62	7411	RAJ MOULDS AND ALLIED PACKINGS PVT LTD
63	7416	ROYAL CYCLES PVT LTD
64	7417	INDUSTRIAL CHAINS INDIA PVT LTD
65	7418	AMBA CONTAINERS PVT LTD

66	7438	WHITE WEALTH PUNJAB FEEDS PVT LTD
67	7445	AMRITSAR FEEDS PVT LTD
68	7458	LAKRA CYCLES PRIVATE LIMITED
69	7470	VETERAN TECHNICON PVT LTD
70	7488	SHARMA GASES AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
71	7494	AMBA MILLERS PVT LTD
72	7506	VARDAAN ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
73	7522	VISHNU PIPE INDUSTRIES PVT LTD
74	7531	KHOSLA RICE MILLS PVT LTD
75	7535	JASSAL HEAVY ENGINEERING PVT LTD
76	7539	STAMINA MOBILES PVT LTD
77	7542	MITSAN FORGINGS PVT LTD
78	7566	PUNJAB POTENTIOMETERS PVT LTD
79	7572	RIHAL AND RIHAL FERTILIZERS PVT LTD
80	7592	USHA H P ELECTRONIC EXCHANGES PVT LTD
81	7596	DASHMESH PACKAGES PVT LTD
82	7609	MAJHOLI ALUMINIUM ROLLS PVT LTD
83	7614	SUSHRIT HERBS PVT LTD
84	7622	WALIA CHEMICALS PVT LTD
85	7623	REGAL SYNTHETICS PVT LTD
86	7629	COTTWELL FABRICS PVT LTD
87	7636	KANSAL FOODS PVT LTD
88	7636	KANSAL FOODS PVT LTD
89	7641	WADALIA FOOD AND FEED PVT LTD
90	7643	N I ALLOYS PVT LTD
91	7647	ROCKWELL WHEELS (INDIA) PVT LTD
92	7660	UNITECH PUBLICATION PVT LTD
93	7673	SHIVALIK LIVESTOCK PVT LTD
94	7682	CAPITAL OXYGENS PVT LTD
95	7692	MIT RAJ PACKAGING PVT LTD
96	7698	HILTON INSTANT FOODS PVT LTD
97	7703	APPL PRIVATE LIMITED
98	7704	KOCHAR HYPOT ENGINEERS PVT LTD
99	7707	TARUN WIRES PVT LTD
100	7711	GURIA BUS SERVICE PVT LTD
101	7712	V K STEELS PVT LTD
102	7719	LUDHIANA AUTO LINES PVT LTD
103	7735	CHAMPION PROCESSOR PVT LTD
104	7753	UMTC LATHES PVT LTD
105	7775	UNITED LATHES PVT LTD

106	7784	LUDHRA TOOLS AND FORGINGS PVT LTD
107	7786	K C OILS PVT LTD
108	7788	G.K. AUTO PARTS PVT LTD
109	7790	KARMA MOULDINGS PVT LTD
110	7793	SEHMEE CLOTH MILLS PVT LTD
111	7801	GAUTAM TUBES PVT LTD
112	7811	VARDAN SPINNERS PVT LTD
113	7819	EIL COMPUTER PVT LTD
114	7831	PAUL WOOLLEN MILLS PVT LTD
115	7832	NORTH INDIA HYBRID SEEDS CO PVT LTD
116	7864	PERFECT TOOLS PVT LTD
117	7874	KANDHARI HI-TECH ELECTRICALS PVT LTD
118	7875	REGENCY FERRO AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
119	7884	BHULLAR MACHINES PVT LTD
120	7885	BHAI COTTON MILLS PVT LTD
121	7891	RITA KNITWEAR PVT LTD
122	7897	ROBOT TOOLS INDIA PVT LTD
123	7899	KAY CEE INSULATORS PVT LTD
124	7911	DOWELL DISTILLERIES PVT LTD
125	7916	ASHIRWAD HOSPITALS PVT LTD
126	7931	ANGADH APPLIANCES LIMITED
127	7932	GIFT CYCLES PVT LTD
128	7933	SUTLEJ KNITWEAR PVT LTD
129	7945	R.I. STEELS PVT LTD
130	7949	R.P.H. CONSULTANTS PVT LTD
131	7953	HEM KUND LINES PVT LTD
132	7956	SUNDEEP PRECISION INSTRUMENTS PVT LTD
133	7964	HIMALAYA SPINNERS PVT LTD
134	7966	N D CYCLES PVT LTD
135	7967	DAMAN FORGINGS PVT LTD
136	7969	HIMACHAL HYDRAULICS LTD
137	7983	DEEPAK RADIOS PVT LTD
138	7989	S R J EXPORTS PVT LTD
139	8002	OMNI TYPESET PRESS PVT LTD
140	8003	SIMLA PHOTASET PVT LTD
141	8013	ANJOR AGRO PRIVATE LIMITED
142	8035	AMIT PRECISION PVT LTD
143	8038	J AND K WAXOFIELD PVT LTD
144	8039	ASHA CANDLE INDUSTRIES PVT LTD
145	8045	SAMRA SEA FOODS PVT LTD



146	8058	GILARD RADIO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
147	8065	GANESH RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD
148	8077	BHAGAT BROS SPINNERS PVT LTD
149	8083	MAHAJAN BROTHERS SPORTS PVT LTD
150	8090	CHAWLA SALES PVT LTD
151	8110	LADLI CONSTRUCTION CO PVT LTD
152	8125	RAJA SYNTHETICS PVT LTD
153	8135	GEE BEE AAM SPRINGS PVT LTD
154	8136	ROSHAN S HEALTH AND SPORTS DEVELOPERS PVT LTD
155	8137	UMESH TRADERS PVT LTD
156	8141	PRECISION MANUFACTURING CO PVT LTD
157	8143	ORION MEDICHEM PVT LTD
158	8158	MALOUT STEEL PIPES PVT LTD
159	8169	DEEPALI TUBES PVT LTD
160	8177	KARTAR TIMBERS PVT LTD
161	8192	FURPILE EXPORTS LIMITED
162	8197	MAKKAR RIMS INDIA PVT LTD
163	8204	CLASSY MOBIKE SHOP PVT LTD
164	8213	GRADUATE SALES PVT LTD
165	8215	PIONEERS WVD BILT PVT LTD
166	8219	D S SPINNERS PVT LTD
167	8223	M.SONI AND CO PVT LTD
168	8224	MODERN SKIN CO PVT LTD
169	8228	JAGSON AND CO PVT LTD
170	8229	SATISH KUMAR CONTRACTORS PVT LTD
171	8233	KEISHA RESORTS PVT LTD
172	8238	MAURYA WOOLLEN MILLS PVT LTD
173	8239	HARNAM STEELS PVT LTD
174	8257	JYOTIK STIENBERGER LTD
175	8291	R A DRUGS PVT LTD
176	8292	CHOUDHARY WINES PVT LTD
177	8295	EVERSHINE PAPER MILLS PVT LTD
178	8297	SUNRISE BELTINGS PVT LTD
179	8303	NEERAJ EXPORTS PVT LTD
180	8314	PARKASH PLYWOOD PVT LTD
181	8319	JITENDRA CHEMICAL WORKS PVT LTD
182	8321	ANUPAM ELECTRO CHEM PVT LTD
183	8327	SHANKAR DASS LOK RAJ OIL MILLS PVT LTD
184	8329	JAY PEE CONTRACTORS AND ENGINEERS PVT LTD
185	8349	GULATI ENGINEERING CO INDIA PVT LTD

186	8353	KIRAN CONTRACTORS PVT LTD
187	8360	SIDHARTHA EXPORTS PVT LTD
188	8365	GULERIA RESORTS PVT LTD
189	8370	UNITED DRUGS INDIA LTD
190	8385	SYN TECH ENGINEERING PVT LTD
191	8388	KAPRINAS PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS LIMITED
192	8390	R E S KEM INDIA PVT LTD
193	8394	GANGOTRI RESORTS PVT LTD
194	8397	ADARSH COAL TRADERS PVT LTD
195	8401	ROHIT WOOLLENS PVT LTD
196	8420	GOLDMINE ADVERTISING PVT LTD
197	8440	RANBAXY MANAGERS WELFARE LTD.
198	8448	LALCHAND MADAN GOPAL AND COMPANY PVT LTD
199	8458	S S B SURVEYORS AND CONSULTANTS PVT LTD
200	8460	NU-TECK ENGINEERS PVT LTD
201	8461	MITASU DIES PVT LTD
202	8468	SURAJ WOOLLEN MILLS PVT LTD
203	8470	A.J.AND ASSOCIATES PVT LTD
204	8471	SIDHU BUS SERVICE PVT LTD
205	8477	APPLE COMPUTERS PVT LTD
206	8481	G J ELASTIKA PVT LTD
207	8482	MAZBOOT PACKERS AND ENGINEERS PVT LTD
208	8485	GOYAL FABRICATORS PVT LTD
209	8500	NAND KISHORE JAIN BUILDERS PVT LTD
210	8514	MARI GOLD GARMENTS PVT LTD
211	8523	VAAHO PHOTO COLOR PVT LTD
212	8526	HIMACHAL PIPES PVT LTD
213	8528	BUBBER MACHINE TOOLS PVT LTD
214	8551	KAVERI CHEMICALS PVT LTD
215	8570	M.B.RUBBER PRIVATE LIMITED
216	8574	BINE PAL COMPONENTS PVT LTD
217	8579	GUPTA GEARS PRIVATE LIMITED
218	8613	MAMTA CARGO AND TRAVELS PVT LTD
219	8621	ENCON PRESSINGS PRIVATE LIMITED
220	8625	CHANSIL HOTEL INDIA PVT LTD
221	8630	KANDHARI BUILDERS PVT LTD
222	8638	CLASSPRO REMEDIES PVT LTD
223	8646	SYNTHETIC TRADING COMPANY PVT LTD
224	8647	CHE INDIA PVT LTD
225	8650	DHILLON ELECTRONICS PVT LTD

226	8653	S.K.ROLLS PVT LTD.
227	8656	TARANNUM CHEMICALS INDIA PVT LTD
228	8662	CHETAN CASTINGS PRIVATE LIMITED
229	8665	SNOWLINE HOTELS AND RESORTS PVT LTD
230	8673	P.I. PHARMACEUTICALS PVT LTD.
231	8675	WALSON TANNERIES PVT LTD
232	8683	SRI GURU HARGOVIND ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD.
233	8687	UNITED DEALERS PVT LTD
234	8693	BHARDWAJ PROPERTIES PVT LTD
235	8697	VIKAS FIBRE-THERM PVT LTD
236	8716	STEAMMAID FORGINGS PVT LTD
237	8717	HIMACHAL COMPONENTS PVT LTD
238	8721	CHANDIGARH CUTTERS PVT LTD
239	8727	B D CEMENT DISTRIBUTOIRS PVT LTD
240	8728	CHUNDHARI COTTON AND ALLIED MILLS PVT LTD.
241	8732	PARDHAN ELECTRO TECHNICS PVT LTD
242	8734	NORTHERN TRANSFORMERS AND POWER CONTROLS PVT LTD
243	8738	GOLD SHIELDS TEA PVT LTD
244	8747	ORIENT TECH INDUSTRIES LTD
245	8778	BHAI STEEL ENTERPRISES PVT LTD
246	8785	C OXIDE PVT LTD
247	8793	A K DOOR FRAMES PVT LTD.
248	8795	RATTAN AUTO ENTERPRISES PVT LTD
249	8800	AUSTIN ELECTRONICS PVT LTD
250	8804	MENKA CYCLES PVT LTD
251	8808	MADHOPUR PACKAGING PVT LTD
252	8813	ANSHUMAN FOODS PVT LTD
253	8814	CHANDI COMPUFORMS PVT LTD
254	8815	PUNJAB WADS PVT LTD
255	8817	VISHAL BHARAT CONSUMER PRODUCTS PVT LTD
256	8819	SUPER FINE HANDLOOMS PVT LTD
257	8830	G S CARRIERS PVT LTD
258	8844	APNA POLY FABRIC PVT.LTD.
259	8846	RAHUL PACKEREDS PVT LTD
260	8852	R A SPINNING MILLS PVT LTD
261	8865	MERIDIAN LEATHERS PVT LTD
262	8867	NORTH INDIA PRE-STRESSERS PVT LTD
263	8875	S K TECHNO PLASTS PVT LTD
264	8876	SAMRAT APPLIANCES PVT LTD
265	8880	JATIN BUILDING CHEMICALS PVT LTD

266	8890	KAAMAKHYA PHARMACEUTICALS PVT LTD
267	8894	CREST OVERSEAS PVT LTD
268	8895	RAJDOOT CHEMICALS PVT LTD
269	8910	JAIVALLABH FABRICS PVT LTD
270	8913	MARSHAL SURGICALS PVT LTD
271	8915	MONGA DRUGS AND CHEMICALS PVT LTD
272	8916	VITAL GASES AND METALS PVT LTD
273	8919	V.M. ELECTRONICS PVT LTD
274	8927	SAECO THRESHERS PVT LTD
275	8939	SAMANA STRIPS PRIVATE LIMITED
276	8951	ABL CAPACITORS (INDIA) LIMITED
277	8969	CAMELLIA PACKAGES PVT LTD
278	8981	DAYAL ICE FACTORY PVT LTD
279	8993	SHIV SHANKER ENGINEERING COMPANY PVT LTD
280	9004	GLOW WHEELS EX SERVICEMEN S TRANSPORT SERVICES PVT LTD
281	9015	CHUNKY FOODS PVT LTD
282	9033	PUNJAB INSULATIONS PVT LTD
283	9055	COMPLETE OVERSEAS PVT LTD
284	9064	SANPA FARMS PVT LTD
285	9065	VEE MAN METAL ENTERPRISES PVT LTD
286	9066	PERFECT REAL ESTATES PVT LTD
287	9078	LUXMI SPINNERS PVT LTD
288	9081	SIMJAS ESTATE PVT LTD
289	9082	NAGI SPINNING PVT LTD
290	9083	EMBROCIA BROILERS PVT LTD
291	9089	M S R G HERBAL PVT LTD
292	9091	BEAS CHEMICALS PVT LTD
293	9094	ROYAL SPINNING MILLS PVT LTD
294	9097	CHAMPION FINISHERS PVT LTD
295	9103	MITSONS ISPAT LTD
296	9111	IJS UNIVERSAL COMMERCIALS PVT LTD
297	9122	AARCEE TRADERS PVT LTD
298	9129	GADDI FIBRES PVT LTD
299	9131	TOYOTA APPLIANCES INDIA LTD
300	9138	AAR KAY CONCAST LIMITED
301	9139	GAMA STEELS PVT LTD
302	9146	CHAUDHRY FARMS PVT LTD
303	9156	CHANDIGARH SCIENCE TUTORIALS PVT LTD
304	9164	BANDANA EMPORIUM PVT LTD
305	9170	BISON EXPORTS PVT LTD

306	9177	APOLLO RADIATORS PVT LTD
307	9180	R.K. TRADERS PVT LTD
308	9187	PINEWOOD RESORTS PVT LTD
309	9194	POONAM AUTOS PVT LTD
310	07	ATL SALES PVT LTD
311	9210	J K CONTRACTORS PVT LTD
312	9211	SUNIL S. SELECTIONS PVT LTD
313	9219	BETA SHARPLES PVT LTD
314	9231	KAUR AND SINGH IMPEX PVT LTD
315	9232	SEMSONS FORGINGS (INDIA) PVT LTD
316	9234	R K MOBILES PVT LTD
317	9251	KAMAL SILK MILLS PVT LTD
318	9253	APSARA SPINNING MILLS PVT LTD
319	9257	CEE DEE IMPEX PVT LTD
320	9269	SPHINX ARBINDO SPORTS PVT LTD
321	9290	COUNTY BUILDERS PVT LTD
322	9293	PUNJAB PRECISION STAMPINGS PVT LTD
323	9297	MOHI OVERSEAS PVT LTD
324	9301	MEHMAAN HOTEL PVT LTD
325	9305	TEJ WIRES PVT LTD
326	9310	PERFECT FORMULATION PVT LTD
327	9314	ASAHI COMPONENTS LTD
328	9318	MARCANDA CERAMICS PVT LTD
329	9342	SANGRUR AUTOS PVT LTD
330	9345	EVERSUN LABORATORIES PVT LTD
331	9353	BRAHMPUTRA TEXTILE MILLS PVT LTD
332	9354	SATYA AGENCIES PVT LTD
333	9359	P B M EXPORTS PVT LTD
334	9368	ORBIT AUTOMOBILES PVT LTD
335	9376	J R PROCESSORS LTD
336	9393	SONU INDUSTRIES PVT LTD
337	9405	PRESTIGE ESTATES PVT LTD
338	9408	ALEX-ANDER HOTELS PVT LTD
339	9420	CHOUDHARY HARBANS LAL AGENCIES PVT LTD
340	9421	BADRI PLASTIC PVT LTD
341	9436	SIKRI STEELS PVT LTD
342	9453	ACCURATE ALLOYS PVT LTD
343	9465	H R FORGINGS PVT LTD
344	9468	SUNSHINE FORGINGS PVT LTD
345	9471	CAYSEE ENTERPRISES PVT LTD

346	9474	BHUPINDRA HINGES PVT LTD
347	9475	TRINITY SOFT PVT LTD
348	9479	SILVER LINE SALES PVT LTD
349	9494	MALHOTRA HOSPITAL AND MATERNITY HOME PVT LTD
350	9538	KAMAZO TOOLS AND FORGINGS PVT LTD
351	9541	KRISHAK CHEMIFERT PVT LTD
352	9545	JAHANGIR SPINNERS PVT LTD
353	9549	DEGENT MACHINES PVT LTD
354	9551	ANU ELECTRONICS PVT LTD
355	9552	SAHIL ELECTRONICS PVT LTD
356	9554	HAPPY MACHINES PVT LTD
357	9564	SUPRME CASTINGS LTD
358	9571	MODERN AXLES PVT LTD
359	9573	ANU MACHINES PVT LTD
360	9574	AARTI MACHINES PVT LTD
361	9575	WINDSOR COMPONENTS PVT LTD
362	9577	NAMRATA ELECTRONICS PVT LTD
363	9606	BHRIGU JYOTISH KARIALAYA PVT LTD
364	9607	D K AUTOMOBILES PVT LTD
365	9614	JALANDHAR STEEL CASTINGS PVT LTD
366	9622	PREET ENGINEERS PVT LTD
367	9639	GREWAL Z CONTRACTING COMPANY PVT LTD
368	9642	ESQUIRE CHLORINATED PARAFIN PVT LTD
369	9653	CHANDER MOTELS PVT LTD
370	9655	GASKR ELECTRONICS PVT LTD
371	9665	MEGASTER ELECTRONICS PVT LTD
372	9671	KISHAN ORGANICS PVT LTD
373	9672	OLYMPIC LEATHERS PVT LTD
374	9677	J SONS LEATHER OVERSEAS PVT LTD
375	9678	SUBHASH SPINNING AND GENERAL MILLS PVT LTD
376	9692	JAGSONS BUILDERS AND CONTRACTORS PVT LTD
377	9693	SANGAM BUILDERS AND CONTRACTORS PVT LTD
378	9698	JAIKARA LUBRICATING OIL REFINERY PVT LTD
379	9713	S M T SPINNERS PVT LTD
380	9716	SIDHARTHA INDUSTRIAL FAB PVT LTD
381	9726	H P GOYAL BROTHERS PVT LTD
382	9728	VICTORY ROLLER FLOUR MILLS PVT. LTD.
383	9735	GURUKIRPA AGRO FUELS PVT LTD
384	9738	KUTHIALA BUILDERS PVT LTD
385	9769	RELIANCE DRUGS AND FORMULATIONS PVT LTD

386	09775	GURUKIRPA PLASTICIZER PVT LTD
387	09781	RIGHTWAY EXPORTS (INDIA) PVT LTD
388	09788	H M J BEAS PAPERS PVT LTD
389	09791	VEE GEE BUILDERS PVT LTD
390	09793	SUKRITI HOTELS AND BUILDERS PVT LTD
391	09795	RATTAN MICRO NUTRIENTS PVT LTD
392	09796	WONDER KNITWEARSPVT PVT LIMITED
393	09803	INNOVATIVE DEVICES PVT LTD
394	09808	AJAI INDUSTRIAL DEVICES LTD
395	09829	ROYAL PARAFFIN PVT LTD
396	09837	SIMRAN CYCLES PVT LTD
397	09840	A P ENZYMES INDIA PVT LTD
398	09845	PARBHAT BEVERAGES INDIA LTD
399	09861	N P CREAMICS PVT LTD
400	09864	A AND A ASSOCIATES PVT LTD
401	09904	LISMAG AUTO PVT LTD
402	09910	BALBIR DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
403	09920	WALIAS JASMINE MOTELS PVT LTD
404	09927	BR MEDICAL SYSTEMS PVT LTD
405	09929	AMEEK COMP PVT LTD
406	09930	MAGNUM TECHNO FIN SERVICES PVT LTD
407	09931	APPU FABRICATORS PVT LTD
408	09933	PANJA MACHINES PVT. LTD.
409	09936	MOHALI ENGINEERING PVT LTD
410	09937	LUXMI FABRICATORS PVT. LTD.
411	09938	SARTAJ MACHINES PVT LTD
412	09939	KAMAL MACHINES PVT LTD
413	09946	SHIVALIK MACHINES PVT LTD
414	09948	HIMACHAL MACHINES PVT LTD
415	09953	SUPREME STONEWARES PVT LTD
416	09989	KRISHNA AUTOCAST PRIVATE LIMITED
417	09994	MURARI TEXTILES MACHINERIES PVT LTD
418	09995	OCEAN ORGANICS PVT LTD
419	09998	SPECTRUM MICROCIRCUITS PVT LTD
420	10006	UNIX INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCES PVT LTD
421	10010	TANEJA FORGINGS PVT LTD
422	10017	GAGRET SPINNERS PVT LTD
423	10028	NAUNIHAL FORGINGS PVT LTD
424	10029	PAUL TANNERIES PVT LTD
425	10039	GOOD STUFF MARKETINGS PRIVATE LIMITED

426	10050	RATTAN AND SONS BUILDING PRODUCTS PVT LTD
427	10053	A G C CONSULTANTS PVT LTD
428	10054	G.M.REMEDIES PRIVATE LIMITED
429	10064	S M ENTERPRISES PVT LTD
430	10069	SHREE VIMAL SALES COMPANY PVT LTD
431	10077	GREAT INDIA CARGO COMPANY PVT LTD
432	10082	SUN SPINNING MILLS PVT LTD
433	10085	HARSIMRAN POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
434	10096	SHARDA AGRO ORGANO RESTICIDES LTD
435	10098	PANCHALI HOUSING PVT LTD
436	10103	SAGAR APPLIANCES PVT LTD
437	10129	ISHER ALLOYS PVT LTD
438	10136	SAZAL PAPER MILLS PVT LTD
439	10146	AGARWAL AND CO PROJECTS (INDIA) PVT LTD
440	10157	N.P.PAPERS PVT LTD
441	10172	SUNDER BUILDERS PVT LTD
442	10176	WORLD BUILDERS PVT LTD
443	10180	DHIR ROADWAYS PVT LTD
444	10182	VITAL ENGINEERS PVT LTD
445	10185	LIM PET FASTENERS PVT LTD
446	10187	SYAL HOTELS PVT LTD
447	10189	HY-REL ENTERPRISES PVT LTD
448	10194	COMPLETE CORPORATE CONSULTANTS PVT LTD
449	10196	ASHIANA PAPERS PVT LTD
450	10200	SATYA RESORTS PVT. LTD.
451	10223	SAMRA AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
452	10245	VIRK PLASTIC PVT LTD
453	10250	TERIOT COMPONENTS PVT LTD
454	10258	UBIQUITY IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD
455	10271	NICE TOOLS AND FORGINGS PVT LTD
456	10273	NOVA RADIATORS PVT LTD
457	10276	H L DIAGNOSTIC PVT LTD
458	10279	PRECICHECK GAUGES AND TOOLS PVT LTD
459	10281	BOMBAY DETERGENTS PVT LTD
460	10284	SUNNY FORGING PVT LTD
461	10300	TULIP LOVERSEAS PVT LTD
462	10322	TAJ CERAMICS AND POTTERIES PVT LTD
463	10330	MARSHAL NUTS AND AUTO PARTS PVT LTD
464	10345	KHURANA WOOLLEN AND SPINNING MILLS PVT LTD
465	10357	TOOR HOSPITAL PVT LTD



466	10382	SATNAM TEXTILE MILLS PVT LTD
467	10401	ALLIANCE PAPER MILLS PVT. LTD.
468	10403	S P RICE PRODUCTS PVT LTD
469	10411	A P SPINNERS LIMITED
470	10419	SURAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
471	10423	B M SCHOOLS PVT LTD
472	10430	KRISONS CHEMICALS PVT LTD
473	10433	KALSI WOOD WORKS PVT LTD
474	10438	BUTTAR ENGINEERING COMPANY PVT LTD
475	10449	GOBIND WIRES PVT LTD
476	10451	NARINDERA OVERSEAS PVT LTD
477	10452	NAMRATA STEEL PVT LTD
478	10490	AMAR NATH GUPTA HOSPITAL PVT LTD
479	10498	KAMAL HOLIDAYS RESORTS PVT LTD
480	10501	ALAMGEER CONSULTANTS AND FURNISHERS PVT LTD
481	10509	HIM ORGANICS LTD
482	10510	PYRAMID ELECTRO PLASTICS PVT LTD
483	10512	MEHTA FOOTWEARS PVT LTD
484	10520	JAI PAUL TECH PVT LTD
485	10529	PARTAP BOARDS PVT LTD
486	10530	JAY ENN CASTING PVT LTD
487	10532	SAHIB BUILDERS PVT LTD
488	10538	S B ALLOYS PVT LTD
489	10542	SWASTIKA AUTOMOBILES PVT LTD
490	10543	CHANDAN PAN PRODUCTS PVT LTD
491	10551	SHAGUN OIL AND SOAPS PVT LTD
492	10556	JAGAT FABRICS PVT.LTD.
493	10572	PUSHKAR CONTRACTORS PVT LTD
494	10576	HARGURPAL SINGH FARMS PVT LTD
495	10577	HARJINDER SINGH FARMS PVT LTD
496	10578	JAGAJ JIT SINGH FARMS PVT LTD
497	10579	PARADISE AGRO PVT LTD
498	10585	CHINAR ENGINEERING PVT LTD
499	10647	ARHAM TEXTILES PVT LTD
500	10652	A V HOSPITAL PVT LTD
501	10676	PRESSTIME INFORMATION SERVICES PVT.LTD.
502	10693	PICKS AUTO INDUSTRIES PVT LTD
503	10700	NOBLE AMUSEMENT PARKS PVT LTD
504	10706	MADAN SHAWLS AND FABRICS PVT LTD
505	10707	DOON VALLEY FOODS PRIVATE LIMITED

506	10713	MIANJI STEEL PVT LTD
507	10718	K R BERI AND CO CYCLE PARTS PVT LTD
508	10721	DASHMESH LAMINATIONS PVT LTD
509	10729	SHIMLA HOTELS PVT LTD
510	10743	JAGDISH TRADERS PVT LTD
511	10744	SELVIN TRADERS PVT LTD
512	10751	HIRASON STEELS PVT LTD
513	10752	BALBIR ELECTRONICS PVT LTD
514	10761	RAZA EXPORTS PVT LTD
515	10767	M G ALLOYS AND CASTINGS PVT LTD
516	10781	H M WIRES PVT LTD
517	10788	S K VEHICLES PVT LTD
518	10794	A G ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
519	10801	NAFEES CABLES P LTD
520	10815	VALLABH ALLOYS PVT LTD
521	10818	MONAL EXPORTS PVT LTD
522	10833	SHARMA AND SHARMA SALES PVT LTD
523	10840	HIMALAYAN PURE WATERHOUSE LTD
524	10849	JAXANN TEXTILE EXPORT INDIA PVT LTD
525	10855	HINDUSTAN LEATHERITE P LTD
526	10864	SHARAN SPECIALITY PAPERS PVT LTD
527	10865	KARTAR ENTERPRISES PVT LTD
528	10867	DEEPS ACROWOOLS PVT LTD
529	10877	JAYCEE PRECISION CASTINGS PVT LTD
530	10884	SANROZ MILK FOODS LIMITED
531	10901	SYAL ALLOYS STEELS PVT LTD.
532	10904	BINDRA ISPAT LTD
533	10906	T R ALLOYS PVT LTD
534	10910	S J B CYCLES PVT LTD
535	10924	ARNATH TEXTILE MILLS PVT LTD
536	10926	SHARAT COTTON TRADERS AND PROCESSORS PVT LTD
537	10933	NOBLE HOUSE INDIA LTD
538	10941	P D HYDRO IRON PVT LTD
539	10945	SHAWETA FIBRES PVT LTD
540	10947	ALLIANCE PAINTS PVT LTD
541	10949	PHULSONS ELECTRICALS PVT LTD
542	10961	NAUSHEEN AUTOMOBILES PVT LTD
543	10962	OSWAL PALM INDIA LTD
544	10964	SHIVALIK INSULATION PVT LTD
545	10965	P H INFORMATION SYSTEMS PVT LTD

546	10969	ASHOKA WOOLGRIP AND FIBRES PVT LTD
547	10984	V V WIRES PVT LTD
548	10986	ZENITH KNITWEARS PVT LTD
549	10987	KIRAN CASTINGS PVT. LTD
550	10991	STANDARD COMBINE HARVESTOR PVT LTD
551	10998	GUPTA AND GUPTA LIAISON SERVICES PVT LTD
552	11000	PUNJAB SA ADVISERS PVT LTD
553	11001	PUN KIWI OIL CHEM PVT LTD
554	11002	UKRINE TOURS AND TRAVELS PVT LTD
555	11009	TIPS PHARMACEUTICALS PVT LTD
556	11016	B N ELECTRONIC SYSTEMS AND SERVICES PVT LTD
557	11018	EASE SANITATIONS PVT LTD
558	11020	MARSHAL FASTNERS PVT LTD
559	11030	MONGA PAPYRUS PRISMATICS PVT LTD
560	11038	OMPARKASH CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
561	11041	ESSEN CABLES LTD
562	11049	SURINDRA VIDEONIX PVT LTD
563	11050	P R POWER TOOLS INDIA PVT LTD
564	11053	SAMANA FEED MILLS LIMITED
565	11060	TANDON OVERSEAS PVT LTD
566	11068	BOSS EXPORTS PVT LTD
567	11073	MANSAROVER CHEMICALS PVT LTD
568	11075	SAHAI RIBBONS PVT LTD
569	11079	RAM WOOLLENS PVT LTD
570	11082	HERITAGE SPECIALITY PAPERS PVT LTD
571	11086	CHAMPION WIRES PVT LTD
572	11087	HARMAN STEELS PVT LTD
573	11092	JAY CONTRACTORS PVT LTD
574	11109	JAGRAJ COLD STORES PVT LTD
575	11110	DEEPEE CABLES AND VIDEO NETWORK PVT LTD
576	11111	AMRITSAR MOTORS PVT LTD
577	11125	BHULLER BUILDERS PVT LTD
578	11145	NORWEST LEATHER SHIPPING PVT LTD
579	11155	JAINSON MECHANICAL WORKS PVT LTD
580	11157	HIMACHAL LAND DEVELOPMENTS LTD
581	11171	N R COPPER INDIA PVT LTD
582	11175	NEW AGE AUTOMOBILES PVT LTD
583	11176	OYSTER PROPERTIES PVT LTD
584	11183	TOOR FARMS PVT LTD
585	11197	CONFORT FARMS PVT LTD

586	11198	DELHI DEPARTMENTAL STORES PVT LTD
587	11203	GAGAN COTTON OIL AND GENERAL MILLS PVT LTD
588	11221	ESNA NETWORKING SERVICES PVT LTD
589	11224	KIRTI FORGING AND CYCLE COMPONENTS PVT LTD
590	11235	B K CYCLES PVT LTD
591	11238	HIM POWER VISIONS PVT LTD
592	11251	HIMALYAN NIRMAN PVT. LTD.
593	11262	T S SPINNING AND TEXTILES MILLS PVT LTD
594	11263	HIGH TENSILE PRODUCTS PVT LTD
595	11266	KAY LEATHERS PVT LTD
596	11277	VIR INTERNATIONAL TRADERS PVT LTD
597	11292	FALCON BREEDERS PVT LTD
598	11301	SUNSTAR TYERS AND TUBES PVT LTD
599	11308	SATHIT AGRO PRODUCTS PVT LTD
600	11315	EXCEL FORMULATIONS PVT LTD
601	11317	K. R. STAMPINGS PVT. LTD.
602	11321	ALPINE CHEMICALS PVT LTD
603	11328	KLASS PAPER PRODUCTS PVT LTD
604	11338	NARBADA TRADERS PVT LTD
605	11350	IDLE WILD HOLIDAY RESORTS PVT LTD
606	11351	PARAMOUNT PHARMACEUTICALS PVT LTD
607	11355	ARCON ALLOYS PVT LTD
608	11378	SHARDA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
609	11399	GILL SURJIT ROADLINES PVT LTD
610	11403	GOLDEN ARROW CYCLES PVT LTD
611	11406	ANANT FERTILISERS AND METALS PVT LTD
612	11415	AVISHANKA INTER TRADES PRIVATE LIMITED
613	11425	DELTA DRUGS PVT LTD
614	11426	DELTA HEALTH CARE PVT LTD
615	11427	DELTA LABORATORIES PVT LTD
616	11438	ATITHI RESORTS PVT LTD
617	11443	DAMAN WOOLLEN MILLS PVT LTD
618	11445	SYNDICATE CASTINGS PVT LTD
619	11451	PANORAMA TOOLS PVT LTD
620	11457	SATYAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
621	11465	RAGHAV WOOLTEX PRIVATE LIMITED
622	11468	MALWA MOULDERS PRIVATE LIMITED
623	11469	AUTO SAFETY GLASS WORKS PRIVATE LIMITED
624	11470	H.K.TEXTILES PRIVATE LIMITED
625	11478	CITIZEN OVERSEAS LIMITED

626	11480	SUNIL SOAP PRIVATE LIMITED
627	11492	AANCHAL RESORTS PRIVATE LIMITED
628	11499	NAUNIDH TRADERS PRIVATE LIMITED
629	11511	MARVO EXPORTS PRIVATE LIMITED
630	11516	BAJWA ALLIED CEMENT INDUSTRIES LTD
631	11530	NOTA CEMENT AND CHEMICALS PVT LTD
632	11538	SIMPLEX INFOTECH PRIVATE LIMITED
633	11545	SAPTLOKI DURGA HOTELS PRIVATE LIMITED
634	11546	ELEGANT MERCANTILES PRIVATE LIMITED
635	11546	ELEGANT MERCANTILES PRIVATE LIMITED
636	11548	V N PACKING PRIVATE LIMITED
637	11573	ARUN POLY PACKS PRIVATE LIMITED
638	11584	COLONEL'S ESTATES PRIVATE LIMITED
639	11586	VERMA GLASS COMPANY PRIVATE LIMITED
640	11589	RGP FORGINGS PRIVATE LIMITED
641	11590	WONDER BREEDERS PRIVATE LIMITED
642	11602	BUTAIL HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
643	1608	R V FORGING PRIVATE LIMITED
644	1613	SIPKO PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
645	11617	DIWAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
646	1618	SAKSHI PIPES PRIVATE LIMITED
647	11619	OM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
648	1621	MANN MOTORS PRIVATE LIMITED
649	1633	LINK WINES PRIVATE LIMITED
650	1634	PANCHSHIKHA TOURIST RESORTS LIMITED
651	1650	AABHUSHAN EXPORT PRIVATE LIMITED
652	1659	PRITHIPAL SINGH CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
653	1662	MOGA RICE AND GENERAL MILLS INDIA PVT LTD
654	1664	VIPON OIL EXTRACTIONS PVT LTD
655	1682	SIMPLEX TEXTILE MILLS PVT LTD
656	1683	ADEEJ EXPORTS PVT LTD
657	1686	UTTAM FORGINGS PVT LTD
658	1694	GOLDEN TRIANGLE TOURISM PVT LTD
659	1700	TRIBHUVAN METALS LIMITED
660	1706	J S CASTINGS PVT LTD
661	1707	DOON BUILDERS PVT LIMITED
662	1708	TILAKPARKASH HOTELS PVT LTD
663	1709	HIMGIRI BUILDERS PVT LTD
664	1712	ANBROS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
665	1715	EROS FABRICATORS PVT LTD

666	11717	VIRINDERA REFINERIES PVT LTD
667	11720	PARAMOUNT SYSTEMS PVT LTD
668	11730	REKHI RESORTS PVT LTD
669	11731	WALIA HI-TECH FORGING PVT LTD
670	11736	RAIZO EXPORTS PVT LTD
671	11742	FLAG TECHNOLOGIES PVT LTD
672	11753	OSAHAN EXPORTS PVT LTD
673	11760	ZIRCON TOOL ROOM PVT LTD
674	11762	HI LIFT EQUIPMENTS PVT LTD
675	11765	R.M.A. CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
676	11771	S.M. CEMENT PVT LTD
677	11779	ACE COMMERCIAL CENTRE PVT LTD
678	11785	GAGAN ISPAT PVT LTD
679	11786	HIMSHIKHA STEELS PVT LTD
680	11792	LOVISH EXPORTS PVT LTD
681	11798	KITH EXPORTS PVT LTD
682	11809	MADHUR CANE PRODUCTS LTD
683	11813	RIAT BEARINGS PVT. LTD.
684	11825	MYSTIQUE LEATHER INDIA PVT LTD
685	11831	G B PAPER MILL PVT LTD
686	11838	PUNJAB MAHARASHTRA TRANSPORT COMPANY PVT.LTD.
687	11844	CLIFF PHARMACEUTICALS PVT LTD
688	11845	DEEPS COTTON SPINNING MILLS PVT LTD
689	11854	SOFT MART SALES PVT LTD
690	11855	AL-TALIB TRADING PVT. LTD.
691	11857	SIKKA KATYAL TEXTILES PVT LTD
692	11863	RED STAR HOTELS PVT LTD
693	11865	CONWEL CANS INDIA LIMITED
694	11870	MAHAJAN TENT HOUSE PVT LTD
695	11873	NITIKA CEMENTS LTD
696	11878	SCANDOSE PHARMACEUTICALS PVT LTD
697	11881	S G ROLLING MILLS PVT LTD
698	11890	ALFREDA RESORTS PVT LTD
699	11891	NOVA DISTRIBUTORS PVT LTD
700	11900	NEPTUNE FOODS LIMITED
701	11903	REAL VALUE AGRO ESTATES LIMITED
702	11910	ADESH DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD
703	11914	SAHIB CHEMICALS PVT LTD
704	11915	SIJAD ELECTRODS (INDIA) PVT. LTD.
705	11920	RANDHIR METAL EXTRACTIONS PVT LTD

706	11921	HOVERCRAFT MENSWEAR PVT LTD
707	11933	SADHAURA EXTRACTION PVT LTD
708	11944	EMM BEE PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS PVT LTD
709	11945	VARINDER ROBOTICS PVT LTD
710	11947	LINK BUILDERS LIMITED
711	11950	ANK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
712	11951	SHREE ATAM PAPER TUBES PVT LTD
713	11953	TEG ALLOYS PVT LTD
714	11954	NOOR PAPERS PVT LTD
715	11956	RAJDHANI ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
716	11973	SUTLEJ FIBRES PVT LTD
717	11999	M.C. STEEL WORKS PVT. LTD.
718	12007	SANSONS SWITCH GEARS PVT LTD
719	12011	CHANDI GASCHEM PVT LTD
720	12012	NAV DURGA ALLOYS PVT LTD
721	12017	GREWAL NORDIA SPRINGS LIMITED
722	12019	ICA OVERSEAS PVT LTD
723	12021	SCHWELLE ELECTRONICS PVT LTD
724	12030	AFTAB HOTELS PVT LTD
725	12031	TECTONICS OVERSEAS PVT LTD
726	12032	KAY FOOTWEARS PVT LTD
727	12041	SUN TEXTILE MILLS PVT LTD
728	12053	SAHIB METALFORMS LTD
729	12059	FAZILKA OILS PVT. LTD.
730	12060	ANJU CHEMICALS PVT LTD
731	12063	HIMGIRI MINERALS H P PVT LTD
732	12066	PUNJAB FOODS PRIVATE LIMITED
733	12082	BRS DIESEL ENGINES PVT LTD
734	12085	N G TRADERS PVT LTD
735	12087	DISEGNO OVERSEAS PVT LTD
736	12090	SURJIT PHARMACEUTICALS PVT LTD
737	12098	MANIKARAN FORGINGS PVT LTD
738	12099	CHAMPION AUTO SALES PVT LTD
739	12107	DASHMESH FAB YARNS LIMITED
740	12125	VEE AAR COMMERCIAL PVT LTD
741	12127	B R TOWER BUILDERS PVT LTD
742	12133	AGCO AUTOS PVT LTD
743	12141	SURYADEEP CHEM ISPAT PVT LTD
744	12143	HIMACHAL FRUITS WINES AND BEVERAGES PVT LTD
745	12145	GOLD LINE MILKFOOD PRIVATE LIMITED

746	012148	RAM SARUP SOLVEX PVT. LTD.
747	012153	AMBIKA BUSINESS COMMUNICATIONS PVT LTD
748	012154	J B TYRE AND TUBES PVT LTD
749	012157	KINGS MILAN VALLEY AND RESORTS PVT LTD
750	012175	BANSAL MOTORS PVT LTD
751	012181	HIGHLAND GARDEN AND HOTELS PVT LTD
752	012187	AGGARWAL STEEL COMPANY PVT LTD
753	012191	LE-GROUPE SECURIETE SYSTEMS PVT LTD
754	012193	SURJEET ENGINEERS AND FABRICTORS PVT LTD
755	012199	PUNJAB PHYTOCHEMICALS LTD
756	012202	GOODWILL MARKETING AND SERVICES LIMITED
757	012203	JRS ENTERPRISES PVT LTD
758	012213	SWANS AUTO WINGS PVT LTD
759	012215	ROYAL ADVERTISING PVT LTD
760	012222	NORTHERN CONTAINERS PVT LTD
761	012237	ABHU AUTOS PVT LTD
762	012240	CLASSIC ISPAT PVT LTD
763	012255	CHANDI PHARMACHEM PVT LTD
764	012264	ANIL CYCLES PVT LTD
765	012270	SWAGAT MARBLES PVT LTD
766	012272	GAGAN MARKETING PVT LTD
767	012277	MAHAVIR STRIPS PVT LTD
768	012279	KEI ELECTRICALS PVT LTD
769	012283	JETLEY IMPEX PVT. LTD.
770	012286	HOLY KNIT FAB PVT LTD
771	012293	RICH AND FAMOUS MARKETERS PVT LTD
772	012296	REKHI LEATHER PRODUCTS PVT LTD
773	012318	SHREE DEWAN EXPORT HOUSE LIMITED
774	012322	KAHAN CHEMICALS PVT LTD
775	012326	S D SHARMA AND ASSOCIATES PVT LTD
776	012334	SARVICK CYCLES PVT LTD
777	012346	KARTAR BOARDS PVT LTD
778	012363	DR. PARAMJIT MEDICAL TRADING COMPANY PVT LTD
779	012366	VANDANA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
780	012367	CHAMPION SPINNERS PVT LTD
781	012386	DOLPHIN CONDUCTORS PVT LTD
782	012390	BRIJESH PRINTERS PVT LTD
783	012393	NITIN SALES AND ESTATES PVT LTD
784	012399	DHARMINDRA ENGINEERING (INDIA) PVT LTD
785	012414	K.M.FOODS LIMITED



786	12416	AHLUWALIA HOSPITALS PVT LTD
787	12429	FLOREX CHEMICALS PVT LTD
788	12433	CENTURY SHEET METALS INDIA LTD
789	12438	SADANA MARKETING PVT LTD
790	12439	SATLUJ TREADS PVT. LTD.
791	12441	JAIKARAN ADVERTISING PVT LTD
792	12442	SNOWLINE ADVENTURE HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
793	12446	COLOMBO PHOTO COMPANY PVT LTD
794	12447	OM PAPER AND BOARD MILLS PVT LTD
795	12449	BIJLI MAHADEV ROPEWAYS PVT LTD
796	12450	NAUHRA MARBLES PVT LTD
797	12463	CHANDIGARH SECRETARIAL SERVICES PVT LTD
798	12465	AMIT TECHNICAL CONSULTANTS PVT LTD
799	12472	EIDER E COMMERCE LIMITED
800	12478	SEHGAL BROTHERS WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
801	12486	SUNNY ELECTRICALS PVT. LTD.
802	12506	AMRIT AIR SERVICES PVT LTD
803	12507	MUKTSAR POLY CLINIC AND RESEARCH CENTRE PVT. LTD.
804	12511	RAMA GINNERS PVT LTD
805	12520	WESTCOAST IMPEX PVT. LTD.
806	12544	TDK DRUG PHARMA PVT LTD
807	12561	SURYA KIRAN CASTINGS PVT LTD
808	12575	OPEX INDIA PVT LTD
809	12578	SILVER SCREEN MAGNETIC DIAGNOSTICS LTD.
810	12579	ADISHA SHOEPPING CENTRE PVT LTD
811	12583	JANTA COTTON AND FOODS PVT LTD
812	12584	HSK ALLOY STEELS LTD.
813	12588	KINGSTON HILL RESORTS PVT LTD
814	12593	AMAN FLORITECH PVT LTD
815	12596	SATNAM METAL WORKS LTD
816	12605	GEE KAY CABLES PVT LTD
817	12622	MAA BHAGWATI OILS AND FATS PVT LTD
818	12636	SPARK WIRES AND MACHINES PVT LTD
819	12637	NAVRATTAN STEEL STRIPS PVT LTD
820	12648	FARID PHARMACEUTICALS PVT LTD
821	12651	S P HOSPITALS PVT LTD
822	12653	THAPAR MINCHEM LIMITED
823	12656	DELTA CONDUCTORS AND NON FERROUS ALLOYS PVT LTD
824	12672	BEHLSON CASSETS PVT LTD
825	12680	PARDEY CHEM PRIVATE LIMITED

826	12682	PARAS REFRACTORIES PRIVATE LIMITED
827	12690	HELIX FASTNERS PRIVATE LIMITED
828	12694	NEELAM FORGINGS PRIVATE LIMITED
829	12696	FALCON T AND M ENTERPRISES PVT LIMITED
830	12697	DEERAS EXPORTS PRIVATE LIMITED
831	12700	SHIMLA EXPORTS PRIVATE LIMITED
832	12703	NIRMAL BUSINESS FORMS PRIVATE LIMITED
833	12704	HANS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
834	12722	PUNJAB SOLVENT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
835	12723	NABHA MINERALS PRIVATE LIMITED
836	12725	COMPOSITE CONSTRUCTIONMS PRIVATE LIMITED
837	12729	EROS ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
838	12731	SURYA POLYVIN PRIVATE LIMITED
839	12733	DAULAT RAM LEATHERS PRIVATE LIMITED
840	12789	BEDI PLASTS PVT LTD
841	12790	JDS ELECTRO-TECH PRIVATE LIMITED
842	12795	CHHABRA OIL MILLS PRIVATE LIMITED
843	12799	TOOR SPINNERS LIMITED
844	12811	PICRIC LIMITED
845	12813	T M T ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
846	12815	FECO PAPER AND MECH PRIVATE LIMITED
847	12823	LEGENDARY EXPORTS PVT LIMITED
848	12846	RADHA FORGINGS PVT LIMITED
849	12848	ATWAL SYNTHETICS LIMITED
850	12852	PICRIC EXPORTS PRIVATE LIMITED
851	12862	RADIX LABORATORIES LIMITED
852	12867	RAJPURA SOLVEX PVT LIMITED
853	12872	ROYAL GASES PVT LIMITED
854	12875	B S FATS AND GENERAL MILLS PVT LIMITED
855	12892	SIMBA IMPORT EXPORT PVT LIMITED
856	12895	MATESHWARI CONSTRUCTIONS PVT LIMITED
857	12898	SAHNI ESTATES PVT LIMITED
858	12908	SETH DETERGENT PRIVATE LIMITED
859	12910	SMILE ADVETISING AND FILMS PVT LIMITED
860	12912	ANMOL CABLES PVT LIMITED
861	12923	GREWALON CHEMICALS PVT LIMITED
862	12924	BASSI TRANSPORT COMPANY PVT LIMITED
863	12927	HIMACHAL COUNTRY RESORTS LIMITED
864	12931	BARNALA SHARE MERCHANTS PVT LIMITED
865	12933	RELIABLE BUS SERVICE PRIVATE LIMITED

866	12935	CITY PIPES PVT LIMITED
867	12936	JAI SAMBHAV PACKAGES PRIVATE LIMITED
868	12947	TRIDEV TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
869	12954	ARIHANT WOOLLENS PVT LTD
870	12956	BAJAJ FROZEN FRUITS AND VEGETABLES LIMITED
871	12958	PHILCON ELECTRICALS PVT LTD
872	12964	JAI GANESH YARN CENTRER PRIVATE LIMITED
873	12978	NONIE MAGNETIC MEDIA PVT LIMITED
874	12980	GAMMA DIAGNOSTIC AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
875	12981	VIRAM CEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
876	13000	SCEIWZ ORGANIC (HINDUSTAN) PVT LIMITED
877	13004	SOFT BRAIN COMPUTERS PVT LIMITED
878	13006	GRAND MARKETING PVT LIMITED
879	13008	R R BAKERS PVT LIMITED
880	13009	MOMAK ENGINEERS PVT LIMITED
881	13017	BAJAJ TOOLS PVT LIMITED
882	13020	SAGAR EQUIPMENTS PVT LIMITED
883	13033	GETWELL LABORATORIES PVT LIMITED
884	13036	DALER SINGH MINERALS AND CHEMICALS PVT LIMITED
885	13046	JULLUNDUR CHEMICALS PVT LIMITED
886	13053	SATNAM CHEMICALS PVT LIMITED
887	13064	SHEEL CHEMICALS PVT LIMITED
888	13072	SJM RUBBERS PVT LIMITED
889	13075	SEZ METALS PVT LIMITED
890	13082	TALWAR AND SOOD HOTELS PVT LIMITED
891	13083	ATTAR CEMENT COMPANY PVT LTD.
892	13089	ANANT HITECH ENGINEERS LIMITED
893	13091	OPTEK STEELS PVT LTD
894	13113	PACIFIC LABORATORIES PVT. LTD
895	13115	SURESH APPARELS PVT LTD
896	13123	QUEST COMPUTERS PVT LTD
897	13129	ANGURALA ESTATES PVT LIMITED
898	13130	TANGRI FABRICS PVT LIMITED
899	13135	SERWELL PHARMA AGENCIES PVT LTD
900	13147	GILSONS STEELS PVT LTD.
901	13155	LUCKY ENTERPRISES PVT LTD
902	13157	UNIQUE TELETRONICS PVT LIMITED
903	13162	HIGRADE FASTNERS PVT LTD
904	13173	ELLORA FINE FOODS PVT LTD
905	13186	OSWAL KNITTERS LTD

906	13192	MODESTO HOTELS AND RESORTS PVT. LTD.
907	13198	THIRD EYE VISION PVT LTD
908	13205	PUGMRKS COMMUNICATIONS PVT LTD
909	13216	GURU AMAR DASS TEXTILES PVT LTD
910	13221	AAR EMM PROCESSORS PRIVATE LIMITED
911	13223	SAMRA EMBRO TECH PVT LTD
912	13225	PRINCE LAMINATED BELTS PVT LTD
913	13227	SAHIL METAL AND SCRAP CONTRACTORS PVT LTD
914	13234	JAGYASU ENTERPRISES PVT LTD
915	13237	RAM KISHAN SHANLKAR DASS AGRO PVT LTD
916	13241	VISHWAS CEMENT PVT LTD
917	13245	SAHBI GAS SERVICE PVT LTD
918	13250	ACME TECHONOLIGIES NETWORK PVT. LTD.
919	13258	SHI SHAMBU STEELS PVT LTD
920	13263	TCL EMPLOYEES WELFARE COMPANY PVT LTD
921	13270	ROBET CYCLES LTD
922	13276	RAGHU IMPEX PVT LTD
923	13285	ROSEWELL CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD.
924	13288	MODELLA KNITWEARS LIMITED
925	13290	DR.KULWANT SINGH HOSPITALS PRIVATE LIMITED
926	13297	LANGLAY FAB ENGINEERS PVT LTD
927	13299	KSM METAL WORKS PVT LTD
928	13304	OM LAMPS PVT LTD
929	13327	CURIO CHEM PVT LTD
930	13334	RELIANCE MALLEABLE EXPORTS PVT LTD
931	13337	DHILLON OVERSEAS PVT LTD
932	13339	KRISHNA SHAWLS PVT LTD
933	13341	FIRGROVE RESORTS PVT LTD
934	13347	SHIVRAJ WIRES LIMITED
935	13355	SEHGAL RUBBERS PVT. LTD.
936	13360	ASHUTOSH PACKAGES PVT LTD
937	13371	JAY EMM TRACKS LIMITED
938	13383	CITY STEELS PVT LTD
939	13384	DARPAN TECHNO PLAST PVT LTD
940	13397	BROADWAY CYCLES PVT LTD
941	13398	GOLDEN AUTO EXPORTS PVT LTD
942	13422	SURYA ENERGY CENTRE PVT LTD
943	13427	URMIL TUBES PVT LTD
944	13431	AMBALA STORES PVT LTD
945	13433	BEE AAR ELECTRICALS PVT LTD

946	13434	VINTRON COMPUTERS PVT. LTD.
947	13436	RANA MEDICAL AGENCIES PVT LTD
948	13438	JULLUNDUR FREIGHT CARRIERS PVT. LTD.
949	13447	HAR GOBIND ESTATES PVT LTD
950	13455	GIRI LIME AND CHEMICAL PVT LTD
951	13467	AMRITSAR AUTOS PVT LTD
952	13468	PUNJAB KNITTERS LTD
953	13471	ARDAS COMPUTERS PVT. LTD.
954	13472	P.N.VERMA RUBBER AND CHEMICALS PVT LTD
955	13490	BLISS BOTANICS PVT LTD
956	13496	HIM AGRO PRODUCTS PVT LTD
957	13500	GMP MECHANICAL ENGINEERS PVT. LTD.
958	13510	BRITAINIA PAINTS PVT LTD
959	13518	PUSHPA FOODS PVT LTD
960	13525	PACIFIC PAPER PRODUCTS PVT LTD
961	13529	KRITI ENGINEERING PVT LTD
962	13545	BHISHAM PITAMMAH FINANCIAL CONSULTANTS PVT LTD
963	13550	KASTURI CHEMICALS PVT LTD
964	13551	FLOWMORE APPARELS PVT LTD
965	13559	ROHTANG WATERS PVT LTD
966	13560	MANRAJ MINTS PVT LTD
967	13562	SUPER STRIPS PVT LTD
968	13565	JANTA GASES PVT LTD
969	13570	KOCHAL CHEMICALS PVT LTD
970	13574	PERFECT TRANSPORT COMPANY PVT LTD
971	13577	SAI SPORTS AND FASHIONWEAR PVT LTD
972	13581	JERSEY KNITS PVT LTD
973	13582	C S G TEXTILE MILLS PVT LTD
974	13587	AMCO WHEELS PVT LTD
975	13593	SARDAR WOOLLEN MILLS PVT LTD
976	13598	OMCO POLYMERS PVT LTD
977	13600	MANGLAM FERRO PRODUCTS PVT. LTD.
978	13602	ANSARI FORGINGS PVT. LTD.
979	13615	N M WOOLLEN MILLS PVT LTD
980	13622	GOODWILL COSMETICS PVT. LTD.
981	13624	P K CEILINGS PVT LTD
982	13627	MUKTSAR ABOHAR TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
983	13631	OSHID PHARMACEUTICALS PVT LTD
984	13632	SRI SAI GUM PLASTIC TAPES PVT LTD
985	13633	AHUJA RUBBER PVT LTD

986	13634	HEERA KNITWEARS PVT LTD
987	13641	FRIENDS POLYPACK PVT LTD
988	13644	G.N.STEELS PVT LTD
989	13646	JAY BEE INDUSTRIES PVT LTD
990	13652	KIRAN OVERSEAS LIMITED
991	13653	SKYHIGH PHARMACEUTICALS PVT LTD
992	13658	VINIT LEATHER PVT LTD
993	13659	SHALIMAR CEILINGS PVT LTD
994	13674	GASOM GASES PVT LTD
995	13681	PENGUIN ORGANICS PVT LTD
996	13690	AANCHAL HOSPITALS PVT LTD
997	13698	MUDRA OVERSEAS LIMITED
998	13701	JMD MEDICAMENTS PVT LTD
999	13702	SHUBH STEEL ROLLING MILLS PVT LTD
1000	13704	UNITED ISPAT (HIMACHAL) ROLLING MILLS PVT. LTD.
1001	13708	SONATA EXPORTS LTD
1002	13712	SKYHAWK PLACEMENT AND PERSONNEL CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
1003	13718	SHIVA POTTERIES PVT LTD
1004	13730	BRILLANT COMPUTERS PVT LTD
1005	13736	GILL FARMS PVT LTD
1006	13739	NAGPAL EXPORTS PVT LTD
1007	13740	VIPPAN COTTONS PVT LTD
1008	13744	HAVEN BUILDERS PVT LTD
1009	13749	JAGUR IMPEX PVT LTD
1010	13756	TRIUNE AGRO FOODS LTD
1011	13758	L C OSWAL WOOLLENS PVT LTD
1012	13761	VARDHMAN LAMINATORS PVT LTD
1013	13770	MANGAT RAI RADHEY SHYAM JAIN JEWELLERS PVT LTD
1014	13775	CLASSICAL TUBES PVT LTD
1015	13778	PARAMJIT CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1016	13782	REWALSAR RESORTS PVT.LTD.
1017	13787	SUDHA MONA FILAMENTS NIWAR PVT LTD
1018	13801	BISVAMBRO WIRE KNITTING PVT LTD
1019	13803	ZENISH MACHINEKRAFT PVT LTD
1020	13808	VEESHA BOXES PVT LTD
1021	13820	SHIROMANI PAPERS PRIVATE LIMITED
1022	13821	OKASA PETROLEUMS PVT LTD
1023	13833	BINDAL FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1024	13837	TOYO ROFFE DRUGS PRIVATE LIMITED
1025	13847	EURO IMPEX AND ESTATES PRIVATE LIMITED

1026	13849	ABHIR SURVEYOURS ANS LOSS ASSESSORS PVT LTD
1027	13862	CEREBRA INFORMATION SYSTEMS PVT LTD
1028	13865	MILLER ENGINES PVT LTD
1029	13866	KRONE CYCLES PVT LTD
1030	13874	SHRIDI SAI PRINTERS PVT LTD
1031	13878	SAPURI EXPORTS PVT LTD
1032	13879	BHARTI TELENET LIMITED
1033	13888	DEESONS PETRO GASES PVT LTD
1034	13904	AMRITSAR FASTNERS PVT LTD
1035	13929	SHIV SPINNERS LTD
1036	13934	FREEDOM CYCLE COMPANY PVT LTD
1037	13940	KUTHIALA ENTERPRISES PVT. LTD.
1038	13944	A M FINANCIAL SERVICES LIMITED
1039	13950	INCARE MEDI SURG PVT LTD
1040	13951	ADHUNIK STEELS AND WIRES PVT LTD
1041	13956	BOB SALES PVT LTD
1042	13958	BALLUANA CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1043	13964	G TEX DYEING AND PRINTING MILLS LTD
1044	13982	ROADMASTER EXPORTS PVT LTD
1045	13986	LASERTECH GRAPHICS PVT.LTD.
1046	13987	SWAMI PROPERTY CONSULTANTS PVT. LTD.
1047	13993	GURU KRIPA FABRICS PRIVATE LIMITED
1048	13994	ZIMIDARA SEEDS PVT LTD
1049	13999	GUPTA KEROSENE OIL PVT LTD
1050	14006	SHEETAL FABRICATORS PVT LTD
1051	14015	VIPIN VANASPATI PVT LTD
1052	14030	MALWA IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
1053	14032	KIRAN GASES PVT LTD
1054	14035	M F TYRES LTD
1055	14052	R M RUBBERS PVT LTD
1056	14055	S.B.R. CERAMICS PVT.LTD.
1057	14065	P C POINT INFOTECH PVT LTD
1058	14066	DELTA FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1059	14068	KISRAJ OVERSEAS PVT LTD
1060	14073	EAGLE TYRES PVT LTD
1061	14075	VALENTINE EXPORTS AND MARKETING PVT LTD
1062	14076	SHRE JAGDAMBHEY STEEL TUBES PVT LTD
1063	14088	NANAK NETS AND FABRICS PVT LTD
1064	14100	GOLDEN WAVES ADVERTISING LTD
1065	14109	BHANOT SOLVEX PVT LTD

1066	14118	PARAS CONTAINERS PVT LTD
1067	14121	PUNWIRE MOBILE COMMUNICATION LIMITED
1068	14133	SHUVAL WOOLLEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1069	14137	VIKAS INFORMATIC SYSTEMS PVT LTD
1070	14138	B TARUN POLY INDIA PVT LTD
1071	14140	BINDAL POLYVIN LTD
1072	14141	SAMANA FORGE PVT LTD
1073	14147	HIMSON FORGING PVT LTD
1074	14150	POWER KING ELECTRO STAMPINGS PVT LTD
1075	14152	KOG INNS PVT LTD
1076	14156	MANI MEDICARE SYSTEMS PVT LTD
1077	14159	ADISHWAR SPINNERS LTD
1078	14173	NAPA PAPERS LTD
1079	14177	AARTI GASES PVT LTD
1080	14195	ZENIS AUTO PVT LTD
1081	14199	UNIQUE SHOES PVT LTD
1082	14216	A R HOTELS PVT LTD
1083	14221	OMEGA AUTO CBLES PVT LTD
1084	14227	INDERSONS STEEL FORGE PVT LTD
1085	14239	K.L. MALHOTRA DYEING AND SPINNERS PVT LTD
1086	14240	DEEPSHIKHA CHEMICALS PVT LTD
1087	14244	RUBROO MADURMILAN HOTEL PVT LTD
1088	14247	SARRUS EXPORTS PVT LTD
1089	14250	D G FOODS PVT LTD
1090	14261	INNOVATION EDUCATION SYSTEM COMPUTER DROME PVT LTD
1091	14276	NEEL TUBES PRIVATE LIMITED
1092	14278	P S SILK MILLS PVT LTD
1093	14281	COMMITMENT IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD
1094	14286	SARAI AUTOELECTRIC PVT LTD
1095	14300	PROFAB SYSTEM ENGINEERING PVT LTD
1096	14321	R P SYNTHETICS PVT LTD
1097	14322	SILVER BUILDERS PVT LTD
1098	14326	SUKHANA INFOMECH PRIVATE LIMITED
1099	14328	SS YARNS PVT LTD
1100	14330	SATNAM SPINNING PVT LTD
1101	14333	A M COIRS LIMITED
1102	14336	PUNJAB ZINC PVT LTD
1103	14357	HIMACHAL CHLOROCEM PVT LTD
1104	14364	VOLTEX ELECTRICAL ENGINEERS PVT LTD
1105	14365	MALERKOTLA WELDING ELECTRODES PVT LTD



1106	14369	NEPTUNE FINANCIAL AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
1107	14379	GDR WATCHES PVT LTD
1108	14389	NAVAX PHARMACEUTICALS PVT LTD
1109	14390	AZAAD ENTERPRISES PVT LTD
1110	14401	VISHNU SALES PVT LTD
1111	14409	GEE ESS KAY DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD
1112	14415	KHANNA COMBERS PVT LTD
1113	14429	PENGUIN COMPUTERS PVT LTD
1114	14436	JINDAL MICRO CIRCUITS PVT LTD
1115	14439	ANJUMAN DRUGS LIMITED
1116	14444	CAPITAL POLYSACKS PVT LTD
1117	14447	VIDYUT SPARES AND CASTINGS PVT LTD
1118	14452	K G DYEPRO PVT LTD
1119	14474	KARNAL RUBBER PVT LTD
1120	14492	PARADISE FORGINGS PVT LTD
1121	14494	NACHIKETA EXPORTS PVT LTD
1122	14510	DHIMAN COACH BUILDERS PVT LTD
1123	14516	BILASPUR ESTATES PVT LTD
1124	14522	K V AUTO LTD
1125	14523	DR. BALDEV SINGH DR JOGINDER SINGH MEMORIAL CLINIC PVT LTD
1126	14526	INDO LPG BOTTLING PLANT LTD
1127	14533	SUKHMANI EXPORTS PVT LTD
1128	14540	MOHALI CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1129	14542	AMRIT WEAVING AND SPINNING COMPANY PVT LTD
1130	14555	LIBERTY HOSIERY MILLS PVT LTD
1131	14556	SUPRIYA RUBBERS PVT LTD
1132	14590	KARMANN KRAFTS PVT LTD
1133	14591	FASCINATION EXPORTS PVT LTD
1134	14609	JBR HEAVY ENGINEERING PVT LTD
1135	14616	MRM IMPORTER AND EXPORTER PVT LTD
1136	14618	PILLSBURY FOODS PVT LTD
1137	14619	GIRIVAR CEMENTS PVT LTD
1138	14621	SILVERLINE AUTOMOBILES PVT LTD
1139	14622	LUDHIANA ENVIRONMENT RESEARCH CENTRE PVT LTD
1140	14632	BANARSI DAIRIES PVT LTD
1141	14635	PERFECT AGRO MILLS PVT LTD
1142	14640	MOON COMFORT HOTELS PRIVATE LIMITED
1143	14642	TECAD PHARMA PRIVATE LIMITED
1144	14668	HOPEWELL HOTELS AND RESORTS LTD
1145	14675	MTE ENVIRONMENTAL LTD

1146	14680	SOALTEE INDUSTRIES PVT LTD
1147	14682	RAVISON FOODS PVT LTD
1148	14686	ARIHANT KNITTINGS PRIVATE LIMITED
1149	14696	GMT FUEL BRIQUETTES PVT LTD
1150	14704	FAROOQI WIRES PVT LTD
1151	14708	VATS IMPEX PVT LTD
1152	14712	HELPLINE PRIVILEGES AND SERVICES LIMITED
1153	14720	RIAR LPG BOTTLING PLANT PVT LTD
1154	14721	NOVEL AGRO FOODS PVT LTD
1155	14723	DEEPAK DYEING AND FINISHING MILLS PVT LTD
1156	14725	LUDHIANA COMMUNICATION NETWORK PVT LTD
1157	14727	MULTI CHANNEL EXPORTS PRIVATE LIMITED
1158	14732	MANGLA COTEX LIMITED
1159	14735	VITAL REMEDIES PRIVATE LIMITED
1160	14738	AMBAJI FATS AND OILS LIMITED
1161	14739	KAMSAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
1162	14742	VARUN AGRO APPLIANCES PRIVATE LIMITED
1163	14745	BEDI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1164	14760	RANJIT HAMMERS PRIVATE LIMITED
1165	14761	VICTORY CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1166	14763	RANSUN EXPORT PRIVATE LIMITED
1167	14767	RAJEEV POULTRIES PRIVATE LIMITED
1168	14772	ROYAL COSMIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1169	14775	SUN CHASER HOSIERY MILLS PVT LTD
1170	14778	MAHA KALI PROCESSORS LIMITED
1171	14781	K.R.DYE STUFF PVT.LTD.
1172	14785	BACHAN EXPORTS PVT LTD
1173	14798	CITIZEN FORGE LTD
1174	14803	EPS INTERNATIONAL PVT LTD
1175	14806	KANGARO METAPLAST PVT LTD
1176	14807	LIBERTY PLACEMENT SERVICES LTD
1177	14808	POWER SPORTS PVT LTD
1178	14809	HIM AANCHAL RESORTS AND HOTELS PVT LTD
1179	14812	TRAVLINX TRAVELS PVT LTD
1180	14814	GAGAN FEED MILLS PVT LTD
1181	14816	MULTIPLE TECHNO EXPERTS PVT LTD
1182	14827	SWADESHI IMPEX PVT LTD
1183	14828	SHREE OM PAPER MILLS PVT LTD
1184	14835	BARON BREWERIES PVT LTD
1185	14843	UNIQUE EXPRESS SERVICE PVT LTD

1186	14858	B.R.COMPUTERS PVT LTD
1187	14871	YORK DRUGS AND COSMETICS LTD
1188	14885	ELEGANT MEDIA SERVICES PVT LTD
1189	14888	GOLDLINE DISTILLERS AND BREWERS PVT LTD
1190	14890	MERIDIC AGENCIES PVT LTD
1191	14904	SPRINA KNITS LTD
1192	14921	S T PAPER MILLS PVT LTD
1193	14929	AMBER SUKHANA COMPONENTS PVT LTD
1194	14931	JINNI PROJECTS PVT LTD
1195	14937	BHAGWATI ALLOYS PVT LTD
1196	14943	NEW TIMES MEDIA SYNDICATION PVT LTD
1197	14954	SONA IMPEX PVT.LTD.
1198	14957	PROTEUS FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
1199	14975	BANSAL CEMENT COMPANY PVT LTD
1200	14988	SHIVALIK BAKERY PVT LTD
1201	14997	SIMAR CYCLES PVT LTD
1202	15000	ARORA CON-CAST PVT.LTD.
1203	15002	H S ESTATES AND CONSTRUCTIONS PVT LTD
1204	15003	MOVIES PVT LTD
1205	15005	BHASKAR INDIAN AYURVEDIC PRODUCTS PVT LTD
1206	15006	VICTORY FOODS PVT.LTD.
1207	15011	UNISON CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED
1208	15016	JAIN VIDYUT PVT LTD
1209	15018	MENARINI RAUNAQ PHARMA LTD
1210	15032	NORTH POINT MEDI SALES PVT LTD
1211	15033	NORTH AQUA PVT LTD
1212	15038	ACME PIPES PVT LTD
1213	15061	DARVIRK ENGINEERS PVT LTD
1214	15066	SHIVAM SURGICALS PVT LTD
1215	15067	JASMINE RESORTS PVT LTD
1216	15073	GRACE TRIMEX INDIA PVT LTD
1217	15084	SUNDUTTA STEEL ALLOYS LTD
1218	15085	VINOD RIMS (INDIA) PVT.LTD
1219	15089	SANSON ENTERPRISES PVT LTD
1220	15092	DYNAMIC REMEDIES PVT LTD
1221	15095	SEHGAL FABRICS PVT LTD
1222	15101	MAMTA LAMINATES AND COLOURS PVT LTD
1223	15113	R S GREWAL HOSPITAL AND NURSING HOME PVT.LTD.
1224	15114	JINDAL POULTRIES LTD
1225	15122	STANDARD PHARMA CHEM PVT LTD

1226	15128	ATAM CONES PVT LTD
1227	15139	AAY HOTELS AND RESTAURANTS PVT LTD
1228	15141	SARAFINA PLASTICS PVT LTD
1229	15144	ALTEC CASTINGS PVT LTD
1230	15167	PEE GEE TRADERS PVT LTD
1231	15179	ACME KITCHENMATE APPLIANCES LTD
1232	15180	LASO EXPORTS PVT LTD
1233	15189	SILVER APPARELS AND EXPORTS PVT LTD
1234	15195	ANNPURNA LPG BOTTLINGS PVT LTD
1235	15205	ARORA FURNACE LTD
1236	15220	ARUJ ENGINEERING PVT LTD
1237	15228	PARAM TOOLS PVT LTD
1238	15237	PEARL FATS AND OILS PVT LTD
1239	15258	KAISER HOSPITAL LTD.
1240	15263	YATI ALLOY STEELS PVT LTD
1241	15276	JAISWAL AUTO INDIA PVT LTD
1242	15296	MANKOO MACHINE TOOLS PVT LTD
1243	15303	PUNJAB FOAMS PVT LTD
1244	15304	MANSHAHIA AND MANSHAHIA HOTELS PVT LTD
1245	15306	A D A PIPE FITTINGS PVT LTD
1246	15315	JAGRAON SOLVEX PVT LTD
1247	15332	SEERA EXPORTS AND TEXTILES PVT LTD
1248	15333	SATGURU PROCESSORS PVT LTD
1249	15338	BESTWAY ENTERPRISES PVT LTD
1250	15342	SATYAHANS MARKETINGS PVT LTD
1251	15349	TANTALUM COMMUNICATIONS LTD
1252	15359	P C ELECTRONICS PVT LTD
1253	15373	IMMEMORIAL INSTITUTE OF COMPUTERS PVT LTD
1254	15374	BRAHM LABORATORIES LTD
1255	15382	SABBY LAND HOLDINGS PVT LTD
1256	15383	MONAL LAND HOLDINGS PVT LTD
1257	15384	REHMAT BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
1258	15386	JOSH EXPORTS PVT LTD
1259	15398	GURBAKSH SPINNING MILLS PVT LTD
1260	15404	RETREAT HOLIDAY VILLAGE PVT LTD
1261	15405	CLASSIQUE KNITFAB PRIVATE LIMITED
1262	15407	PRASAD HERBO MINERALS INDIA LTD
1263	15409	KHURANA TRAVELS PVT LTD
1264	15411	GEE TEE DRESSES PVT LTD
1265	15416	NANAKSAR AUTO PVT LTD

1266	15420	AMRITSAR INDIRECT TAXATION CONSULTANTS PVT LTD
1267	15425	PARVEEN KNITWEARS PVT LTD
1268	15429	SHRISHTI REFINERY LTD.
1269	15433	SUN ROSE GLOBAL LTD
1270	15434	ORBIT FINE CHEM PVT LTD
1271	15448	JAINSONS SOAPS AND DETERGENTS PVT LTD
1272	15458	PACIFIC ADVERTISERS PVT LTD
1273	15459	ASEEM PROJECT AND MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
1274	15460	CONCEPT COACH INDIA PVT LTD
1275	15464	SURAJ POULTRIES PVT LTD
1276	15465	SINDHU HATCHERIES PVT LTD
1277	15473	SHIVA GROUNDWATER PIONEERS PVT.LTD.
1278	15485	MEDIPRUDENT PHARMA PVT LTD
1279	15486	BROADWAY PACKERS PVT LTD
1280	15493	ESS PEE AD EXPRESSIONS PVT LTD
1281	15502	CHAKAR KNITS (INDIA) PVT LTD
1282	15504	BANAK CHEMICALS AND PACKAGING LTD
1283	15515	EKTA APPLIANCES PVT.LTD.
1284	15519	SUNLINE HARDWARE PVT LTD
1285	15520	BHAGRA RESORTS PVT LTD
1286	15528	BEDI AUTOMOBILES LIMITED
1287	15547	SHREE BHAWANI COTTON MILLS AND INDUSTRIES LIMITED
1288	15552	PALI SHOES PVT LTD
1289	15555	ULTRA VISION DIAGNOSTIC PVT LTD
1290	15559	H.V.EXPORTS (INDIA) PVT LTD
1291	15572	GANPATI COTEX LTD
1292	15575	P.S.COTTON MILLS PVT LTD
1293	15580	PUNJAB MICRO PLANTAE LTD.
1294	15588	HNG CONSULTANTS PVT LTD
1295	15597	BAJWA RICE MILLS LTD
1296	15599	BAXCIP PHARMA PVT.LTD.
1297	15609	SIM CONTAINERS PVT LTD
1298	15618	CORPORATE CASTINGS PRIVATE LIMITED
1299	15625	NEW DELHI COACHES AND TOURS PVT LTD
1300	15631	SWASTIK ART PRESS PVT LTD
1301	15635	KUL PARTAP FOOD PVT LTD
1302	15639	REXEL MACHINES INDIA PVT LTD
1303	15640	SAPPHIRE SOFTWARES INDIA PVT LTD
1304	15641	DUREJA EXPORTS LTD
1305	15650	SARASWATI PROCESSORS PVT LTD

1306	15662	TRICON AUTOMAT PVT LTD
1307	15666	RAJA PHARMACEUTICALS LTD.
1308	15672	SWASTIKA PROTEINS PVT LTD
1309	15678	AVR TECHNOPLAST PVT LTD
1310	15720	SHAKTIMAN ALLOYS PVT LTD
1311	15723	PUNWIRE TRUNKING SERVICES LTD.
1312	15724	PUNWIRE ELECTRONIC COMMERCE AND INTERNET LIMITED
1313	15730	GIAN RESORTS AND RESTAURANTS PVT LTD
1314	15741	LIFETREE CONVERGENCE LIMITED
1315	15760	G C ALLOYS PVT LTD
1316	15775	VAN INTEL SYSTEMS PVT LTD
1317	15777	SUMIT PIPES PVT LTD
1318	15792	ALPINE PAPERS PVT LTD
1319	15795	GOGO AUTO PVT LTD
1320	15806	ASEEM COTSPIN PVT LTD
1321	15813	MATA NAINA DEVI SPINNING MILLS LTD
1322	15821	JINDAL COMPLEXES LTD
1323	15825	HAPSON EXPORTS PVT LTD
1324	15828	H S ANAND CONSTRUCTIONS PVT LTD
1325	15830	JAINA RASAYANS AND ACITICS PVT LTD
1326	15832	VERNE CONSTRUCTIONS PVT LTD
1327	15834	PARKASH BRIQUETTS PVT LTD
1328	15843	MUKHMAILPUR GASES PVT LTD
1329	15846	AAR KAY WOOLTEX LTD
1330	15851	NARESH INFOSYS LTD
1331	15853	CAD DIES AND GRAPHICS PVT LTD
1332	15855	BHAGWATI CARBON AND CHEM TECH PVT LTD
1333	15858	B.R. COMBERS PVT LTD
1334	15862	DASHMESH TELECOM SERVICES LTD
1335	15863	PUNJAB AUTO STORES PVT LTD
1336	15866	SANGHERA IMPEX PVT LTD
1337	15872	INFONET ELTECH LTD
1338	15873	JET RECORDERS PVT LTD
1339	15887	FEROZ GENERAL HOSPITAL PVT LTD
1340	15891	WHITE HAVEN TEA COMPANY PVT LTD
1341	15894	MANDHIR TYRE CENTRE PVT LTD
1342	15899	BHOM PROPERTIES PVT LTD
1343	15919	SCHNELL EDGE TOOLS PVT LTD
1344	15921	SANTA CLAUS APPARELS PVT LTD
1345	15925	SANT ESTATE AND CONSTRUCTIONS PVT LTD

1346	15939	MODEL MEDICOS PVT LTD
1347	15941	SURESH FASTENERS PVT LTD
1348	15954	SAHNI STEEL AND FORGING PVT LTD
1349	15955	JAWANDA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1350	15958	LIBERTY AGRO AND MILK FOODS LTD
1351	15969	AMARJIT INDUSTRIAL INFORMATION CENTRE PVT LTD
1352	15979	ANDEEP EXPORTS PVT LTD
1353	15986	PACE APPARELS LTD
1354	15988	ANMOL WEIGHTS PVT LTD
1355	15992	INDER SINGH AND SONS TOOLS PVT LTD
1356	15993	KADDY FUN RESORTS PVT LTD
1357	15996	ANANTVIR CASTINGS PVT LTD
1358	16014	LASKO GEARS PVT LTD
1359	16027	ZEUS TRADELINKS PVT LTD
1360	16038	G B CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1361	16050	MHS CASTINGS PVT LTD
1362	16058	PARVATI CASTINGS PVT LTD
1363	16059	CONCEPT INDUSTRIAL PROJECTS CONSULTANTS PVT LTD
1364	16061	PAL POWER CONTROLS COMPANY PVT.LTD.
1365	16063	GROVER AUTO INDUSTRIES LTD
1366	16067	GROWEL FOODS LIMITED
1367	16072	T J DEVELOPERS AND BUILDERS PVT LTD
1368	16078	JAI MATA ELECTRONICS PVT LTD
1369	16082	COMTRON ENTERPRISES PVT LTD
1370	16086	PARTEEK STEELS PVT.LTD.
1371	16090	GOLDEN COMMUNICATIONS LTD
1372	16091	GOLDEN HANDLOOM LTD
1373	16093	GOLDEN DISTRIBUTORS LTD
1374	16094	GOLDEN CONTRACTORS LTD
1375	16095	GOLDEN KNITFAB LTD
1376	16098	GOLDEN ASHIANA MAKERS LTD.
1377	16101	R A ALLOYS PVT LTD
1378	16102	SWAPI MARKETING PVT.LTD.
1379	16113	T R PAPER MILL LTD
1380	16121	G AND A GARMENTS PVT LTD
1381	16200	PUJANI FOREST AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1382	16205	SELFORT GARMENTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1383	16208	PEEJAY AUTOTRACK PRIVATE LIMITED
1384	16224	RAJ TECHNO COLOURS PRIVATE LIMITED
1385	16226	LUDHIANA TELECOM PRIVATE LIMITED

1386	16241	KULWANT KNITWEARS PRIVATE LIMITED
1387	16249	UNITECH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1388	16252	UNIVERSAL FASHIONS PRIVATE LIMITED
1389	16257	SUN CITY BUILDERS AND PROMOTORS PRIVATE LIMITED
1390	16258	PAHWA TEXTILES PRIVATE LIMITED
1391	16260	SACHDEVA TEXTILES PRIVATE LIMITED
1392	16269	G TEX FABRICS PRIVATE LIMITED
1393	16282	NANAK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1394	16285	SUMIT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1395	16292	HARE KRISHAN COLOR LAB PRIVATE LIMITED
1396	16298	ALPINE FLORITECH LIMITED
1397	16304	C.R.EXPORTS PRIVATE LIMITED
1398	16308	RATTAN CLOTH HOUSE PRIVATE LIMITED
1399	16314	DARISHTI HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1400	16325	PARMOD BUILDERS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1401	16326	PUSHPANJALI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1402	16339	ATIT CARPETS PRIVATE LIMITED
1403	16362	SIDHU COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1404	16378	AMV POLYMERS PRIVATE LIMITED
1405	16381	LAXMI FASTNERS LIMITED
1406	16383	FAMILY NEST FASHION FAIRS PRIVATE LIMITED
1407	16386	SARDAR EXPORTS LIMITED
1408	16391	DEEPIKA ALLOYS PRIVATE LIMITED
1409	16392	DAHELE STEELS PRIVATE LIMITED
1410	16396	NIRMAN STEEL PRIVATE LIMITED
1411	16410	BHARDWAJ CERAMICS PRIVATE LIMITED
1412	16412	SARASWATI ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
1413	16415	PARAS HARDWARES PRIVATE LIMITED
1414	16419	AMARJIT PULP AND BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
1415	16427	LUDHIANA CITY CHANNEL PRIVATE LIMITED
1416	16429	ASHIRWAD DIAGNOSTIC AND CURE CENTRE PRIVATE LIMITED
1417	16430	PREMA KNITFAB PRIVATE LIMITED
1418	16438	MANJEET AUTOS PRIVATE LIMITED
1419	16447	FRIENDS WIRES AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1420	16457	NORTHERN BIKES PRIVATE LIMITED
1421	16460	PRETTY AGRO INDUSTRIES LIMITED
1422	16462	KAMLA DAEJO IMPEX LIMITED
1423	16477	SATGUR AUTO PRIVATE LIMITED
1424	16481	K K FASTNERS PRIVATE LIMITED
1425	16492	MALWA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED



1426	16498	BIO VISION LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1427	16515	TRANS INDIA CARGO AND COURIERS PVT LTD
1428	16517	PANGLI CEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
1429	16526	SINGLA FUEL CO. PRIVATE LIMITED
1430	16529	ISIR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1431	16530	IRA MARKETING PRIVATE LIMITED
1432	16531	GOLDEN HEALTH CARE LIMITED
1433	16533	ESA HOTELS PRIVATE LIMITED
1434	16546	SIROWAL TEXTILES PRIVATE LIMITED
1435	16547	RAISON RESORTS LIMITED
1436	16548	UNI PETRO GASES PRIVATE LIMITED
1437	16554	BIMCO GASES PRIVATE LIMITED
1438	16579	R.S.TUBEWELL AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1439	16581	JAYSON CEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
1440	16582	FCRD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1441	16592	JOLLY JEWELLERS PRIVATE LIMITED
1442	16593	SHREE VIKRAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
1443	16596	ESTEEM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1444	16600	AMRIT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1445	19349	V CARE HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
1446	29152	TRECO CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

( K C Meena )  
Asstt. Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Ahmedabad-380 013, the 15th May 2007

No. ROC/JTA/(KH)SES-25/20077.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sr. No.	Regn. No. of the Company	Name of the Company
1	04-34142	Jupiter Intermediates Pvt. Ltd.
2	04-17691	Marfin Minerals Pvt. Ltd.
3	04-24970	Savita Govind Finance Ltd.
4	04-35561	Kataria Financial Services Pvt. Ltd.
5	04-24681	SDJ Securities Ltd.
6	04-24883	Sudarshan Fats And Protein Exports Ltd.
7	04-24897	Akash Sheltar And Finestock Ltd.
8	04-24898	Green Social Projects Finstock Ltd.
9	04-24940	Oswal Gruh Nirman Ltd.
10	04-24290	PHA Lease And Finance ( I ) Ltd.
11	04-24919	Kachchh Housing and General Finance Ltd.
12	04-24918	Crescendo Exports Ltd.
13	04-24914	B.Kumar Overseas Ltd.
14	04-24855	Peacock Paints And Colourchem Ltd.
15	04-24911	Charbhuj Impex Ltd.
16	04-24909	Ken Gold Hypro Foods Ltd.
17	04-24903	Rolltech Metals and Steel Ltd.
18	04-24903	Passim Finance Ltd.
19	04-24973	Metal Leasing And Finance Ltd.
20	04-24954	Hitwardhak Cotton Industries Ltd
21	04-24873	Sankala Lease Finance Ltd.
22	04-24968	Milkorish Dairy Ltd.

23	04-24848	Maha Power Ltd.
24	04-24862	Essenttal Agro Dairy Farm Ltd.
25	04-37011	Camp Aviation And Exports Pvt. Ltd.
26	04-37011	Megasys Infonet Pvt. Ltd.
27	04-36545	Trilogics Infotech Pvt. Ltd.
28	04-46899	Bluestream Technologies Pvt. Ltd.
29	04-24896	Cure Spects Lasers Ltd.
30	04-24893	Hillmens Agro ( India ) Ltd.
31	04-24890	Amipadma Housing and Finance Ltd.
32	04-24887	Sheetal Specialities Ltd.
33	04-24886	Alishan Foods Abn Finance Ltd.
34	04-24885	Mega Metachem Ltd.
35	04-24868	Mass Tele -Films Ltd.
36	04-24839	Kalashree Constructions Ltd.
37	04-24837	P.N.Trading and contracting co. ltd.
38	04-24836	P.N.Finstock Ltd.
39	04-24835	Advance Savings And Investment India Ltd.
40	04-24831	Bhavna Securities Ltd.
41	04-24822	Valer Filamenproof Equipments Ltd.
42	04-24820	Partch Securities Ltd.
43	04-24814	Cast-West Finstock Ltd.
44	04-24811	Ronak Infin And Traders Ltd.
45	04-24801	Zilmil Finance Ltd.
46	04-24794	Jenburkt Gases Ltd.
47	04-24771	Gokul Industries Ltd.
48	04-24762	Multi Media Software Ltd.
49	04-24773	Parekh Aluminium Company Ltd.
50	04-24993	Rids Finstocks Ltd.
51	04-24023	Avinash Information Technologies Ltd.
52	04-25038	Siddharth Securities ( India ) Ltd.
53	04-25032	Monarch Housing Finance Ltd.
54	04-25059	Alfa Finance Ltd.
55	04-25070	Grace Dye-Chem Impex Ltd.
56	04-25071	Rajsahyog Finance Ltd.
57	04-25075	GDR Securities Ltd.
58	04-01610	Vivitsu Investments Ltd.
59	04-25226	Vardhman Capital And Financeial Services Ltd.
60	04-25119	Aanaaaaaaaaaaqrt Agrochem Ltd.
61	04-25096	Arcadia Agrochem Ltd.
62	04-25138	Einerging Markets Stock Broking Ltd.
63	04-25142	Sanail Packaging ( India ) Ltd.
64	04-25139	Rejtilak Metals Ltd.
65	04-25123	Rainbow Computers Ltd.
66	04-25206	Joisar Estate And Securities Ltd.
67	04-25034	Monarch Agro Overseas Ltd.
68	04-24992	Tulsi Foods Ltd.
69	04-18909	Aketa Finvest Pvt. Ltd.
70	04-32526	Arun Dyestuff Pvt.Ltd.
71	04-27621	Sweta Finstock Pvt. Ltd.
72	04-32527	Alpesh Machinery Pvt. Ltd.

73	04-2970	Dutta Chemicals Pvt. Ltd.
74	04-33245	Gopal Welding Cables Pvt. Ltd.
75	04-33289	Safal Marketing and Finance Ltd.
76	04-24480	Taj Gymkhana Pvt. Ltd.
77	04-23495	Metrochem Securities Pvt., Ltd.
78	04-36663	Bright Stock Holding & Securities Pvt. Ltd.

s

( V.K.KHUBCHANDANI )  
REGISTRAR OF COMPANIES, GUJARAT.

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Hariom Tradelink Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 21st May 2007

No. 04-34374 ROC/JTA/(KH) U/s. 560(3)2007/1969.—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Hariom Tradelink Private Limited unless cause is shown to the contrary, the name of the Company will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lila Laboratories (India) Limited

Ahmedabad-380 013, the 21st May 2007

No. 28106 ROC/JTA/(KH) U/s. 560(3)2007/1972.—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lila Laboratories (India) Limited unless cause is shown to the contrary, the name of the Company will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deepak Narrow Fabrics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 21st May 2007

No. 6853 ROC/JTA/(KH) U/s. 560(3)2007/1975.—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deepak Narrow Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, the name of the Company will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bonanza Plastics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 21st May 2007

No. 04-6722 ROC/JTA/(KH) U/s. 560(3)2007/1979.—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bonanza Plastics Private Limited unless cause is shown to the

contrary, the name of the Company will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. V. Communication Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 21st May 2007

No. 34529 ROC/JTA/(KH) U/s. 560(3)2007/1981.—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. V. Communication Private Limited unless cause is shown to the contrary, the name of the Company will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. R. DARA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Patna-800 001, the 17th May 2007

No. ROC/PAT/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regd. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	03-2986	M/s. S. M. Chemicals & Feed Industries Private Limited
2.	03-2973	M/s. Chaitanyaseva Sadan Private Limited
3.	03-2947	M/s. Lok Bhawna Prakashan Private Limited
4.	03-2946	M/s. Nishant Building Construction Private Limited
5.	03-2945	M/s. Wire (India) Private Limited
6.	03-2839	M/s. The Workmen Builders Private Limited
7.	03-2776	M/s. Releeco Pharma Private Limited
8.	03-2740	M/s. Kamdhenu Builders and Engineers Private Limited
9.	03-2739	M/s. Leather and Food Products (India) Private Limited

1	2	3	1	2	3
10.	03-2737	M/s. Chatson Dairy Private Limited	37.	03-2851	M/s. Ranchi Monofilament Industries Private Limited
11.	03-2734	M/s. Patratu Steel Private Limited	38.	03-2841	M/s. Vaishanvi Mata Floor Mills Private Limited
12.	03-2726	M/s. Happly Home Food Products Private Limited	39.	03-2830	M/s. K. M. Auto Private Limited
13.	03-2727	M/s. Blown Felt (India) Private Limited	40.	03-2742	M/s. Mani Singh Construction Company Private Limited
14.	03-2813	M/s. Parmar Foods (India) Private Limited	41.	03-2991	M/s. Prem Tara Nursing Home Private Limited
15.	03-2800	M/s. Flora Foods (India) Private Limited	42.	03-2974	M/s. Golden Sales Private Limited
16.	03-2819	M/s. Eastern India Granite Private Limited	43.	03-2966	M/s. Saraswat Wire Netting Private Limited
17.	03-2840	M/s. Rajdhani Wood Craft Private Limited	44.	03-2955	M/s. Sri Ram Rexine Cloth Manufacturing Company Private Limited
18.	03-2854	M/s. Hotel Lichchhvi Private Limited	45.	03-2440	M/s. Hipocrate Pharma Private Limited
19.	03-2856	M/s. Alka Industrial Oils Private Limited	46.	03-2953	M/s. Ranvir Construction & Carriers Private Limited
20.	03-2862	M/s. Neil Pharmaceuticals Private Limited	47.	03-2411	M/s. Prolate Commercial Private Limited
21.	03-2891	M/s. Ramawtar Nursing Home Private Limited	48.	03-2962	M/s. Wazir Group Construction Company Private Limited
22.	03-2894	M/s. Electrode Eastern Private Limited	49.	03-2944	M/s. Encon Plastics Private Limited
23.	03-2466	M/s. Orbit Food Private Limited	50.	03-2932	M/s. Saraswati Construction Limited
24.	03-2401	M/s. Tirupati Agro Engineers Private Limited	51.	03-2938	M/s. Kamdhenu Mechanised Bricks Private Limited
25.	03-2406	M/s. S. K. Castings Private Limited	52.	03-2997	M/s. Kay Pee Wheat Products Private Limited
26.	03-2408	M/s. Ramkrishna Construction Private Limited	53.	03-2972	M/s. Prasad & Singh Construction Private Limited
27.	03-2430	M/s. Gyanrupam Agro-Products Private Limited	54.	03-2959	M/s. Raj Chikitsa Private Limited
28.	03-2438	M/s. United Polymax (Hindustan) Limited	55.	03-2948	M/s. Chouhan Brothers Silk Textiles (India) Private Limited
29.	03-2446	M/s. Dorcey Pharmaceuticals Private Limited	56.	03-2943	M/s. Ajay Construction Company Private Limited
30.	03-2646	M/s. The Triveni Properties and Enterprises Private Limited	57.	03-10034	M/s. Dhanshree Consultancy Private Limited
31.	03-2662	M/s. Eastern Medi Clinics Private Limited	58.	03-10022	M/s. Kamesh Contractor Private Limited
32.	03-2697	M/s. Exsem Travels Private Limited	59.	03-10021	M/s. Dream Care Network Marketing Private Limited
33.	03-2940	M/s. OM Shanti Flour Mills Private Limited	60.	03-9847	M/s. Ganga Concept Network Marketing Private Limited
34.	03-2961	M/s. Ibrc Construction Private Limited	61.	03-9174	M/s. Amrit Food Products Private Limited
35.	03-2952	M/s. S. D. M. Construction & Carriers Private Limited	62.	03-9193	M/s. Maa Tara Awasan Private Limited
36.	03-2852	M/s. Pratik Castings Private Limited			

1	2	3
63.	03-9171	M/s. Samar Infosystem Private Limited
64.	03-9965	M/s. Guidance Point Education Network Private Limited
65.	03-9131	M/s. Sarvottam Cattle Feed Private Limited
66.	03-2811	M/s. Hotel Rajkiran Private Limited
67.	03-2818	M/s. ACP Systems Private Limited
68.	03-2814	M/s. S. D. Wire & Allied Industries Private Limited
69.	03-2821	M/s. Mechtrust (India) Private Limited
70.	03-2827	M/s. Hotel Jaidev Private Limited
71.	03-2835	M/s. Data Bus Private Limited
72.	03-2859	M/s. Sahu Chemicals Private Limited
73.	03-2863	M/s. Maple Laminates Private Limited
74.	03-9854	M/s. Nice Consumer Services Private Limited
75.	03-9103	M/s. Bhagwati Hotel Private Limited
76.	03-10091	M/s. Bharti Digital Emporium Private Limited
77.	03-9434	M/s. Aniket Nandan Food Private Limited
78.	03-9709	M/s. Belsand Construction Private Limited
79.	03-9263	M/s. Maa Jaya Rolling Mill Private Limited
80.	03-9354	M/s. Janjati Technical Institute Private Limited
81.	03-9190	M/s. Blue Triangle Pharmaceutical Private Limited
82.	03-9373	M/s. Marutinandan Construction Private Limited
83.	03-3040	M/s. Vikramshilla Silkotex (India) Private Limited
84.	03-3993	M/s. Pranab Construction & Builders Private Limited
85.	03-3493	M/s. Tacasi Pharmaceuticals Private Limited
86.	03-3625	M/s. Tushar Chemicals Private Limited
87.	03-584	M/s. Janta Manufacturing & Trading Co. Private Limited
88.	03-3498	M/s. Shree Ishwarchandra Ojha Nursing Home Private Limited
89.	03-5707	M/s. Sandisc Marketing & Developers Private Limited

1	2	3
90.	03-0028	M/s. Thakurganj Rice Mills Private Limited
91.	03-3023	M/s. Ranchi Food Products Private Limited
92.	03-5426	M/s. Supriya Re-Rolling Mills Private Limited
93.	03-9414	M/s. Gupta Brothers Builders & Developers Private Limited
94.	03-9119	M/s. Madhesia Agro Private Limited
95.	03-9416	M/s. Satnam Exports Private Limited
96.	03-9917	M/s. Bihar Quest Network Marketing Private Limited
97.	03-9814	M/s. Lichhawi Media Communication Private Limited
98.	03-9156	M/s. Sai Ram Developers Limited
99.	03-9301	M/s. Right Step Securities & Intelligence Private Limited
100.	03-9712	M/s. Technomart Impex Private Limited
101.	03-9847	M/s. Computer Design Private Limited
102.	03-2269	M/s. Jhanjhri Minnerals Private Limited
103.	03-2367	M/s. Jhanjhri Cements Private Limited
104.	03-2316	M/s. Jhanjhri Glass Industries Private Limited

K. PRASAD

Registrar of Companies  
Bihar & JharkhandIn the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kay Diamond Tools Private Limited

Panaji-403 001, the 16th May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00064/TA(K)/1016/5925.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kay Diamond Tools Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE

Registrar of Companies  
Goa, Daman and DiuIn the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tato Foods Private Limited

Panaji-403 001, the 21st May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00062/TA(K)/1361/5933.—Notice is hereby given pursuant to

Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tato Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiria Industrial and Laboratory Chemicals  
Private Limited

Panaji-403 001, the 21st May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00099/  
TA(K)/2653/5968.—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that  
at the expiration of three months from the date hereof the  
name of M/s. Shiria Industrial and Laboratory Chemicals  
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will  
be struck off from the Register and said Company will be  
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tajmahal Investment and Trading Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00130/  
TA(K)/472/5970.—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that  
at the expiration of three months from the date hereof the  
name of M/s. Tajmahal Investment and Trading Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off from the Register and said Company will be  
dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dream Farms Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00114/  
TA(K)/2534/5973.—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that  
at the expiration of three months from the date hereof the  
name of M/s. Dream Farms Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Exotic Gems Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2007

No. U/s. 560(3)/MCA/RoC-Goa/Sec. 560/2007/00090/  
TA(K)/2637/5978.—Notice is hereby given pursuant to Sub-  
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that  
at the expiration of three months from the date hereof the  
name of M/s. Exotic Gems Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off from the Register  
and said Company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies :

Kechi, the 18th April 2007

No. U/s 560(3)/SM/ROC-Ekm/5129/2007.—Notice is  
hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of  
the Companies Act, 1956 that at the expiration of three  
months from the date hereof the name of the following  
Companies unless cause is shown to the contrary, will be  
struck off from the Register and the said Companies will be  
dissolved :—

Sl. No.	Regd. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	2148	M/s. Arya Ayurvedic Pharmacy Private Limited
2.	2174	M/s. Swift Marketeers Private Limited
3.	2175	M/s. Quilon Cashew Processing Co. Private Limited
4.	2185	M/s. Peonani Loans and Kuries Private Limited
5.	2186	M/s. Ernakulam Automobiles Private Limited
6.	2213	M/s. Kotachery Chit and Trading Co. Private Limited
7.	2228	M/s. Tourist Enterprises Alwaye Private Limited
8.	2237	M/s. Kuzhoor Chitties Private Limited



1	2	3	1	2	3
9.	2252	M/s. Peninsular Farms and Dairy Products Private Limited	38.	2783	M/s. Cochin Synthetic Chemicals Private Limited
10.	2277	M/s. Thuruthipuram Chits and Enterprises Private Limited	39.	2787	M/s. Auto Components and Allied Products Private Limited
11.	2282	M/s. Ermec India Private Limited	40.	2792	M/s. Cooltek Private Limited
12.	2296	M/s. Jayabhadra Cashew Industries Private Limited	41.	2794	M/s. Formskib Solvex Private Limited
13.	2318	M/s. Jyothi Trades and Agencies Private Limited	42.	2810	M/s. Building Components and Constructions Private Limited
14.	2345	M/s. Prasad Pharmacy Private Limited	43.	2811	M/s. Janakshemam Printing and Publishing Co. Private Limited
15.	2365	M/s. Thykoodan Seafood Exports Private Limited	44.	2817	M/s. Bro Sis Electrical Industries Private Limited
16.	2366	M/s. Academic Press Private Limited	45.	2839	M/s. Madonna Chemicals Private Limited
17.	2379	M/s. Kerala Sea Bear Brewries Private Limited	46.	2847	M/s. Universal Garments Private Limited
18.	2385	M/s. Rashmi Chit Funds Private Limited	47.	2849	M/s. Dakshina Bharath Hindi Prachar Sabha Printing Co. Private Limited
19.	2395	M/s. Uma Roadlinks Private Limited	48.	2854	M/s. Industrial Lime and Allied Products Private Limited
20.	2400	M/s. Darrah Smail and Co. Kerala Private Limited	49.	2858	M/s. Ayyappa Swamy Constructions Private Limited
21.	2401	M/s. Naresh Chit Funds Private Limited	50.	2883	M/s. Pattam Tara Hotels Private Limited
22.	2422	M/s. Thejus Kuries and Trades Private Limited	51.	2886	M/s. Tinkara Tronics Private Limited
23.	2426	M/s. St. Josephs Press and Allied Industries Private Limited	52.	2889	M/s. Cochin Packaging Industries Private Limited
24.	2463	M/s. Deepti Printers Private Limited	53.	2896	M/s. Trivandrum Engineers Private Limited
25.	2486	M/s. Blue Bell Winery Private Limited	54.	2898	M/s. Jeltros Private Limited
26.	2511	M/s. Coromandal Paper Crafts Private Limited	55.	2911	M/s. St. Vincent Industries and Engineering Co. Private Limited
27.	2542	M/s. Best Nut Enterprises Private Limited	56.	13341	M/s. Novascotia Polymers Private Limited
28.	2549	M/s. Parakkottil Starch Products Private Limited	57.	14335	M/s. Enrich Fertilizers Private Limited
29.	2555	M/s. Kairali Newspapers Private Limited	58.	2915	M/s. Southern Engineering and Consultancy Services Private Limited
30.	2574	M/s. South Western Chemicals Private Limited	59.	2922	M/s. Arcot Investment and Export Co. Private Limited
31.	2583	M/s. Shree Venkatesh Rubber Industries Private Limited	60.	2976	M/s. Fire Mac Surveyors Private Limited
32.	2584	M/s. Grubs Engineers Private Limited	61.	2978	M/s. Pallava Vases Private Limited
33.	2593	M/s. Quilon Electrical Engineering Goods Industries and Agencies Private Limited	62.	2984	M/s. Kerala United Carbide Private Limited
34.	2653	M/s. Bees Barium Compounds Private Limited	63.	2985	M/s. Karnataka Ceramics Private Limited
35.	2700	M/s. Cairdo Combines Private Limited	64.	2995	M/s. Electronic and Electromechanical Private Limited
36.	2713	M/s. Prasanth Printers Private Limited	65.	3002	M/s. Speedway Shipping Private Limited
37.	2770	M/s. Eastern Pilgrims Private Limited			

1	2	3
66.	3004	M/s. Builders and Commercial Travel Agency Private Limited
67.	3015	M/s. Seaton Chemicals Private Limited
68.	3038	M/s. Surendra Chit Funds Private Limited
69.	3063	M/s. Universal Nitriders Private Limited
70.	3073	M/s. Samrambha Chitra Private Limited
71.	3088	M/s. Universal Industrial Security Services Private Limited
72.	3102	M/s. Sada and Company Private Limited
73.	3105	M/s. Factory Security Agency Private Limited
74.	3173	M/s. Webros Canning Private Limited
75.	3181	M/s. Krishna Chemicals and Allied Products Private Limited
76.	3193	M/s. B. S. T. Saw Mills Private Limited
77.	3207	M/s. Cochin Transport Co. Private Limited
78.	3217	M/s. Bombay Industrial Chemicals Private Limited
79.	3227	M/s. Sire Exports Private Limited
80.	3242	M/s. Samthripty Kuries Private Limited
81.	3243	M/s. Leo Construction Co. Private Limited
82.	3265	M/s. Automotive Springs and Components Private Limited
83.	3279	M/s. New Benefit Chits Private Limited
84.	3288	M/s. Vidhyut Meters Private Limited
85.	3289	M/s. Mini Cine Enterprises Private Limited
86.	3290	M/s. Kalpaka Engineering and Transporting Co. Private Limited
87.	3294	M/s. Mangalore Printers and Publishers Private Limited
88.	3309	M/s. Plastech P. V. C. Cables and Systems Private Limited
89.	3336	M/s. Siltec Ceramics Private Limited
90.	3371	M/s. Gomez Botting Private Limited
91.	3372	M/s. Pam Con Private Limited
92.	3375	M/s. Kerala Pathrika Private Limited
93.	3389	M/s. Phoenix Rubbers Private Limited
94.	3393	M/s. Thushara Agencies and Traders Private Limited
95.	3405	M/s. Deepa Hotels Private Limited
96.	3408	M/s. Trivandrum Exporting Co. Private Limited

1	2	3
97.	3409	M/s. Highway Inn Private Limited
98.	3419	M/s. Malayil Hotel Private Limited
99.	3421	M/s. Abhivradhi Kuries and Loans Private Limited
100.	3428	M/s. General Constructions Private Limited
101.	3431	M/s. Manava Printing and Publishing Co. Private Limited
102.	3440	M/s. Mala Engineering and Constructions Private Limited
103.	3445	M/s. Bhavana Kuries and Traders Private Limited
104.	3446	M/s. Grameena Chitties and Loans Private Limited
105.	3459	M/s. Green Acres Housing Development Co. Private Limited
106.	3486	M/s. Grasso Engineering Agencies Private Limited
107.	3490	M/s. Trichur Auctioneers and Traders Private Limited
108.	3499	M/s. Indo Trade Exports Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Copia Investment Holdings Private Limited  
Ernakulam-682 021, the 16th May 2007

No. 560(3)/MCA/ROC-Ernakulam/Sec. 560/2007/00021/5545.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Copia Investment Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753 001, the 16th May 2007

No. ROC/Sec. 560(5)/848.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have

this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-003207	M/s. Imperial Granite & Minerals Private Limited
2.	15-003219	M/s. Kusum Agro Products Private Limited
3.	15-003223	M/s. Digisoft Computers Private Limited
4.	15-003230	M/s. Shiva Estate Private Limited
5.	15-003232	M/s. Lord Engineering & Consultancy Services Private Limited
6.	15-003235	M/s. Brightstar Engineering Cross Ways Private Limited
7.	15-003236	M/s. Jai Prakash Housing and Builders Private Limited
8.	15-003244	M/s. P and P International Private Limited
9.	15-003246	M/s. New India Musical and Cassette Co. Private Limited
10.	15-003251	M/s. Kalinga Times Private Limited
11.	15-003258	M/s. Eastern Industrial Security Services Private Limited
12.	15-003262	M/s. Orissa Business Linkage Private Limited
13.	15-003272	M/s. Leopad India Private Limited
14.	15-003274	M/s. Krishna Steel Private Limited
15.	15-003285	M/s. Hotel Shakti Private Limited
16.	15-003292	M/s. Manikanta Financial Company Private Limited
17.	15-003295	M/s. United Prawn Hatchery Private Limited
18.	15-003303	M/s. Sriram Plantations & Resorts Private Limited
19.	15-003307	M/s. Peterberg Breweries Private Limited
20.	15-003310	M/s. East West Housing Private Limited
21.	15-003311	M/s. Ganapati Engineering Private Limited
22.	15-003312	M/s. Zenith Aqua Estates Private Limited
23.	15-003315	M/s. Delta Developers Private Limited
24.	15-003318	M/s. Supra Super Fast Services Private Limited
25.	15-003322	M/s. Nexcon Computing Machines Private Limited

1	2	3
26.	15-003325	M/s. Prestige Small Investment Co. Private Limited
27.	15-003334	M/s. Martha Builders and Suppliers Private Limited
28.	15-003335	M/s. Meg Services Private Limited
29.	15-003336	M/s. Utkal Security Services Private Limited
30.	15-003337	M/s. Simon Business Link Private Limited
31.	15-003338	M/s. Madhuri Vidio Parlour Private Limited
32.	15-003357	M/s. Baba Granites Private Limited
33.	15-003359	M/s. Sidhidata Hygienies Private Limited
34.	15-003372	M/s. Kalpataru Plantations Private Limited
35.	15-003374	M/s. Great India Pharmaceuticals Private Limited
36.	15-003375	M/s. Kanhaiya Soap & Oil Industries Private Limited
37.	15-003376	M/s. Maitree Developers Private Limited
38.	15-003384	M/s. Biotechnologies Private Limited
39.	15-003388	M/s. A. B. T. Engineers Private Limited
40.	15-003392	M/s. M. M. Builders & Promoters Private Limited
41.	15-003395	M/s. Trisent Pharmaceuticals Private Limited
42.	15-003402	M/s. Shrushti Advertising Private Limited
43.	15-003404	M/s. Silpa Exports Private Limited
44.	15-003405	M/s. Ex-Service Commercial Link Private Limited
45.	15-003418	M/s. D. P. Associates Private Limited
46.	15-003422	M/s. Surya Security Service Private Limited
47.	15-003433	M/s. Chaudhury Ispat Private Limited
48.	15-003436	M/s. Harmony Apperments Private Limited
49.	15-003440	M/s. Rajdhani Security Services Private Limited
50.	15-003441	M/s. Deb Mechtek Private Limited
51.	15-003456	M/s. Raj Video Parlour Private Limited
52.	15-003467	M/s. Shree Khetra Marketing Private Limited

1	2	3
53.	15-003469	M/s. City Security Services Private Limited
54.	15-003470	M/s. Nabalaxmi Farms Private Limited
55.	15-003472	M/s. Birja Transport Private Limited
56.	15-003475	M/s. Kalinga Marketing Private Limited
57.	15-003479	M/s. Evergreen Plantation & Housing Finance Private Limited
58.	15-003484	M/s. Infosystems Private Limited
59.	15-003486	M/s. Samlai Power Private Limited
60.	15-003487	M/s. Orissa Consumer Services Private Limited
61.	15-003493	M/s. Devine Finance and Investment Private Limited
62.	15-003495	M/s. Galaxy Systems Private Limited
63.	15-003496	M/s. Kalinga Green Plantation Private Limited
64.	15-003507	M/s. Orien Energy Systems Private Limited
65.	15-003523	M/s. Utkal Green Plantation & Housing Finance Private Limited
66.	15-003527	M/s. Vecon Systems Private Limited
67.	15-003530	M/s. Jai Matadi Cold Storage Private Limited
68.	15-003532	M/s. Ashoka Trading & Exports Private Limited
69.	15-003533	M/s. Nabeen Publications Private Limited
70.	15-003536	M/s. Eklavya Plantations Private Limited
71.	15-003549	M/s. P. P. M. Builders Properties Private Limited
72.	15-003551	M/s. Brahmini Pisciculture Plantation Private Limited
73.	15-003552	M/s. Care Food Industries Private Limited
74.	15-003560	M/s. Grani Brook Private Limited
75.	15-003565	M/s. Citee Service Private Limited
76.	15-003582	M/s. Alaksh Marketing & Leasing Private Limited
77.	15-003588	M/s. Hitech Electric Industries Private Limited
78.	15-003590	M/s. L. M. Foods Private Limited
79.	15-003596	M/s. Viswakarma Real Estate Private Limited
80.	15-003603	M/s. Kharavel Estates Private Limited

1	2	3
81.	15-003608	M/s. J. B. Ferro Alloys Private Limited
82.	15-003617	M/s. D. P. S. Rice Mills Private Limited
83.	15-003619	M/s. Travel Plus Private Limited
84.	15-003621	M/s. Solvo Builders Private Limited
85.	15-003626	M/s. Caramba Marketing Private Limited
86.	15-003638	M/s. Origene Bioseds (India) Private Limited
87.	15-003645	M/s. Sri Jagannath Gems Academy Private Limited
88.	15-003655	M/s. Emess Minerals Private Limited
89.	15-003661	M/s. Raising Finance and Investment Private Limited
90.	15-003662	M/s. Prime Consultant and Services Private Limited
91.	15-003663	M/s. J. B. S. Developers Private Limited
92.	15-003667	M/s. Puspahas Plantations and Hill Resorts Private Limited
93.	15-003676	M/s. Subhashree Wire Products Private Limited
94.	15-003677	M/s. Sunbay Shrimps Private Limited
95.	15-003692	M/s. Laxmi Prakash Steels Private Limited
96.	15-003693	M/s. Oceland Bio-Dynastics Limited
97.	15-003698	M/s. Venkat Laxmi Farms Private Limited
98.	15-003699	M/s. Veejeet Exim Private Limited
99.	15-003702	M/s. Samarpon Aqua Culture Private Limited
100.	15-003711	M/s. Mahavir Drugs & Co. Private Limited
101.	15-003713	M/s. Chotnagpur Herbal Agro Private Limited
102.	15-003719	M/s. Auro Securities Private Limited
103.	15-003724	M/s. Kalinga Cashew Processors Private Limited
104.	15-003729	M/s. Sai Housing and Constructions Private Limited
105.	15-003730	M/s. Hospitality Ventures Private Limited
106.	15-003732	M/s. Supreme Wood and Chemicals Private Limited
107.	15-003735	M/s. Royal Iron & Spokes Company Private Limited
108.	15-003736	M/s. Indu Electronics Private Limited

	3
109. 15-003742	M/s. Sri Jagannath Oil Industries Private Limited
110. 15-003747	M/s. Media Publications Private Limited
111. 15-003748	M/s. M. S. Chemicals Private Limited
112. 15-003750	M/s. Neeladri Builders Private Limited
113. 15-003753	M/s. Samvab Trading & Aqua Culture Private Limited
114. 15-003760	M/s. Lalita Aluminium Industries Private Limited
115. 15-003771	M/s. Varun Marine Products Private Limited
116. 15-003772	M/s. Krishna Housing & Construction Co. Private Limited
117. 15-003779	M/s. Pappu Manoj Associates Private Limited
118. 15-003785	M/s. Orissa Ore Calibrators Private Limited
119. 15-003789	M/s. Sarthak Aquatics Private Limited
120. 15-003794	M/s. Fly Ash Bricks & Allied Products Private Limited
121. 15-003803	M/s. Paryavaran Plantations Private Limited
122. 15-003819	M/s. M. H. C. Mineral & Resorts Private Limited
123. 15-003829	M/s. Patra Aquaculture Private Limited
124. 15-003832	M/s. Metal Treats & Processors Private Limited
125. 15-003833	M/s. See Aqua Firm Private Limited
126. 15-003835	M/s. Infotech Kalina Private Limited
127. 15-003844	M/s. Eastern Star Marketing Private Limited
128. 15-003848	M/s. Sapphira Multi Purpose Agricultural Farm Private Limited
129. 15-003849	M/s. Satya Construction & Research Private Limited
130. 15-003853	M/s. Meghason Match Wood Private Limited
131. 15-003859	M/s. Aqua-Marines Private Limited
132. 15-003862	M/s. Gita Rice Industries Private Limited
133. 15-003867	M/s. K. B. Papers Private Limited
134. 15-003875	M/s. Bajrang Marine Products Private Limited
135. 15-003877	M/s. Gagan Plantation Private Limited
136. 15-003887	M/s. Maa Bhairabi Aluminium Industries Private Limited
137. 15-003931	M/s. Nayak & Nayak Allied Energy Services Limited

1	2	3
138. 15-003959	M/s. Rasi Foods Private Limited	
139. 15-003968	M/s. Zee Vee Estate Developers Private Limited	
140. 15-003969	M/s. Neelachal Electronics & Telecommunications Private Limited	
141. 15-003970	M/s. Uma Maheswari Security Services Private Limited	
142. 15-003971	M/s. Springdale Constructions Private Limited	
143. 15-003976	M/s. Sunrise Finance Private Limited	
144. 15-003980	M/s. Mohanty and Mohanty Engineering Works Private Limited	
145. 15-003985	M/s. Nexus Communications Private Limited	
146. 15-003995	M/s. Generx Services Private Limited	
147. 15-004000	M/s. Raagee Minerals Private Limited	
148. 15-004006	M/s. Petco Electronics Private Limited	
149. 15-004007	M/s. Cannonmate Electronics Private Limited	
150. 15-004017	M/s. J. J. Engineering Industries Private Limited	
151. 15-004028	M/s. Black Tiger Security Services Private Limited	
152. 15-002035	M/s. Indo-Global Aquatics Private Limited	
153. 15-004068	M/s. Kartik Agencies Private Limited	
154. 15-004069	M/s. Shree Durga Transport Private Limited	
155. 15-004077	M/s. Indicom Exports Private Limited	
156. 15-004078	M/s. Golden Triangle Real Estate & Developers Private Limited	
157. 15-004080	M/s. Shree Jagannath Systems Private Limited	
158. 15-004088	M/s. Unitek Systems Private Limited	
159. 15-004089	M/s. Ashirbad Investment & Finance Private Limited	
160. 15-004094	M/s. Zyro Informatics Private Limited	
161. 15-004097	M/s. Hotel Samudra Samrat & Tourism Private Limited	
162. 15-004119	M/s. Joga Kalia Security Services Private Limited	
163. 15-004120	M/s. Green Scape (Orissa) Private Limited	
164. 15-004127	M/s. Auromaa Consultancy Services Private Limited	
165. 15-004138	M/s. Eastern Leathers Private Limited	
166. 15-004144	M/s. Rainbow Exports Private Limited	

2	3	1	2	3
167. 15-004150	M/s. Nagabali Agro Industries Private Limited	191. 15-004353	M/s. Ravi Ranjan Exports & Imports Private Limited	
168. 15-004160	M/s. Greeny Plants and Animals Private Limited	192. 15-004356	M/s. Almech Private Limited	
169. 15-004162	M/s. Life Line Private Limited	193. 15-004358	M/s. Neelachal Builders Private Limited	
170. 15-004172	M/s. Supra Developers Private Limited	194. 15-004359	M/s. Sri Gopal Components Private Limited	
171. 15-004176	M/s. Shri Ambika Rice Mill Private Limited	195. 15-004366	M/s. Gupta Infotech Private Limited	
172. 15-004186	M/s. Orian Informatics Private Limited	196. 15-004368	M/s. Chhottaray Estate Private Limited	
173. 15-004199	M/s. Jain Thirani Oin & Plantation Industries Private Limited	197. 15-004379	M/s. Modern Security Private Limited	
174. 15-004222	M/s. Stallion Telecom Private Limited	198. 15-004381	M/s. L. A. Management Services Private Limited	
175. 15-004236	M/s. Utkal Zinc Oxidex Private Limited	199. 15-004389	M/s. Sintech Engineers Private Limited	
176. 15-004248	M/s. Kenaf Seeds Private Limited	200. 15-004394	M/s. Taj Builders Properties Developers Private Limited	
177. 15-004249	M/s. Aftrek Trade & Commerce Int. Private Limited	201. 15-004395	M/s. Aradhana Estates & Builder Private Limited	
178. 15-004256	M/s. Steel Cements Private Limited	202. 15-004401	M/s. Ashis Roadlines Private Limited	
179. 15-004257	M/s. Para Security Service Private Limited	203. 15-004405	M/s. Amen Control Systems Private Limited	
180. 15-004262	M/s. Nisha Financial Services Private Limited	204. 15-004424	M/s. X. 2000 Tours & Travels Private Limited	
181. 15-004268	M/s. Alfa Air Products Private Limited	205. 15-004435	M/s. Ananta Poly Plast Private Limited	
182. 15-004279	M/s. Jogakalia Labour Services Private Limited	206. 15-004436	M/s. Jaiswal Polypipes Private Limited	
183. 15-004281	M/s. Smile Associates Private Limited	207. 15-004472	M/s. Kalinga Ceramics Private Limited	
184. 15-004285	M/s. Vikram Refractories Private Limited	208. 15-004479	M/s. Agarwal Road Carriers Private Limited	
185. 15-004291	M/s. Orissa Lamnators Private Limited	209. 15-004485	M/s. Yah Liasoning and Marketing (I) Private Limited	
186. 15-004318	M/s. Ratnagiri Estates Private Limited	210. 15-004486	M/s. Coco Food & Beverage Private Limited	
187. 15-004321	M/s. Mass Construction & Consultancy Private Limited	211. 15-004487	M/s. Kalinga Dairy Limited	
188. 15-004332	M/s. Hotel Auroshree International Limited	212. 15-004492	M/s. Alfa Industrial Security Service Private Limited	
189. 15-004335	M/s. Padmini Computers Private Limited			
190. 15-004344	M/s. Dinesh (India) Construction & Exports Private Limited			

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa